

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2024 — फाल्गुन 30, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 मार्च 2024

अधिसूचना

क्रमांक 3019/1014/21-ब/छ.ग./2024.— राज्य सरकार, गृह विभाग के जावक क्रमांक-5817, दिनांक 18-03-2024 तथा कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. के पत्र क्रमांक 28/चार/लोसचु/2024/2016 दिनांक 14-03-2024 में प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-20 एवं धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा निम्न सूची के कालम नं. (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन-2024 के शांतिपूर्वक सम्पादन हेतु उनके नाम के समक्ष कालम नं. (5) में दर्शित क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव-2024 की अवधि संपन्न होने तक उन्हें विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करती है :-

लोकसभा निर्वाचन 2024, सेक्टर/जोनल अधिकारी हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने हेतु				
सं क्र	सेक्टर का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी हेतु क्षेत्र
1	2	3	4	5
1. जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर				
1	जनुवा	श्री गोपाल कारे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विकासखण्ड जनकपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	माड़ीसरई	श्री एच.एस. गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप सम्भाग जनकपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	हरचोका	श्री एस.पी. त्रिपाठी	प्राचार्य शा.नवीन महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	भरतपुर	श्री महावीर पैकरा	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	सेमरिहा	श्री बेचुलाल सोनवानी	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	जनकपुर	श्री परमानंद	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	कंजिया	श्री सुदर्शन पैकरा	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	बहरासी	श्री विनोद कुमार साहू	उप अभियंता लो.नि.वि. उप संभाग भरतपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	नगरी	श्री मोहित कुमार गुप्ता	उप अभियंता लो.नि.वि. उप संभाग भरतपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	रामगढ़	श्री भारत सिंह	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय केल्हारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	कुवारपुर	श्री भीम सिंह	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय केल्हारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	कोईलरा	श्री ऋषभ कुमार बोरकर	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	जुईली	श्री हेमन्त बंजारे	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	भगवानपुर	श्री विनीत कुमार पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	च्यूल	श्री उत्तम पैकरा	सहायक वन संरक्षक जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	बड़गांवकला	श्री अतुल कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	कमर्जी	श्री जयंत कुमार पटेल	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप सम्भाग भरतपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	बड़गांवाखुर्द	श्री विकेश कुमार कुजूर	उप अभियंता लो.नि.वि. उप सम्भाग जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	दुधासी	श्री राजेश पवन	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	कोटाडोल	श्री ओम प्रकाश पैकरा	पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा कार्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	देवशील	डॉ एम.बी. सिंह	पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा कार्यालय जनकपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

22	केल्हारी	डॉ. आर.बी. शर्मा	पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा कार्यालय केल्हारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	कछौड़	डॉ. शिवकान्त मिश्रा	सहायक प्राध्यापक शा.महाविद्यालय केल्हारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	ताराबहरा	श्री संदीप पन्ना	सहायक प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	बिहारपुर	श्री संतोष तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग (सेतु) मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	घुटरा	श्री गिरीश कुमार कुरचारिया	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. नागपुर मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	नागपुर	श्री सुरेन्द्र जायसवाल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	बरबसपुर	श्री सुशील कुमार तिवारी	सहायक प्रध्यापक शा. विवेकानन्द महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	कठौतिया	डॉ. विनित कुमार भारद्वाज	पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	लालपुर	श्री सागर तिग्गा	प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	चैनपुर	श्री श्रीकान्त लांजेवार	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कोथारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	नई लेदरी	डॉ. व्ही.आर.एस.बघेल	पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	खोंगापानी	डॉ. कोमल प्रसाद राय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ नागपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	मनेन्द्रगढ़-01	श्री शैलेश गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी (पीएमजीएसवाई)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	मनेन्द्रगढ़-02	श्री संजीव कुमार	प्राचार्य बा.उ.मा.वि. मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	झगराखाण्ड	श्री आकाश पोद्दार	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	नारायणपुर	श्री बलराज पाल	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. बेलबहरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	हल्दीबाड़ी	श्री वेद प्रकाश मिश्रा	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कन्या चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	वेस्ट चिरमिरी	श्री शैलेन्द्र मिश्रा	प्रभारी सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	चिरमिरी कालरी	डॉ. रामकिंकर पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक शा.लाहीडी महाविद्यालय चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	डोमनहील	श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी	सहायक प्राध्यापक शा.लाहीडी महाविद्यालय चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	कुरासिया	श्री चन्दन गुप्ता	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. हल्दीबाड़ी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	दुबछोला	डॉ. जितेन्द्र पाल कंवर	शल्यज्ञ पशुचिकित्सालय खड़गवां	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

44	खड़गवा	श्री शान्तनू कुर्रे	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. दुबछोला खड़गवां	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	उधनापुर	श्री अशोक कुमार पटेल	पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सालय	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	बरदर	श्री जय सिंह सारस्वत	सहायक प्राध्यापक शा.लाहीडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	बेलबहरा	डॉ प्रदीप सिंह	सहायक प्राध्यापक शा.लाहीडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	कटकोना	श्री विरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक शा.लाहीडी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

2. जिला- कोरिया

1	छरछा कालरी	श्री प्रकाश कुमार तिवारी,	सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	नगर	श्री एस.एम.तिर्की	प्राचार्य .उ.मा.वि. नगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	खरवत	श्री देवेश जायसवाल	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	महोरा	श्री सिद्धार्थ खैरवार	मण्डल संयोजक आदिवासी विकास विभाग मंडल बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	भाड़ी	श्री एम.सी. हिमधर	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	बैकुण्ठपुर	श्री मुन्नाराम भगत	खेल अधिकारी जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	कटकोना	श्री जे.आर. कवर	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	बुडार	डॉ शुभम वर्मा,	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटनरी हास्पिटल वरपारा बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	पटना	श्री एस.के.ओझा,	उप अभियंता जल संसाधन विभाग, बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	सरभोका	श्री विनय शुक्ला	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	सोरगा	डॉ. राघवेंद्र शर्मा	पशु चिकित्सा अधिकारी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	रनई	डॉ राकेश कुमार शुक्ला	पशु चिकित्सा अधिकारी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	सलका	श्री नीलकांत राजवाड़े,	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन वेटनरी हास्पिटल नगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	मनसुख	डॉ. आर.पी.शुक्ला	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

15	चिलका	श्री अमित कुमार ताम्रकार,	सहायक अभियंता प्र. ग्रा. स. विकास विभाग (पी.एम.जी.एस.वाई.) जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	सरईगहना	श्री शोभित एक्का,	सहायक संचालक, नगर निवेश जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	बड़गांव	श्री रमोद चैधरी	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	बरपारा	श्री रविन्द्र कुमार शर्मा	सहायक मत्स्य अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	बंजारीडांड	श्री गंगासागर पैकरा	उप अभियंता गृह निर्माण मंडल जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	चिरमी	श्री प्रीतपाल सिंह	जिला योजना एवं संख्यांकि अधिकारी जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	पोड़ी	श्री ओंकार सिंह	सहा० अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	बडेसाल्ही	श्री मनोज कुमार खलखो	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	सकरिया	श्री ए.के. सिन्हा	सहायक अभियंता कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी उप संभाग बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	बडेकलुवा	डा० सौरभ बनर्जी	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन वेटनरी हास्पिटल पोड़ी-बचरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	कछाडी	डा० राम स्वरूप सिंह चंदे,	पशु चिकित्सा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, सोनहत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	केशगवां	श्री अनिल जायसवाल,	सहायक जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	लटमा	श्री नीरज अग्रवाल,	उपअभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास विभाग (पी.एम.जी.एस.वाई.)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	कटगोड़ी	श्री शैलेश मिश्रा	सहायक प्राध्यापक शासकीय नवीन माविद्यालय सोनहत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	रजौली	श्री भुपेन्द्र कोरचे	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	चदहा	श्री अजय ठाकुर,	प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल घुघरा, सोनहत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	सोनहत	श्री अरविंद कुमार सिंह	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड सोनहत जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	आनन्दपुर	श्री आर.बी. शिवहरे	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्र.02 बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	गोईनी	श्री कमलेश देवांगन,	कार्यपालन अधिकारी जिला अंतः व्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	नटवाही	श्री देवदत्त सिंह	प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल सोनहत जिला कोरिया,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

35	सेमरिया	श्री लाल सिंह आर्म्हो,	सहायक संचालक कृषि,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	रामगढ़	श्री यशवंत वैष्णव	उप अभियंता, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	बंशीपुर	श्री रुपेश बंजारे,	मंडल संयोजक आदिवासी विकास विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	कचोहर	श्री संजय सिंह,	जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री केशवराजहंस	विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक, विज्ञान केन्द्र जिला कोरिया।	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री अमृत लाल गुप्ता	प्राचार्य शासकीय कन्या स्कूल बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री सी.बी.सिंह	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		डा गौरव कुमार मिश्र	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सि. स्नात्कोत्तर माहा. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		डाँ बृजेश कुमार पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सि. स्नात्कोत्तर माहा. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		डाँ. अशुतोष देउसकर	सहायक प्राध्यापक शा.रा.प्र.सि. स्नात्कोत्तर माहा. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री कमलेश सिंह	विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक, विज्ञान केन्द्र जिला कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री उदय वोबडे	उप अभियंता कार्यालय जल संसाधन बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री जोगेश्वर राम भगत	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड सोनहत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री धर्मपाल चौधरी	प्रधान पाठक मा.शा. तुरीपानी सोनहत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री विवेक सिंह	जिला पंजीयक कार्यालय जिला पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग कोरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री बिरेन्द्र बहादुर तिवारी	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कटगोड़ी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री चिंतामणी चैबे	प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पुसला मो.नं.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

3. जिला- सूरजपुर

1	बसदेई	श्री बृजेश यादव	उप अभियंता लो०नि०विभाग (भवन एवं सड़क) सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	डुमरिया	श्री घनश्याम सिंह	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भैयाथान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

3	सूरजपुर-01	श्री अजय रंजन दास	खनिज अधिकारी सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	सूरजपुर-2	श्री पंडित भारद्वाज	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	पचिरा	श्री अमित सिंह बनाफर	सहायक प्रध्यापक महाविद्यालय सिलफिली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	केतका	श्री विशाल प्रसाद	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ, कार्यालय उप संचालक पशु सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	रामनगर	श्री फूल साय मरावी,	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, भैयाथान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	दतिमा	श्री आशुतोष भगत	सहायक वन संरक्षक कार्यालय वन मण्डला अधिकारी सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	विश्रामपुर	श्री मनोज कुमार साह	संयुक्त वनमण्डलाधिकारी, ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	सलका	श्री अवधेश कुमार कुशवाहा	प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	कन्दरई	श्री शिवनाथ सिंह खुशराम	प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	तेलईकछार	श्री नृपेन्द्र सिंह	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ, कार्यालय उप संचालक पशु सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	कृष्णपुर	श्री ज्ञानेश मुदगल	सहा. प्राध्यापक, शास. महाविद्यालय विश्रामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	देवनगर	श्री अवधेश कुमार सिंह	व्याख्याता, शा0 पॉलीटेक्निक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	पटना	श्री गोवर्धन भारद्वाज	व्याख्याता, शा0 पॉलीटेक्निक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	कौशलपुर	श्री देव सिंह	प्रभारी प्राचार्य, आई0टी0आई0 प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	स्ता	श्री मनोज कुमार साहू	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	मकरंदीपुर	श्री कमलेश कुमार भारद्वाज	प्रभारी प्राचार्य, आई0टी0आई0 विश्रामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	रामानुजनगर	श्री जय प्रकाश शर्मा	औषधी निरीक्षक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	गणेशपुर	श्री मुज्जमिल अहमद	नापतौल निरीक्षक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	परशुरामपुर	श्री शरदेन्दु कुमार शुक्ला	सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	उमेश्वरपुर	श्री दिनेश कुमार द्विवेदी	सह0परियोजना समन्वयक, कार्यालय समग्र शिक्षा सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	सलका	श्री प्रताप सिंह पैकरा	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

24	कोतल	डॉ० ओमप्रकाश	सहायक प्राध्यापक वेटनरी पालिटेक्नीक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	कंचनपुर	श्री गोपेश सिंह यादव	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ, कार्या० उप संचालक पशु सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	प्रेमनगर	श्री अशोक कुमार सोनवानी	कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	महेशपुर	श्री अभिषेक झा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	महोरा	श्री राजीव कुमार दानी	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय गृह निर्माण मंडल सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	छिंदिया	डॉ० तेजराम बंजारा	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	बिहारपुर	श्री संदीप सिन्हा	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	महुली	श्री दूरेश साय पैकरा	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	रामगढ़	श्री सुरेन्द्र कुर्रे	खाद्य निरीक्षक ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	मोहरसोप	श्री रामायण लाल भारीया	सहायक संचालक कार्यालय उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	ठाढपाथर	श्री झगलू राम साण्डेय	सहायक संचालक क्रेडा सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	छतरंग	श्री सुरेन्द्र सिंह पैकरा	सहायक अभियंता कार्यालय आर०ई०एस० संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	खोड़	श्री अनुराग भगत	उप पंजीयक प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	बेदमी	श्री हरिनारायण सिंह राज	सहा० अभियंता कार्या० ग्रा.यां.से. उप संभाग ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	लांजित	श्री विमल कुमार सिंह	सहा० अभियंता कार्या० पी० एच० ई० सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	ओड़गी	श्री अतुल गुप्ता	खाद्य निरीक्षक भैयाथान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	कुदरगढ़	श्री संजय कुमार गोंड	सहा० अभियंता, छ० ग० ग्रा० सडक विकास अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	धरसेड़ी	श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन	, कार्यपालन अभियंता, कार्या० कार्यपालन अभियंता ग्रा० यां० सेवा संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	पकनी	श्री शेखर शुभम निकुंज	सहा० अभियंता, छ० ग० ग्रा० सडक विकास अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	चेन्द्रा	श्री रविशंकर सोनी	सहा० अभियंता, कार्या० कार्यपालन अभियंता ग्रा० यां० सेवा उप संभाग प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	सत्यनगर	श्री आशीष कौशिक	सहा० प्राध्यापक महाविद्यालय सिलफिली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

45	सलका	श्री रमेश साहू	श्रम कल्याण निरीक्षक श्रम विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	राई	श्री भानुप्रताप चन्द्राकर	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	अनरोखा	श्री नीतिश कुमार	खाद्य निरीक्षक, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	चद्रमेढा	श्री संदीप कुमार भगत	सहायक खाद्य अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	चुनगड़ी	श्री दिग्वजय सिंह	सहा० प्राध्यापक कन्या महाविद्यालय सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	तेलगांव	श्री जय सिंह राज	प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	भटगांव	श्री शोभनाथ चैबे	सहा० परियोजना समन्वयक, कार्या० समग्र शिक्षा सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	बरौधी	श्री भुनेश्वर भगत	खाद्य निरीक्षक प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	लक्ष्मीपुर	श्री मोहरसाय सोनवानी	सहायक संचालक मतस्य सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	सुदामानगर	श्री रविन्द्र सिंह देव	सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	भैयाथान	श्री रोशन कुमार चन्द्राकर	रेशम अधिकारी, रेशम विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	खाड़ापारा	श्री शशीकान्त सिंह	जिला मिशन समन्वयक (समग्र शिक्षा) सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	सोनपुर	श्री बजरंग राम पैकरा	सहा० पंजीयक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाए सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	भंवराही	श्री दिनेश कुमार कैवत्र	सहा० प्राध्यापक नवीन महाविद्यालय ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	बंजा	श्री चन्द्रभानु धुव	कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	सिरसी	श्री रोहित कुमार सेठ	सहा० प्राध्यापक नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	केवरा	श्री पतालियुस लकड़ा	सहायक अभियंता जलसंसाधन संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	झिलमिली	श्री धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा	कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	जयनगर	श्री पतरस एक्का	सहायक अभियंता जल संसाधन संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	शिवनंदनपुर	श्री गौरीशंकर शर्मा	उप पंजीयक, कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	लटोरी	श्री सुनिल कुमार पोर्ते	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

66	कल्याणपुर	श्री राजीव कुमार सिंह	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	पाठकपुर	श्री श्रीराम प्रधान	सहा० विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ओड़गी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	सिलफिली	श्री विनोद दुबे	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	महाबीरपुर	श्री रमेश साहू	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	गोविंदपुर	श्री सानुज कुमार घृतलहरे	कार्यपालन अभियंता कार्यालय छ०ग० ग्रामीण विकास अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	कसकेला	श्री एस.के. मिश्रा	अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. (भ/स.) उप संभाग प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	करवां	डा० आशुतोष चैबे	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ, कार्या० उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	रमकोला	श्री अमोस तिकी	सहा. प्राध्यापक शास. कालीदास, महाविद्यालय प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	डांडकरवां	डा० दीपक कुमार कश्यप	सहायक प्राध्यापक वेटनरी पालिटेक्नीक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	नरोला	श्री शैलेन्द्र खरे	व्या. शासकीय पालिटेक्नीक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	चंदौरा	श्री हुलेष्वर गुप्ता	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	गिरिया	डा० रविशंकर चैहान	सहा. प्राध्यापक महाविद्यालय भैयाथान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	लोलकी	श्री मुन्नु सिंह धुर्वे	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	सिलौटा	श्री रोहित रस्तोगी	सहा० प्राध्यापक नवीन महाविद्यालय डुमरिया, जरही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	प्रतापपुर	श्री मति मिंज	महाप्रबंधक, माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	सरहरी	श्री सुधाकर बिसेन	सहायक मतस्य अधिकारी, मतस्य विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	हरिहरपुर	श्री सुखदेव राम भगत	एस०एच०डी०ओ० प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	जरही	श्री रोहित सोनी	जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	सोनगरा	श्री शशी कुमार जायसवाल	खाद्य निरीक्षक सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	खड़गंवाकला	श्री सुरविन्द गुर्जर,	सह० परियोजना समन्वयक, कार्या० समग्र शिक्षा सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	धरमपुर	श्री राधेलाल	स.आ.ले.परि. एवं करारोपण अधिकारी, कार्या. ज.प. प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

87	गौरा	श्री शिवशंकर प्रसाद यादव	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	मसगा	श्री अचल राजवाड़े,	कृषि विकास अधिकारी प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	बरबसपुर	श्री मिथलेश कुमार चक्रधारी	कृषि विकास अधिकारी प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	गेतरा	श्री दीपक सावरगांवकर,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		डाॅ. आषीष तिवारी	प्रभारी प्राचार्य शास. महाविद्यालय डुमरिया (जरही)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री महादेव लहर	कार्यापालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री आकाशदीप पात्रे	एम.डी. प्रबंध संचालक माॅ महामाया शक्कर कारखाना केरता, प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री मनोज कुमार गुप्ता	कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री लक्ष्मण प्रसाद मराबी	अ०वि०अ० विद्युत एवं यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री सोहन लाल भगत	कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री प्रफुल्ल गुप्ता	कृषि विकास अधिकारी, उप संचालक कृषि, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री झमदत्त प्रसाद साहू	प्राचार्य, शा०उ०मा०वि० सलका (प्रेमनगर)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री आलोक कुमार सिंह	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री राजेन्द्र सिंह कुरवंशी,	व्याख्याता, शा०उ०मा०वि० मंहगाई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री भरत नाग	प्राचार्य, शा० कन्या उ०मा०वि० प्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री रामनारायण चंद्रा	प्राचार्य, शा० उ०मा०वि० चन्दननगर (प्रेमनगर)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री पतिराम तोमर	प्राचार्य, शा०उ०मा०वि० भटगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14		श्री अमृत लाल कंवर	प्राचार्य, शा० हाई स्कूल नवापारा सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15		श्री अरविंद यादव,	सहायक राजस्व निरीक्षक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, विश्रामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16		श्री प्रविण कुमार उपाध्याय	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भटगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

17		श्री ऋषभ सिंह चन्देल	सहायक संचालक पंचायत, सूरजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4. जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज				
1	सेक्टर - 1 बलंगी	श्री आसफ तिकी	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	सेक्टर-2 कमलपुर	श्री सुरेंद्र कुमार राठिया	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	सेक्टर - 3 जनकपुर	श्री विजय बहादुर आयाम	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी चलगली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	सेक्टर - 4 रघुनाथनगर	श्री झीलन कुर्रे	कार्यापालन अभियंता पी एम जी एस वाई बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	सेक्टर-5 सरना	श्री राजाराम पुषाम	उप अभियंता, जनपद पंचायत वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	सेक्टर - 6 पंडरी	श्री आनंद दुबे	उप अभियंता, जनपद पंचायत वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	सेक्टर-7 महेवा	श्री जीतेन्द्र कुमार	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	सेक्टर - 8 पेंडारी	श्री मनीष कुमार	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	सेक्टर - 9 पशुपतिपुर	श्री देवेन्द्र यादव	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	सेक्टर-10 बसंतपुर	श्री भीम राम	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अनुमंडल वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	सेक्टर - 11 मुरकौल	श्री हुबलाल अहिंद	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	सेक्टर - 12 सुलसुली	श्री अनिल कुमार सिंह	उप वनमंडलाधिकारी, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	सेक्टर - 13 शारदापुर सु	श्री विजय कुमार भारती	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, अनुमंडल वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	सेक्टर-14 वाडूफनगर	श्री अमलदीप मिंज	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	सेक्टर - 15 पनसरा	श्री भूपेंद्र नायक	श्रम पदाधिकारी, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	सेक्टर - 16 ओदारी	श्री बासिल कुमार मिंज	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	सेक्टर - 17 चलगली	श्री रामकुंवर राम मांझी	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत वाडूफनगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	सेक्टर - 18 बरतीकला	श्री शिवकुमार प्रसाद	उप संचालक कृषि, कृषि विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	सेक्टर - 1 त्रिशूली	श्री विकास कुमार तिवारी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	सेक्टर - 2 पीपरपान	श्री गुरुदेव सिंह कँवर	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

21	सेक्टर - 3 टाटीआथर	श्री नितेश कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग क्र-4 रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	सेक्टर - 4 महादेवपुर	श्री विनोद कुमार राय	जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर- रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	सेक्टर - 5 विमलापुर	श्री निखिल जायसवाल	सहायक अभियंता, हाउसिंग बोर्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	सेक्टर - 6 सनावल	श्री अनिल कुमार सोनपाकर	प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	सेक्टर - 7 ओरंगा	श्री रामप्रकाश जायसवाल	डीएमसी, शिक्षा विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	सेक्टर - 8 चेरवाडीह	श्री आशीष कुमार जगत	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	सेक्टर - 9 चिनिया	श्री शिव कुमार उपाध्याय	ए.पी.सी., शिक्षा विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	सेक्टर - 10 चरगढ़	श्री विनोद कुमार पटेल	ए.पी.सी., शिक्षा विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	सेक्टर - 11 बेलकुर्ता	श्री आशीष कुमार सिन्हा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	सेक्टर - 12 नवाडीह	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	सेक्टर - 13 राधानगर	श्री बी०के० तिवारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	सेक्टर - 14 लोधा	श्री पॉल खलखो	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	सेक्टर - 15 केवली	श्री एस बी कामठे	खाद्य अधिकारी बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	सेक्टर - 16 विजयनगर	श्री विनय कुमार यादव	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	सेक्टर-17 लुर्गी	श्री विजय कुमार पावले	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	सेक्टर - 18 रामानुजगंज	श्री नितेश केरकेट्टा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, अधिकारी नगर पंचायत रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	सेक्टर - 19 भवरमाल	श्री दुर्गेश चन्द्र यादव	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग- रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	सेक्टर - 20 नवापारा	डॉ. एस.एस.सेंगर	अतिरिक्त उप संचालक, पशुधन विकास विभाग रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	सेक्टर - 21 देवीगंज	श्री आर.के.घोसले	प्रभारी सहायक अभियंता, पीएमजीएसवाई, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	सेक्टर - 22 बुलगाव	डॉ० गौरवकान्त निगम	विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	सेक्टर - 23 जामवंतपुर	श्री अनिरुद्ध कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	सेक्टर-24 पाढ़ी	श्री परिमल तिवारी	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

43	सेक्टर - 25 कंडा	श्री नरसिंह भगत	सहायक संचालक कृषि, कृषि विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	सेक्टर - 26 महाराजगंज	श्री रॉबिन्सन सुधीर कुजूर	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	सेक्टर - 27 अतौरी	श्री अनूप कुमार पाल	फार्म मैनेजर, कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	सेक्टर - 28 जवराही	श्री सुकरा राम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	सेक्टर - 29 झपरा	डॉ. अनीश सोनवानी	पशु चिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	सेक्टर - 30 कपिलदेवपुर	श्री आदित नंदन यादव	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	सेक्टर - 31 बलरामपुर	श्री सच्चीदाकान्त	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	सेक्टर - 32 जाबर	डॉ. एस. पी. सिंह	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	सेक्टर - 33 सीतारामपुर	श्री मिथिलेश गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	सेक्टर - 34 कोटपाली	श्री अवधेश प्रजापति	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	सेक्टर - 35 बरदर	श्री पतराम	सहायक संचालक, उद्यान बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	सेक्टर - 36 बादा	श्री अनुपम पाण्डेय	उप अभियंता, जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	सेक्टर - 37 रनहत	श्री राजकुमार पैकरा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	सेक्टर - 38 तातापानी	श्री आशीष मिश्रा	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	सेक्टर - 39 भनौरा	श्री दिवाकर लाल टांडिया	जिला रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	सेक्टर - 40 झलरिया	श्री भूपेश कुमार गुप्ता	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय सहा. भूमि संरक्षण अधि०, रामानुजगंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	सेक्टर -1 करमडीहा	श्री बसंत मिंज	जिला कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	सेक्टर-2 राजपुर	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, ग्रा०या०से० उपसंभाग राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	सेक्टर -3 कोटागहना	श्री सुनील कुमार टोप्पो	उप अभियंता, जनपद पंचायत राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	सेक्टर -4 झिंगो	श्री गोविन्द नारायण सिंह	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	सेक्टर -5 सेवारी	श्री हीरा लाल पटवा	जिला परियोजना अधिकारी, साक्षर भारत बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

64	सेक्टर-6 परती	श्री संजय यादव	प्र०वरिष्ठ कृषि विकास, अधिकारी, राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	सेक्टर-7 बासेन	श्री सुमित कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	सेक्टर-8 अलखडीहा	श्री योगेश नागेश	सहायक अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	सेक्टर-9 चौरा	श्री जहरूद्दीन अंसारी	सहायक अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	सेक्टर-10 गोपालपुर	श्री महेंद्र कुमार साठिल्य	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	सेक्टर-11 धंधापुर	श्री आनंद प्रकाश गुप्ता	ए.पी.सी., शिक्षा विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	सेक्टर-12 बदौली	श्री अरूण कुमार बिर्जे	उप-अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	सेक्टर-13 सिद्धमा	श्री जतरु राम नागदेव	सहायक विकासखंड शिक्षा, अधिकारी राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	सेक्टर-14 बरियों	श्री हेमेन्द्र सिंह राठौर	कृषि विकास अधिकारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	सेक्टर-15 ककना	डॉ राम लखन राम	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	सेक्टर-16 ओकरा	श्री राकेश सोनी	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	सेक्टर-17 परसागुड़ी	श्री विष्णुदयाल परहा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, बरियों	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	सेक्टर-18 कमारी	श्री दिनेश राम	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	सेक्टर-19 डीपाडीहखुर्द	श्री उमाकांत सिंह	कृषि विकास अधिकारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	सेक्टर-20 बेलसर	श्री रविशंकर लाल श्रीवास्तव	उप वनमंडलाधिकारी, राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	सेक्टर-21 चलगली	श्री जय प्रकाश पैकरा	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	सेक्टर-22 शंकरगढ़	श्री एस.एल.कैवर्त्य	कार्यपालन अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	सेक्टर-23 कोरंधा	डॉ महेंद्र सिंह मरकाम	पशु चिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	सेक्टर-24 लडुआ	श्री विरेन्द्र कुमार पैकरा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 02 रा.गंज	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	सेक्टर-25 मनोहरपुर	श्री रामायन उपाध्याय	सहायक अभियंता, क्रेडा बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	सेक्टर-26 डीपाडीहकला	श्री जसकमल सिंह छाबड़ा	उप अभियंता, ग्रा०यां०से० उपसंभाग शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

85	सेक्टर-27 भुनेश्वरपुर	श्री भवेश शर्मा	उप-अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	सेक्टर-28 भरतपुर	श्री रमेश कुमार खलखो	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शंकरगढ़/कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	सेक्टर-29 आसनपानी	श्री विजय कंवर	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	सेक्टर-30 नवाडीह	श्री आर एन सिंह	प्रबंधक खाद्य नागरिक, आपूर्ति निगम बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	सेक्टर-31 उमको	डॉ तनवीर अहमद	उप संचालक, पशुधन विकास विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	सेक्टर-32 रेहड़ा	श्री जानूराम सोनवानी	उप अभियंता, ग्रा0यां0से0 उपसंभाग शंकरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	सेक्टर-33 जिगनिया	श्री विनय कुमार गुप्ता	उप अभियंता, लो.नि.वि.उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	सेक्टर-34 भूलसिकला	श्री तनुज कुमार अम्बष्ट	उप अभियंता, ग्रा0यां0से0 उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	सेक्टर-35 सेमरतला	श्री बेंजामिन तिर्की	उपअभियंता, लो.नि.वि.उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	सेक्टर-36 कुसमी	श्री नारायण साहू	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	सेक्टर-37 कटिमा	श्री ज्योतिष कुमार तिग्गा	अनुविभागीय अधिकारी उपसंभाग कुसमी, लो.नि.वि. उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	सेक्टर-38 जवाहरनगर	श्री प्रदीप केरकेट्टा	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	सेक्टर-39 कोरंधा	श्री नारायण प्रसाद डहरिया	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
98	सेक्टर-40 मदगुरी	श्री राम कुमार तिर्की	उप-अभियंता, पीएमजीएसवाई राजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	सेक्टर-41 गजाधरपुर	श्री सुदर्शन उरांव	सहा.अभियंता, ग्रा0यां0से0 उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	सेक्टर-42 अमटाही	श्री अम्बरीष यादव	प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रा0यां0से0 उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
101	सेक्टर-43 चरहटकला	श्री श्याम विश्वास	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
102	सेक्टर-44 टाटीझरिया	श्री गोवर्धन राम	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
103	सेक्टर-45 पुंदाग	श्री मिथलेश कुमार चौबे	उप अभियंता, ग्रा0यां0से0 उपसंभाग कुसमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
104	सेक्टर-46 चांदो	श्री मनोहर लाल जायसवाल	सहायक जिला परियोजना अधिकारी, आर एम एस ए बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
105	सेक्टर-47 बसकेपी	श्री आर. एन. पैकरा	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

106	सेक्टर-48 मगाजी	श्री लक्ष्मी गुप्ता	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
107	सेक्टर-49 इदरीकला	श्री राजेश कुमार कुजूर	सहायक अभियंता, पीएमजीएसवाय, बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री दिलीप डहरिया	कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग बलरामपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री छविनन्द साहू	उप अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री संतोष कुमार पाण्डेय	वनपाल, वन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री रामकुमार ध्रुव	अनुविभागीय अधिकारी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री रामचंद्र भगत	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री संतोष श्रीवास्तव	जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकीय विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री ओ पी साह	कार्यपालन अभियन्ता, जिला अनत्यावसायी विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री रामाधीन राम	उप अभियन्ता, जनपद पंचायत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री राजकमल केरकेट्टा	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री रविशंकर सहीस	उप अभियन्ता, पीएमजीएसवाय	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री विमल प्रसाद पैकरा	उप अभियन्ता, ग्रा0यां0से0 विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

5. जिला- सरगुजा

1	1 - बढनीझरिया	श्री बाल किशन मेहरोत्रा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2 - नर्मदापारा-क	श्री विकास सरावगी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3 - सोनपुरकला	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4 - रामनगर	श्री दिनेश शर्मा	सहायक परि0 समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5 - केपी	श्री अशोक दुबे	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लुण्डा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6 - अजिरमा	श्री करूणेश चन्द्र श्रीवास्तव	सहायक परि0 समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

7	7 - सखौली	श्री बी. के. यादव	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लुण्डा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8 - डुमकी	श्री ओंकार सिंह	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9 - जूना-कुदर	श्री ओम प्रकाश मिश्रा	उपअभियंता, मत्स्योद्योग, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10 - किशुनपुर	श्री पी. एस. दीवान	उपसंचालक, कृषि, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11 - देवरी	श्री एच० एस० नायक	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12 - अगासी	श्री देवेन्द्र सिन्हा	जिला खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13 - चिरंगा	श्री संजय प्रसाद	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ईकाई क्र.1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14 - करांकी	श्री व्ही.पी. सतनामी	उपसंचालक, पशु चिकित्सा, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15 - झेराडीह-क	श्री अजय सिंह कुशवाहा	उपसंचालक उद्यान, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16 - बरगीडीह	श्री दुखहरण प्रसाद डहरिया	उप अभियंता, छ.ग.ग्रामीण सड़क योजना परि.क्रि. इ. क्र.2 (ब्रिज)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17 - बटवाही-क	श्री अजयदान एक्का	उप अभियंता, जलसंसाधन श्याम नहर उपसंभाग क्र. 2 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18 - बुलगा	श्री प्रखर बेले	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19 - बटवाही-ख	श्री जैनेन्द्र विश्वकर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20 - सुमेरपुर-ख (लालमाटी)	श्री विवेक गुप्ता	सहायक संचालक, ग्रामोद्योग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21 - सोहगा-1	श्री ए०के० खलखो	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना ग्रामीण संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22 - मनीपुर	श्री अशोक कुमार सिन्हा	सहायक संचालक, जिला शिक्षा कार्यालय, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23 - बरढोढ़ी	श्री राम प्रसाद जगत	उप अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24 - लिबरा	श्री अरविन्द कुमार आर्मो	उपअभियंता, जलसंसाधन संभाग क्र.1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25 - सिंगीटाना	श्री संदीप कुमार रवि	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ईकाई क्र.1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26 - अमदला	श्री बाबूराम दीपक विश्वकर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लखनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

27	27 - कटिन्दा-1	श्री विक्रम राज साहू	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28 - कुंवरपुर-1	श्री जयपाल सिंह	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लखनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	29 - सकरिया	श्री प्रवेश कुमार राय	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लखनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	30 - डांडकेसरा	श्री सुनील कुमार गुप्ता	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	1 - स्कूल पारा पटपरिया	श्री ए. के. मिंज	कार्यपालन अभियंता, हाउसिंग बोर्ड संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	2 - डिगमा-1	श्री अनिल कुमार शर्मा	उप अभियंता, जलसंसाधन उपसंभाग उदयपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	3 - मुक्तिपारा	श्री विकास वर्मा	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि./या.) अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	4 - जोड़ापीपल (केदारपुर)	श्री सी०एल० कोष्टा	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (वि./या.) अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	5 - डी.सी. रोड़	श्री सतीश रवि	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	6 - बौरीपारा शिकारी रोड़	श्री शितेन्द्र नाथ दुबे	सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग छ०ग०ग्रा०स०वि०अ० अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	7 - मायापुर -1	श्री ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग छ०ग०ग्रा०स०वि०अ० अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	8 - दत्ताकालोनी	श्री दुष्यंत कुमार बजाज	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	9 - बाबूपारा नया बस स्टेन्ड	श्री अमर चन्द बड़ा	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	10 - श्रीगढ़	श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	11 - सोनपुर-खुर्द	श्री रितेश कुमार सिंह	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा० रा० मा० संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	12 - माझापारा	श्री राम कुमार सिंह	सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	13 - जगदीशपुर	श्री सतीश कुमार अहिरवार	उपसंचालक, मत्स्य पालन अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	14 - मुटकी	श्री मनोज कुमार सिंह	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	15 - भरतपुर	श्री दिलीप कुमार मिंज	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लखनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

46	16 - अंधला-ख	श्री निखिल लकड़ा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	17 - लहपटरा-1	श्री सुशील कुमार टोप्पो	सहायक अभियंता, श्याम गुण नियंत्रण उपसंभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	18 - उदयपुर-2	श्री शैलेन्द्र कुमार भारती	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग उदयपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	19 - कलचा	श्री राजेन्द्र साय	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	20 - कुदरबसवार	श्री अनन्त राम जेरी	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रामीण सड़क योजना परि.क्रि. इ. क्र.2 (ब्रिज)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	21 - केसमा	श्री राम कमल भगत	अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन स.क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	22 - खरसुरा	श्री नितेश तिवारी	कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	23 - पलका-2	श्री पी. लक्ष्मण राव	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स.) संभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	24 - फतेपुर	श्री नवीन सिन्हा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	25 - पेण्डरखी	श्री दिक्पाल सिंह धिरही	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	26 - पुटा	श्री विजेन्द्र सिंह	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग उदयपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	27 - जजगा	श्री बी0आर0 बैरागी	सहायक अभियंता, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उपसंभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	28 - डुमरडीह	श्री सतीश कुमार एक्का	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ई.क्र.1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	29 - डांडगांव-2	श्री दयामणी लास्की	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उप संभाग उदयपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	1 - गहिला-1	श्री चन्द्रभान कुमार	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बतौली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	2 - कुनकुरीकला-1	श्री परशु राम आंडिल्य	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बतौली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	3 - टेड़गा	श्री महेन्द्र पाल खाण्डेकर	सहायक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्रीय इकाई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	4 - बिलासपुर-1	श्री सी.पी. सिंह	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बतौली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	5 - पोपरेंगा	श्री प्रतीक एक्का	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	6 - घुटरापारा	श्री अमित टोप्पो	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	7 - मंगारी-1	श्री देव सिंह	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ई.क्र.1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

67	8 - डुमरभावना	श्री अमरनाथ राय	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग सीतापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	9 - आमगांव	श्री कार्तिक केरकेट्टा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ई.क्र.1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	10 - सपनादर	श्री गंभीर सिंह धुर्वे	सहायक संचालक, कार्यालय उपसंचालक कृषि अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	11 - लुरैना	श्री जी०एस० सिदार	कार्यपालन अभियंता, छ.ग.ग्रा.सं.वि.अभि.परि.इकाई क्र. 2	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	12 - कुदारीडीह	श्री राजेन्द्र तिग्गा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रा०रा० संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	13 - कुनिया-1	श्री अविनाश राज सिन्हा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लखनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	14 - कदनई	श्री सौरभ सिंह ठाकुर	सहायक संचालक, जिला हथकरघा, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	15 - काराबेल	श्री जयप्रकाश रात्रे	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	16 - कतकालो-1	श्री नितेश सिन्हा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	17 - महारानीपुर	श्री अमित दास	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा०रा० संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	18 - सलाईनगर	श्री चार्ल्स रोशन एक्का	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता छ.ग.ग्रा.स.वि.अ.परि.क्रि.ई.क्र.1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	19 - खड़गांव-2	श्री जे. आर. कुर्रे	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग (वि./या.) अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	20 - बमलाया	श्री तपन चक्रेश	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग सीतापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	21 - आमाटोली-2	श्री विकास प्रशांत सिंह	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (विद्युत) उपखण्ड सीतापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	22 - रजपुरी	श्री मनोज कुमार केंवट	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (विद्युत) उपखण्ड सीतापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	23 - बेनई	श्री संत राम सिंह	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	24 - केसला	श्री सतेन्द्र पाण्डेय	सहायक अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ. परियोजना क्रि. ई क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	25 - सुर-3	श्री किशन कुमार	सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, कृषि	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	26 - राधापुर-1	श्री गणेश प्रसाद चौकसे	सहायक अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	27 - बंशीपुर	श्री सौरभ पाण्डेय	उप अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ. परियोजना क्रि. ई क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	28 - लिचिरमा	श्री संजय कुमार मिंज	सहायक अभियंता, जलसंसाधन उपसंभाग-2 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

88	29 - मोतीपुर	श्री लव कुमार त्रिपाठी	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	30 - पंपापुर उर्फ रापा	श्री आलोक कुमार सिंह	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	31 - कुम्हरता	श्री गौतम चंद नरवरिया	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	1 - भगवानपुरखुर्द	श्री रमांकात पटेल	सहायक अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री रोशन लाल साहू	सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर कमलेश्वरपुर, मैनापाट	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री राजेन्द्र राजवाडे	प्रबंधक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड अ0पुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री विश्वजीत सिंह प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री एल. एन. पैकरा,	सहायक अभियंता, र्थमल पावर परियोजना संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री बसंत खाखा	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री शैहून एक्का	सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर कमलेश्वरपुर, मैनापाट	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री अगस्तुस लकड़ा,	अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं अ0पुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री रविशंकर सोरी	सहायक नियंत्रक, नापतौल, अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री सुजीत कुमार गुप्ता,	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र. 1 अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री आदित्य कुमार दुबे,	उप अभियंता, छ.ग.ग्रामीण सड़क योजना परि.क्रि. इ. क्र.2 (ब्रिज)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री मनीष कुमार रवि,	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री उपेन्द्र सिंह सेंगर,	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उपसंभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री धनेश राम ढीढ़ी,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग उपसंभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14		श्री पुरंजन सिदार,	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग रा.रा. संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15		श्री विकास भगत	सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमलेश्वरपुर मैनापाट	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16		श्री कुंवर साय पैकरा	सहायक संचालक कार्यालय उप संचालक कृषि अंबिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

17		श्री लोकेश साव	सहायक अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18		श्री कमल डिंगरस्कर	सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कमलेश्वरपुर मैनपाट	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19		श्री एस0 के0 पैकरा	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, अ0पुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

6. जिला- जशपुर

1	1-पंडरापाठ	श्री भानुप्रताप साहू	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सत्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2-बहोरा	श्री मनोज कुजूर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-चम्पा	श्री मनोज मरकाम	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-डुमरकोना	श्री अजीत जायसवाल	सहायक अभियंता, जनपद पंचायत बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5-हराडीपा	श्री घीरेन्द्र प्रताप सिंह	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-सत्रा	श्री अभिषेक गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7-तोरा	निरंजन मिंज	प्रभारी उप वन परिक्षेत्र अधिकारी सत्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8-कामारिमा	श्री विवेक भगत	वन परिक्षेत्र अधिकारी, सत्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9-रौनी	श्री बृजेश गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10-गायबुड़ा	श्री उमेश किण्डो	पशु चिकित्सा अधिकारी, बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11-बिमड़ा	श्री विपिन टोप्पो	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12-बम्बा,	श्री रूपेन्द्र कौशले	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग सत्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13-रायकेरा	श्री सुधीर पटेल	उप अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14-बगीचा	श्री प्रवीण मिंज	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15-रेंगले	श्री अश्विनी सिंह परिहार	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16-भीतघरा	श्री मनी राम यादव	विकास खंड शिक्षा अधिकारी बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17-कलिया	श्री दिलीप टोप्पो	बी आर सी बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

18	18-सरबकोम्बो	डा. राजीव रंजन तिग्गा	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19-साहीडाड़	श्री शैलेश राम	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20-सोनक्यारी	श्री विशाल बड़ा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21-आस्ता	श्री गोपाल नायक	सहायक अभियंता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22-माड़ो	श्री संजय पटेल	विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मनोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23-हराडीपा	श्री सुनील कुमार जायसवाल	उप अभियंता, जनपद पंचायत जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24-मनोरा	श्री रंजीत वेलेन्टाईन एक्का	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25-खरसोता	श्री मिसेल खलखो	ए डी ओ जनपद पंचायत मनोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26-पटिया	श्री विनोद कुमार मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	27-घाघरा	श्री निलेश श्रीवास्तव	सहायक अभियंता छ.ग. राज्य अक्षय उर्जा क्रेडा जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28-सोगड़ा	श्री तरूण कुमार पटेल	बी.आर.सी. मनोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	29-सारूडीह	श्री अमरेन्द्र सिंह	सहायक प्राध्यापक शा एन ई एस महाविद्यालय जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	30-जशपुर	श्री कवच भगत	सहायक संचालक, कृषि जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	31-जशपुर	श्री रोमन सिंह	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	32-नीमगांव	श्री ए० के० मरकाम	उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ, जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	33-लोदाम	श्री अनूप साहू	उप अभियंता जल संसाधन विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	34-लोखण्डी	श्री करण सिंह	उप वनमंडलाधिकारी, जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	35-आरा	श्री के.के. प्रसाद	सहायक प्राध्यापक शा एन ई एस महाविद्यालय जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	36-घोलेंग	श्री धनंजय सूर्यवंशी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	1-कुनकुरी (नगरीय)	श्री सुशान्त मिंज,	उप-अभियंता नगर पंचायत, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

38	2- बेमताटोली	श्री एल०एन० पटेल.	सहा०चि०श०. पशु चिकित्सालय, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	3- लोधमा	श्री अविनाश मिंज.	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग-कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	4- केराडीह	श्री शिवभानु प्रसाद राठिया,	उद्यान अधीक्षक, शासकीय उद्यान रोपणी, सलियाटोलीष्	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	5- नारायणपुर	श्री खेमचन्द्र नायक	सहायक प्राध्यापक, शा० बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	6- गिनाबहार	श्री विरेन्द्र कुमार लकड़ा	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	7- जोकबहला	श्री कमलकांत श्रीवास	मु०कार्य० अधिकारी, ज०पं०, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	8- गोरिया	श्री व्ही०के० मिश्रा	अ०वि०अ०, लो०स्वा०यां०, उपसंभाग- कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	9 - कलिबा	श्री विशाल साव	उपअभियंता, लो०नि०वि० उपसंभाग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	10- बंदरचुआ	श्री अभिनव केशरवानी	अनुविभागीय अधि० (वन), उप वन मण्डल, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	11- खटंगा	श्री अजय बंजारे,	उपयंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	12- दुलदुला	श्री हेमन्त कुमार नायक	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	13-कस्तुरा	श्री विजय कुमार खुंटे	सहा०वि०वि० अधिकारी, जनपद पंचायत, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	14-कोरना	श्री दीपेन्द्र कुमार सिन्हा	विकास खण्ड स्तरीय समन्वयक, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	15- सिरिमकेला	श्री बी०के० साय समदूर,	उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	16- विपतपुर	डा० पूर्णेन्द्र कुमार साहू,	सहा०प्रा०, उद्या०महा०एवं अनु०के०, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

53	17-गट्टीबुड़ा	श्री अखिलेश कुमार घृतलहरे.	उप अभियंता, जलसंसाधन उपसंभाग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	18- मकरीबंधा	श्री संतोष कुमार चौहान	प्र० उद्यान अधीक्षक, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	19-केरसई	श्री लेयोस खेस्स,	उपअभियंता, लो०नि०वि०, उपसंभाग कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	20- उपरकछार	श्री रविकुमार शेण्डे	उपअभियंता, जनपद पंचायत, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	21-तपकरा	प्रो. भानुप्रताप सिंह,	सहायक प्राध्यापक, लिखन साय शा.महा.वि. तपकरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	22-लवाकेरा	श्री नवीन लकड़ा	सहा. वि.वि. अधि. जनपद पंचायत फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	23- फरसाबहार	श्री चतुर सिंह ध्रुव	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	24-धौरासांड	ऋषि कुमार सिंह,	फील्ड आफिसर, शा०को०बी०के०, सिंगीबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	25- पण्डरीपानी	श्री देवकान्त अजगल्ले	एस.ए.डी.ओ. कृषि फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	26-भगोरा	श्री धनेश कुमार टेंगवार	मु०का०पा०अधि०, ज०प०, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	27-डुमरिया	श्री नन्दे राम भगत	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	28-कोनपारा	श्री बलराम पटेल	उपअभियंता, लो०नि०वि० उपसंभाग, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	29- कोल्हेनझरिया	श्री सुधीर मिंज	व्ही. ए.एस. शास. पशु. चिकि० फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	30-तुमला	श्री सेफर्ड खाखा	उपअभियंता, जनपद पंचायत, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	31-अंकिरा	श्री जयनंदन साय,	उपअभियंता, जल संसाधन उपसंभाग, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	32- चांपाटोली	श्री दीपक मिंज,	मु०का०पा०अधि०ज०प०, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

69	1-कुरोंग	श्री कृष्ण राम भगत	उद्यान विस्तार अधिकारी, कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	2-मरोल	श्री अनुरंजन केरकेट्टा	उप अभियंता/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	3-बटईकेला	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	4-कांसाबेल	श्री गोपाल राम खलखो	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	5-टांगरगांव	श्री तेज कुमार केरकेट्टा	शा. बालक उच्च मा.वि. कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	6-चेटबा	श्री संजीव कुमार सिंह	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	7-बगिया	डॉ. रामलोचन धिरही	पशु चिकित्सा सहायक सत्यज्ञ, कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	8-दोकड़ा	श्री जितेन्द्र सिंह	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग, कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	9-बागबहार	श्री मारकुस एक्का	उद्यान विस्तार अधिकारी करमीटिकरा पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	10-कुकुरभुका	श्री मोहन पाल सिंह	उप अभियंता/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	11-डुमरबहार	श्री अनिल तिग्गा	प्राचार्य/शा.उ.मा.वि.शेखरपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	12-तमता	श्री संतोष चन्द्रा	प्राचार्य/शा.उ.मा.वि.पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	13-सुरेशपुर	श्री पारसलाल कैथल	उप अभियंता/लो.नि.वि. पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	14-कुनकुरी	श्री राजेन्द्र कुजूर	प्रभारी प्राचार्य/शा.उ.मा.वि. सुरेशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	15-पत्थलगांव	श्री मुकेश कुमार सिंह	उप अभियंता/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	16-पालीडीह	श्री राजेश बेहरा	प्रभारी प्राचार्य/शा. हाईस्कूल पंगसुवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	17-पाकरगांव	श्री कैलाश शंकर चौहान	उप अभियंता/लोक निर्माण विभाग पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	18-लुडेग	श्री पुष्पेन कुमार पटेल	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी करमीटिकरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	19-चिकनीपानी	श्री अमित कुमार देव	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

88	20-काडरो	श्री लरंग साय पैकरा	उप अभियंता/लो.नि.वि.(भ./स.) पथलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	21-सुरंगपानी	श्री दिलावर खाखा	प्रभारी प्राचार्य/शा. कन्या उ.मा.वि. कोतबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	22-कोतबा	श्री राकेश कुमार पैकरा	अनुविभागीय अधिकारी/कृषि पथलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री एस.के.रात्रे	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री शरद कुमार नेताम	प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बगीचा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री अर्जुन खलखो	सहायक प्राध्यापक, राजा विजय भूषण, शासकीय कन्या महाविद्यालय जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री आलेख केरकेट्टा	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय मनोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री आनन्द राम पैकरा	सहायक प्राध्यापक शा. रा.भ.रा.एन.ई.एस. महाविद्यालय जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री नरेंद्र यादव	प्रभारी उप वन परिक्षेत्र अधिकारी पंडरापाठ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री आलोक कुजूर	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय मनोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री अन्धरेसिपुस तिग्गा	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग कलिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री मनोज मिंज	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री अनुज मिश्रा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री सुनील सोनी	उप अभियंता छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जशपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री एन°एस°चैहान	कृ°वि°अधि°, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री बिपिन कुमार अम्बस्थ	वि°खं°स्तो°सम°, कार्या°वि°खं°स्तो°के°, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14		श्री संतोष कुमार ठाकुर,	उपअभियंता, ज°पं°, कुनकुरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
15		श्री खुरियस टोप्पो	प्राचार्य, शा°उ°मा°वि°, चरईडांड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
16		श्री गौतम सिदार,	उपअभियंता, जनपद पंचायत, फरसाबहार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17		श्री प्रेमप्रकाश कुजूर	सहा. प्राध्यापक शास. महा° तपकरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18		श्री रामनाथ साय पैकरा	ग्रा°उ°वि°अधि°, शा°उ°रो°,	संबंधित लोकसभ

			पण्डरीपानी	क्षेत्र
19		श्री अजीत भगत	उपअभियंता, जनपद पंचायत, दुलदुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20		श्री पवन कुमार पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जनपद पंचायत पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21		श्री जयगोविन्द गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/जनपद पंचायत कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22		श्री प्रदीप साहू	अनुविभागीय अधिकारी/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23		श्री अनिल शंकरभगत	प्राचार्य/शासकीय हाईस्कूल सुखरापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24		श्री हेलारियुस टोप्पो	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कांसाबेल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25		श्री बंसत कुमार एक्का	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26		श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा	अनुविभागीय जल संसाधन, पत्थलगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

7. जिला- रायगढ़

1	गहनाझारिया	रमेश कुमार गुप्ता	सचिव कृषि उपज मंडी समिति घरघोडा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	कोडसिया	साधूराम महिलाने	सहायक अभियंता केलो परियोजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	राजपुर	प्रशांत सिंग पैकरा	वाणिज्य कर अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	लारीपानी	लखन लाल चौहान	कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	सलाखिया	प्रकाश चन्द्र उराव	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	पाकरगाव	अमर सिंग सिदार	वन क्षेत्रपाल तमनार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	लैलूंगा	राम कुमार वर्मा	सहायक अभियंता गृह निर्माण मण्डल रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	झगरपुर	शेखर सिंग राजपूत	सहायक विकाशखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	केशला	गणपत राम साहू	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	मुकडेगा	सूर्यकांत नेताम	वन क्षेत्रपाल लैलूंगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	कटकलिया	रमाशंकर कश्यप	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	नारायणपुर	संदीप मेहर	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लैलूंगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

13	किलकिला	जोलासीना लकडा	जिला महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	सोनाजोरी	राकेश पटेल	उप अभियंता जनपद पंचायत लैलूंगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	मिलुपारा	अनिल वर्मा	उप संचालक कृषि विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	लिब्रा	एल पी बंजारे	कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	गारे	विकास सरोदे	सहायक श्रमायुक्त रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	चिटवाही	दिनेश कुमार तंबोली	उप अभियंता जनपद पंचायत लैलूंगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	जरेकेला	कमलेश दीवान	सहायक संचालक उद्यानिकी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	आमाघाट	विनोद कुमार मिंज	कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	सराईपाली	चूडामणि बंजारे	परियोजना अधिकारी वन क्षेत्रपाल रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	तमनार	उत्तर कुमार सिदार	सहायक विकाशखंड शिक्षा अधिकारी तमनार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	समकेरा	मोनिका गुप्ता	विकाशखंड शिक्षा अधिकारी तमनार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	खुरुसलेंद्रा	हेमासिंग राठिया	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	पडिगाव	शम्भू नाथ खरे	सहायक संचालक लोकल फण्ड ऑडिट रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	गेरवानी	शत्रुहन सिंग राठिया	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	भेलवातिकरा	आकांशा पटेल	सहायक संचालक आदिवासी विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	पतरापाली	शिवशंकर पाण्डेय	उप संचालक समाज कल्याण विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	टारपाली	रामजीत राम	जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	देवबहाल	मनीष श्रीवास्तव	उप संचालक उद्योग स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	कार्मस कालेज रायगढ़	अमित सिंह मरकाम	सहायक संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	जगतपुर	विभूति कुमार क्षेत्रीय	जिला पंजीयक रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	रामपुर बड़े	सी एस जायसवाल	उप पंजीयक सहकारिता संस्था रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

34	अनाथालय रायगढ़	सुशील कुमार गुप्ता	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	रेलवे बँगला पारा	डी पी पटेल	सहायक संचालक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	सोनुमुड़ा	घनश्याम जाटवर	विकाशखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	ललित प्राथमिक शाला रायगढ़	सीता पटेल	सहायक संचालक कृषि विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	जुटमिल रायगढ़	पवन कुमार अग्रवाल	प्राध्यापक शास किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	चक्रधर नगर रायगढ़	योगेन्द्र गजेन्द्र	सहायक वन क्षेत्रपाल रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	आयुर्वेदिक आफिस रायगढ़	दिव्या गौतम	सहायक मिट्टी परिक्षण अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	जुर्डा	अभिनीत सिंग चौहान	सहायक अभियंता क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल बोर्ड रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	मौहापाली	नरेन्द्र कुमार नायक	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	जामगाव	एस एन महापात्र	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	नेतनागर	बुद्धदेव राम नायक	सचिव कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	छातामुड़ा	अनिल कुमार साहू	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	कोडताराई	नरेन्द्र कुमार चौधरी	जिला संयोजक राजीव गाँधी शिक्षा मिशन रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	१७ मालदा	दिनेश कुमार पटेल	विकाशखंड शिक्षा अधिकारी पुसौर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	कोडपाली	मनीष सिन्हा	सहायक विकाशखंड शिक्षा अधिकारी पुसौर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	पूसौर	संतोष पाण्डेय	सहायक परियोजना अधिकारी केलो प्रोजेक्ट रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	गोतमा	एम एल पटेल	प्राध्यापक नवीन शासकीय महाविद्यालय कुसमुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	पडिगाव	रघुवीर साहू	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पुसौर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	जोबी	नेमेधन राम भगत	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	फरकानाला	नितेश रंजन बेहरा	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकाश रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	डोमनारा	एस्तीलास एक्का	कार्यपालन अभियंता मिनीमाता बांगो नहर संभाग नंबर 5	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

55	मदनपुर	शैलेश कुमार देवांगन	सहायक विकाशखंड शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	बोतल्दा	ललित कुमार तिग्गा	सहायक अभियंता केलो परियोजना खरसिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	सरवानी	बी भाखला	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	तुरेकेला	गोकुल प्रसाद यादव	वन क्षेत्रपाल खरसिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	तेलीकोट	हिन्द कुमार भगत	सहायक संचालक कृषि विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	रसिया 1	भोज कुमार	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	खरसिया 2	डी आर भरिया	सहायक अभियंता केलो परियोजना खरसिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	सोनबरसा	वीरेंद्र प्रसाद	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग खरसिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	चपले	सी आदिनारायण	जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	कुरुभाठा	घनश्याम लाल देवांगन	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	सोडका	धनीराम प्रधान	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	बिलासपुर	तपन कुमार सेठी	सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	भुपदेवपुर	परीक्षित चौधरी	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	बायंग	एल एल आहिरवार	कार्यपालन अभियंता जल संशाधन विभाग खरसिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	नंदेली	विक्रम वर्मा	सहायक अभियंता क्रेडा रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	नौरंगपुर	सुभाष सोनी	सहायक संचालक कृषि विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	कोतरा	बाबुभाई श्रीवास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतरव्यवसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	धनागर	एम के पटले	सहायक संचालक मछलीपालन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	काशीचुंवा	चंद्रिका प्रसाद एक्का	सहायक अभियंता केलो परियोजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	कोकडीराई	वीरेंद्र कंवर	सहायक अभियंता जल संशाधन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	गोर्ग	प्रकाश राव फूलेकर	कार्यपालन अभियंता केलो प्रोजेक्ट रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	जतरी	के के स्वर्णकार	सहायक संचालक शिक्षा विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ

				क्षेत्र
77	सुपा	आर आर सारथी	कार्यपालन अभियंता जल संशाधन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	तेतला	लीला पटेल	सचिव कृषि उपज मंडी समिति रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	बुनगा	तरसीला एक्का	संचालक शिक्षा विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	चाल्हा	निराकार डनसेना	उप अभियंता जनपद पंचायत धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	जमरगा	पंकज राठोर	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	कापू	सुनीता खलखो	बाल विकास अधिकारी आई सी डी एस कापू	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	कुम्हीचुंवा	नोहर साय एक्का	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुम्हीचुआ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	विजयनगर	प्रवीण पैकरा	जिला विपणन अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	पखनाकोट	जगजीवन लाल कुशवाहा	सहायक संचालक पशु चिकित्सा विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	थाकुरापोडी	रघुवेंद्र सिंह राठोर	सहायक अभियंता गृह निर्माण मण्डल रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	बाकारुमा	सत्येन्द्र विश्वकर्मा	कार्यपालन अभियंता जल संशाधन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	सोखामुड़ा	महेंद्र दाहीरे	सहायक अभियंता केलो परियोजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	सिसरिंगा	मनमोहन लाल मिश्रा	जिला वन अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	जमरगी डी	हरीश ठाकुर	कार्यपालन अभियंता जल संशाधन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	बोरो	आशीष बाजपेयी	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	धरमजयगढ़	शशिभूषण लकडा	प्राध्यापक धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	बयासी कालोनी	सुरेन्द्र सिंह पटेल	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	गेरसा	दिनेश कुर्रे	सहायक संचालक लोकल फण्ड ऑडिट रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	खडगाव	गोविंद सिंह गुमेटी	सहायक संचालक लोकल फण्ड ऑडिट रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	पुरुन्गा	भगत खेस्स	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	कुड़ेकेला	संजीव सुखदेव	महाप्रबंधक व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

98	छाल	गुलेश्वर राम भगत	अनुविभागीय अधिकारी कृषि विभाग धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	चन्द्रशेखरपुर	दिल राम माहेश्वरी	परियोजना क्षेत्रपाल संभागीय प्रबंधक प्लान्टेशन बोर्ड रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	कताईपाली सी	मोहन लाल सोनकर	परियोजना क्षेत्रपाल वन विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
101	कुडुकेला	मनोज कुमार सिन्हा	उप अभियंता जनपद पंचायत धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
102	बहिकेला	के पी धीधोरे	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग घरघोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
103	घरघोड़ा	अमितेश कुमार नेताम	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
104	नवापारा टेंद्रा	राजेंद्र कुमार टंडन	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग घरघोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
105	पोरडा	सुकारू राम सिदार	प्राचार्य शास उच्चतर माध्यमिक स्कूल हाटी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
106	कोटरीमाल	अश्वनी गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी वन मंडल रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
107	कया	जी के शर्मा	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग रायगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
108	छराटागर	विजय कुमार देवांगन	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

8. जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़

1	1 - कोसीर	श्रीमती सोमा सिंह ठाकुर	सहा. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2- मुडवाभांठा	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी कृषि सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3 - लेन्धा	श्री आवेश गोयल	सहा प्राध्यापक शास. महाविद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-जशपुर	श्री एस.पी.शुक्ला	सहा मत्स्य अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5 - उलखर	श्री उषत राम पटेल	सहा प्राध्यापक शास. महाविद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6 - बरदुला	श्री विनय तिवारी	ओ.एस.डी. सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7 - जिल्दी	श्री शिव कुमार थवाईत	प्राचार्य, सरकार. हाई स्कूल मलदा ब	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8- भेड़वन	श्री शेखर सिंह कंवर	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9- हरदी	श्री लोकेश्वर पटेल	सहा प्राध्यापक शास. महाविद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10- गोडम	श्री मुकेश कुमार पटेल	सहा प्राध्यापक शास. महाविद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
11	11- गुडेली	श्रीमती भोज कुमारी खांडेकर	एस.डी.ओ. आरईएस सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12 - नौरंगपुर	श्री विजय मिरी	उप अभियंता, आरईएस, सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13-अमझर	श्री जय प्रकाश गुप्ता	सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14-छिन्द	श्री शोभाराम पटेल	बी.आर.सी.सी. सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15- बरभांठा	श्री दिनेश नायक	उप अभियंता जनपद पंचायत सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16 - केडार	श्री मुकेश कुमार कुर्रे	सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17- कुदरी	श्री डी.एल. जयसवाल	प्राचार्य शा. उच्चतर माध्य. विद्यालय केडार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18 - कटेली	श्री ब्रजेश गुप्ता	उप अभियंता आरईएस सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19 - सालर	श्री व्यासनारायण साहू	सहकारी सेवाए, सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20- कनकबीरा	मधुप चंदन	नोडल अधिकारी रेशम, सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21- मलदा ब	श्री भुजरंग साय	उपअभियंता एनएच लोक निर्माण विभाग सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22- दानसरा	रेशम लाल कोसले	विकास खंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23- सारंगढ़ शहरी	श्री नंद कुमार बंजारे	व्याख्याता जिला. शिक्षा.कार्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24- सारंगढ़ ग्रामीण	श्री उत्तम सिंह कंवर	उपयंत्री नगर पालिका सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25- गोड़िहारी	रवि डोंगरे	सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26-रेडा	श्री बसंत मांझी	उप.अभियंता आरईएस सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	27- लोधिया	श्री उत्तम कुमार श्रीवास्तव	अ-वि.अ. जल संसाधन विभाग बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28- देवगांव	श्री रामभरोस पटेल	शास. उच्चतर माध्य. विद्यालय बोंदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	29-नवापारा बड़े	श्री एल.के. जांगड़े	अ.वि.अ. ग्रा.यां. सेवाए बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	30-बिलाईगढ़	डॉ. चन्द्र शेखर पटेल	सहा. प्राध्या- शास. महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	31-बरमकेला	श्री मदन लाल पटेल	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय बार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	32-हट्टापाली	श्री प्रेमसागर नाइक	बी.आर.सी.सी बरमकेला	संबंधित लोकसभ

				क्षेत्र
33	33- लेन्धा	श्री सुनील जोल्हे	पशु चिकित्सक सारंगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	34-रिसोरा	श्री जयमंगल पटेल	उप अभियंता जपं बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	35-झाल	श्री चक्रधर नायक	सहायक विकास विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	36-डोंगरी	श्री उग्रसेन चौधरी	प्राचार्य, सजेस डोंगरीपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	37- गौरडीह	श्री मिनकेतन चौधरी	वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षक जपं बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	1-सांकरा	श्री उत्तरा कुमार नायक	व्याख्याता शास. उच्च. माध्य. विद्यालय डोंगरीपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
39	2- सरिया	श्रीमती संगीता पटेल	उपअभियंता जिपं बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
40	3-बार	श्री भुवनेश्वर पटेल	उपअभियंता जिपं बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	4-बोंदा	श्री के.आर. सूर्यवंशी	उपअभियंता पीएचई बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	5-गोबरसिंघा	श्री सुरेश कुमार शकरे	सहा. प्राध्या- शास. महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	6-सालहेओना	खुर्शीद बानो खान	परियोजना अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	1- टुंडरी	श्री तेजस्वी ध्रुव	परियोजना अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	2-पुरगांव	श्री एस.एन. साहू	विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	3- पवनी	श्री लिकेश कुमार राजेश	व्याख्याता, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय खुरसुला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	4 - नगरदा	श्री रीतेश यादव	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	5-गोविंदवन	श्री सोमप्रकाश सिंह राज	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	6- बिलाईगढ़	श्री पुनाराम साहू	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय पवनी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	7-भंडोरा	श्री दिव्यप्रकाश सोनी	एबीईओ बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	8 - सुतिउरकुली	श्री पंकज साहू	सहा. प्रो. सरकार. कॉलेज बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	9- सलिहा	श्री कृष्ण कुमार खूंटे	सब इंजी. ब्लॉक कार्यालय बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	10- धनसीर	श्री अतुल कुमार	सब इंजी. डब्ल्यूआरडी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

54	11- जमगहन	श्री नरोत्तम दास मानिकपुरी	व्याख्याता, शासकीय. एच.एस.स्कूल धोबनी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	12-सलिहा घाट	श्री अभय कुमार पांडे	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय सलिहा घाट	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	13-धनगांव	श्री सुनील पैकरा	सब इंजी. लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	14-जैतपुर	श्री राजेश कुमार भोई	सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	15- बालपुर	श्री सालिकराम जायसी	संभागीय समन्वयक बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	16- मंदाईभांठा	श्री उमाशंकर भारद्वाज	सहा. प्राध्यापक . शास. महाविद्यालय बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	17-बिलासपुर	श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय रायकोना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	18 - रायकोना	श्री नेतराम रात्रे	बीआरसीसी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	19-सेंदुरस	श्री चंद्रहास अनंत	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय सेंदुरस	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	20-गिरसा	श्री जिवेन्द्र कुमार राठौड़	शहीद वीरनारायण सिंह शास. महाविद्यालय बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	21-भटगांव	श्री श्यामदास मानिकपुरी	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय जमगहन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	22-रिकोटार	श्री राकेश उराँव	मत्स्य निरीक्षक बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	23-गाड़ापाली	श्री एम.के. भगत	उद्यान विकास अधिकारी पेंड्रावन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	24-धोबनी	श्री तुलेश्वर सिंह ध्रुव	सहा. प्राध्यापक . शास. महाविद्यालय बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	25-गाताडीह	श्री तारकेश्वर नायक	उप अभियंता. नगर पंचायत भटगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	26-सरसीवा	श्री बिहारी लाल उराँव	प्राचार्य, शास.उच्च. माध्य. विद्यालय उच्चभिट्टी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	27-गोपालपुर	श्री हुमेन्द्र कुमार	उप अभियंता डब्ल्यूआरडी पवनी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	28-देवसागर	श्री वाई.के.रात्रे	पशु चिकित्सक भटगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

9. जिला-कोरबा

1	गढ़ उपरोडा	श्री डी.पी.एस. कंवर,	सहायक संचालक, कृषि कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	बडगांव	श्री के.एल.टण्डन	सहायक प्राध्यापक,शासकीय महाविद्यालय भैसमा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

3	कुदरी चिंगर	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	विमलता	कृष्ण कुमार रात्रे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग भैसमा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	कछार	श्री अनिल कुमार बच्चन	ई.ई. पी.एच.ई.विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	धनगांव			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	चुईया	श्री एस एन कंवर	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	परसाखोला			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	बेला	श्री अख्तर अब्बास अली	प्राचार्य,, आई.टी.आई. बालक कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	करमंदी	श्री रामकृपाल साहू	सहायक खेल अधिकारी जिला-कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कुदरी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	हाथीमुड़	श्री हितेश्वर सिंह	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भैसमा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	चीतापाली	श्री श्रीकांत कसेर	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सराईडीह			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	कटबितला	श्री मनोज कुमार यादव	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पहंदा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	अखरापाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	सिमकेंदा	श्री भूषण राम उरांव	कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	अमलडीहा	श्री मनोरंजन सरकार	कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	समरकना	श्री आशीष खेलवार	अनुविभागीय अधिकारी वनमंडल करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बरपाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	मौहार	श्री अजय अनंत	सहायक संचालक कृषि कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	चचिया			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मदनपुर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
16	मुढुनारा	श्री रामहरी सराफ	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	केसला	श्री एस. आई. यासिनी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	पतरापाली	श्री राजेन्द्र कंवर	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भैसमा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	गोड़मा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	भादा	श्री संतोष नाग	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	जोगीपाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	भैसामुड़ा	श्री दीपक साहू	सहायक अभियंता, क्रेडा विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	खरहरी	श्री पी. के. वासनिक	कार्यपालन अभियंता, हसदेव बराज कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	गांडापाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	कराईनारा	श्री टी. आर कश्यप	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सीधापाठ			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	जामपानी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	भंवरखोल			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	सुखरीकला	श्री ईश्वरी प्रसाद साहू	वरिष्ठ, कृषि विकास अधिकारी करतला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	उमरेली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	नवापारा (रो.)	श्री नरेन्द्र सरकार	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यात्रिकी विभाग करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	नवापारा (रोगदा)			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	महोरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	गितारी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	बुढियापाली	श्री अनिल कुमार मोदी	उप अभियंता, जनपद पंचायत करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पहाडगांव			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	चिचोली	श्री गुलजार सिंह मरावी	उप अभियंता, जनपद पंचायत करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
27	औराई	श्री क्रांति कुमार बघेल	सहायक संचालक, मतस्य विभाग कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	छातापाठ			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सीवाबहार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	फत्तेगंज	श्री राजेश बरेठ	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय भैंसमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	श्रीमार	डा० अंकित शुक्ला	पशु चिकित्सक, करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	केराकछार	डा० सोहम गुर्जर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, मोबाईल युनिट कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	चैनपुर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	पिडिया	श्री संदीप कुमार पाण्डेय	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि. खं. करतला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	चारमार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	बरकोनहा	श्री राजेश चैहान	वनक्षेत्रपाल, करतला,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सुअरलोट			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पतरापाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	कछार	श्री संतोष ताम्रे	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बरपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	नगोईखार	श्री ए. आर. विश्वकर्मा	उप अभियंता जल संसाधन क्र. 2 कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	नगोईखार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	जेलगांव	श्री एस. एन. साय	अनु वि अ. हसदेव बराज जल प्रबंधन उप संभाग दर्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	स्याहीमुडी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	जमनीपाली	श्रीमती प्रीति खोखर चखीयार,	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सलिहाभांठा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	अयोध्यापुरी गोपालपुर	श्री कौशल कुमार कुशवाहा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	चोरभट्टी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

38	अगारखार	श्री डी.सी. सोनकर	सहायक अभियंता नगर निगम दर्री जोन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सुराकछार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	भैरोताल	श्री आर. के. डंडेलिया	कार्यपालन अभियंता, हाउसिंग बोर्ड कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	भैरोताल			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	खम्हरिया			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	रूमगरा	सुश्री यामिनी देवांगन	सहायक अभियंता, कार्यपालन प्रधानमंत्री ग्रा. स. यो. कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोहड़िया(चेकपोस्ट)			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	रिसदा	सुश्री सिनिवली गोयल	सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	रिसदा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	पाढ़ीमार	श्री सोमनाथ डेहरे	उपअभियंता टी.पी.नगर जोन नगर पालिक निगम कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पाढ़ीमार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पाढ़ीमार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	झगरहा	श्री संजय अग्रवाल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा(रामपुर)			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	कोरबा सीएसईबी	श्री कमलेश सिंह तंवर	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा बुधवारी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	कोरबा लालूराम कालोनी	श्री एस. एल. द्विवेदी	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा पंपहाउस			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	कोरबा एम.पी. नगर	श्री एस. पी. सिंह	सहायक संचालक, पशु चिकित्सा विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा रविशंकर शुक्ल नगर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

47	कोरबा	श्री एच.आर.मिरेन्द्र	सहायक परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मानिकपुर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	कोरबा	श्री आर.पी.साहू	उपअभियंता जलसंसाधन विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा दर्रीरोड			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	कोरबा पुरानी बस्ती	श्रीमती आभा पाठक	सहायक संचालक उद्यान विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोरबा इतवारी बाजार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	कोरबा रामनगर	श्री अखिलेश पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक शासकीय ग्राम भारती महाविद्यालय हरदीबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मुड़ापार अमरैयापारा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	कोरबा	श्री बी. पी. चतुरवेदानी	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	भिलाईखुर्द			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	कोरबा पोड़ीबहार	निधी शिन्दे,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंतव्यवसायी कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	बसंतपुर	श्री सतीश पांडेय	अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग क्र01	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोलिहामुडा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	चाकाबुडा	श्री महारथी अंचल,	अनुविभागीय अधिकारी, वि/यां आर. एंड आर उप सभाग दर्री कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बुंदेली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	जुराली	श्री अशोक कुमार मन्नेवार	वन क्षेत्रपाल कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कटघोरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	डुङगा	श्री वी.जे. करुणाकर देव	मुख्य नगर पालिका अधिकारी छुरीकला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	छुरीकला			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	तेलसरा	श्री मान सिंह कंवर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग क्र-01 कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सिंघाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

58	पौसरा	श्री जिशान काजी	उप अभियंता जनपद पंचायत कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	गजरा	श्री मुन्ना लाल राजवाड़े	उपअभियंता नगर पालिका परिषद कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मोंगरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	पुरैना	श्री आई.पी. कश्यप	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कुचेना			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	दीपका	श्री हर्ष कवीर	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	दीपका	श्री हरनारायण शर्मा	उप अभि. लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	दीपका			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	नरईबोध	चित्रांगदा कुमार ठाकुर	सहायक भूमि सर्वेक्षण अधिकारी कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	दर्री			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	गेवरा	श्री राहुल चंद्राकर	उपअभियंता लोक निर्माण विभाग कटघोरा क्र-01	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	सोनपुरी	श्री अनुज कुमार भार्गव	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामिण यांत्रिकी सेवा कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	रंगबेल			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	भाठीकुडा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	बाता	श्री अभिमन्यु टेकाम,	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	कटसीरा	श्री कौशल पैकरा	प्रभारी अ.वि.अ.जल संसाधन विभाग कटघोरा क्रमांक -01	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	महेशपुर	श्री ज्ञान पुंज कुलमित्र	मुख्य नगर पालिका अधिकारी कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	नवागांवकला	श्री एस.के. नायक	उपअभियंता जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक -01 कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	गजरा	श्री वैभव सोमावर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग क्रमांक-01	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	दीपका	श्री लवकेश कुमार	मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपका,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	मलगांव	श्री अरविन्द कुमार दुबे	फिल्ड आफिसर, रेशम विभाग कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मुढाली			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
73	सिरकीखुर्द	एस.के पात्रे	उप अभियंता लोक निर्माण क्र- 01 विभाग कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बांधाखार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	हरदीबाजार	श्री शांतनु विश्वास	उपअभियंता जल संसाधन उपसंभाग कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सुवाभा डी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	सिरली	श्री विनोद नोर्गे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कटघोरा क्रम 1क- 01	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	झांझ	श्री रामगोपाल जायसवाल	विकासखंड स्त्रोत समन्वयक पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	मुडापार	श्री विरभद्र सिंह पैकरा	प्राचार्य, हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरबा धतूरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	जोरहाडबरी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	पूटा	श्री श्यामानंद साहू	विकासखंड शिक्षा अधिकारी पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	अंडीकछार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	खमहरिया	श्री मनीराम मरकाम	सहा. विकासखंड शिक्षा अधिकारी पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बोकरामुडा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	अमझर	श्री सुरेश नागदेव,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कुम्हारीदर्दी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	अड़सरा	श्री इन्द्र कुमार पटेल	खण्ड पशुचिकित्सा अधिकारी पोंडीउपरोड़ा वेटनरी विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बैरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	पण्डरीपानी	श्री एम. पी. सिंह	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	कारीमाटी	श्री अक्षय कुमार	सहा० प्राध्यापक, शास०नवीन महा०वि० जटगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	बासिन	श्री आर. के. पोर्ते	उप अभियंता ग्रा.यां.से. उप संभाग पोंडी उपरोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	अमहवां			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कुकरीबहरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सेन्दुरगार			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
85	हरदेवा	श्री राजेश आदिले,	सहायक श्रमायुक्त कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	बर्वा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सेन्हा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	कोडगार	श्री टी.आर आमो	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	दुल्लापुर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	बाबूपारा	श्री राजेश कुमार गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग पोड़ी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	जजगी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	कुदरीकला	श्री प्रभात यादवेश	उप अभियंता ग्रा.यां.से. उपसंभाग पोंड़ीउपरोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	घोंसरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	भुजुंगकछार	श्री गुलाब गढेवाल	प्राचार्य सेजस कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कापानवापारा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	मोरगा	श्री मोहन लाल शेन्दे	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	खोटखोर्ी	श्री के. जी. भारद्वाज	ए. डी. पी. ओ. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	अरसिया			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	साखो	श्री दीनू पटेल	जिला खेल अधिकारी कोरबा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	पाथा	श्री संतोष कुमार तिवारी	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगोबांध	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	गुरसियां	श्री गुलाब दास महंत	खण्ड स्तुत समन्वयक पोंड़ीउपरोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	सरभोका			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	कोनकोना			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	लेपरा			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मानिकपुर			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	आमाटिकरा	श्री प्रदीप कश्यप	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कटघोरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र संबंधित लोकसभ
96	केशलपुर	श्री फिरत राम	सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महाविद्यालय जटगा	क्षेत्र
	खोडरी (तु.)			संबंधित लोकसभ
	मैनगढ़ी			क्षेत्र
97	अमलडीहा	श्री धर्मेन्द्र कुमार	सहा. प्राध्यापक, शास. नवीन महाविद्यालय जटगा	क्षेत्र
	बरतराई			संबंधित लोकसभ
	त्रिखुटीपारा			क्षेत्र
98	बरपाली	श्री अनिल शुक्ला	सहायक संचालक कृषि कोरबा, मोबा. नं.	क्षेत्र
	बांझीबन			संबंधित लोकसभ
	सिरकीकला			क्षेत्र
99	मल्दा	श्री विकास भगत	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कटघोरा	क्षेत्र
	लखनपुर			संबंधित लोकसभ
100	ढेलुवा	श्री संजय लहरे	उप अभियंता ग्रा.यां.से. उपसभाग पोड़ीउपरोड़ा	क्षेत्र
101	चन्द्रौटी	श्री हुलेश्वर बंजारे ,	सहायक कार्यक्रम समन्वयक, समग्र शिक्षा कोरबा	क्षेत्र
102	सगुना	श्री बी.पी.कश्यप	सहायक कार्यक्रम समन्वयक कार्या.जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ,	क्षेत्र
	भेलवाटीकरा			संबंधित लोकसभ
103	घुईचुवा (घुरी)	श्री हेमंत भूषण डहरिया	उप अभियंता जनपद पंचायत पाली	क्षेत्र
	अलगीडांड			क्षेत्र
104	केराकछार	श्री दिनेश कुमार कुर्रे	वनक्षेत्रपाल, पाली	क्षेत्र
	जमनीमुड़ा			संबंधित लोकसभ
105	करतला	श्री टी.पी. उपाध्याय,	प्राचार्य, हायर सेकेंडरी माखनपुर,	क्षेत्र
106	लीमपानी	श्री जयलाल सिंह कंवर,	प्राचार्य, हाई स्कूल, सपलवा	क्षेत्र
107	बाईसेमर	श्री मनोज सराफ	प्राचार्य हाय. सेकण्डरी स्कूल पाली	क्षेत्र

108	उड़ान	श्री शहनवाज खान	उपअभियंता जनपद पंचायत पाली,	क्षेत्र संबंधित लोकसभ क्षेत्र
109	खैराबहार	श्री गोपाल प्रसाद बंजारे,	प्राचार्य हा.से.स्कूल लाफा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
110	रतखंडी	डा. यू.के.तंवर	पशु चिकित्सा अधिकारी पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
111	हरदीकछार	श्री जी. पी. डिक्सेना,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	पोलमी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
112	शिवपुर	श्री विजय कौशिक	सहायक कार्यक्रम समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
113	ढुकुपथरा	श्री पुर्नंदुर तिवारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	मादन			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
114	मुढाली	श्री दिनेश सिंह कंवर	उप अभियंता जनपद पंचायत पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	भंडारखोल			संबंधित लोकसभ क्षेत्र
115	डोगानाला	श्री सुनील कंवर	सहा० प्राध्यापक, नवीन शास०महा० पाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
	हरनमुड़ी			संबंधित लोकसभ क्षेत्र

10. जिला-गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही

1	1-निमधा	श्री आर के उराव	अभियंता लो. स्वा. या.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2-सिवनी	श्री शिवपाल सिंह धीवर	सहायक मत्स्य अधि., गौरेला-पेन्ड्रा- मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-उसाड	श्री शंकरलाल गेंदले	सहायक अभियंता, पेन्ड्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	3-उसाड	श्री शंकरलाल गेंदले	सहायक अभियंता, पेन्ड्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5-लोहारी	श्री राजकुमार ध्रुव	सहायक अभियंता, पेन्ड्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-मरवाही	श्री दिलीप पटेल	वि.ख. शिक्षा अधि., मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7-रटगा	श्री परिक्षित सूर्यवंशी	अनु. अधि., ग्रा. या. से.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8- सेमरदर्दी	श्री संजय जयसवाल	अनु. अधि. ग्रा. या. सेवा, मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

9	9- कोटमीकला	श्री पी. एस. बघेल	अनु. अधि. लो. स्वा. या.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10- सेखवा	डॉ. बी के पटेल	उप. सं. पशु चिकित्सा सेवा, जिला-गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11-बचरवार	श्री आर एन चन्द्रा	खण्ड शिक्षा अधि., पेंड्रा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12-मझगवां	श्री संतोष कौशिक	कार्यपालन अभि. सिंचाई विभाग, मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13-धनपुर	श्री सत्यजीत कंवर	उप संचालक कृषि, जिला-गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14-लालपुर	श्री संदीप विश्वास	प्रभारी कार्यपालन अधिकारी, अंत्यावसायी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15-गोरखपुर	श्री जे. एल. एक्का	उप अभियंता मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16-धनौली	श्री एस के टंडन	सहायक प्राध्यापक, माधवराव सप्रे महा वि गौरैला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17-गिरारी	श्री नन्द कुमार गायकवाड	सहायक अभि क्रेडा, जिला-गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18-बसंतपुर	श्री धरम सिंह कंवर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग पेन्द्रारोड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	18-बसंतपुर	श्री धरम सिंह कंवर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग पेन्द्रारोड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20-जोगीसार	डॉ संजीव शुक्ला	वि.ख. शिक्षा अधि., गौरैला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	20-जोगीसार	डॉ संजीव शुक्ला	वि.ख. शिक्षा अधि., गौरैला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22-बस्ती	श्री के. पी. तिवारी	अनु. अधि. सर्वेक्षण पेंड्रारोड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23-डांडजामडी	श्री एन एस कुशवाहा	उप संचालक उद्यान, जिला-गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24-सारबहरा	श्री अमित परिहार	सहायक अभियंता पीएमजीएसवाय	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	23-डांडजामडी	श्री एन एस कुशवाहा	उप संचालक उद्यान, जिला-गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	24-सारबहरा	श्री अमित परिहार	सहायक अभियंता पीएमजीएसवाय	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
27	27-सधवानी	श्री बाबूलाल यादव	एस डी ओ आर ई एस	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
28	28-तराईगाँव	श्री अतुल सिंह परिहार	जिला महिला एवं बल विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

11. जिला-मुंगेली

1	लमनी	श्री पी.एल. पड़वाल	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
---	------	--------------------	--------------------------------------	-----------------------

			सेवा उपसंभाग लोरमी	क्षेत्र
2	छपरवा	श्री दशांश प्रकाश सूर्यवंशी	अनुविभागीय अधिकारी ग्रा. यां. सेवा लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	दानवखार	श्री संजय लूथर	सहायक संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी वन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	औरापानी	श्री मानवेन्द्र कुमार	अनुविभागीय अधिकारी वन लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	खुड़िया	श्री धनंजय कुर्रे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	अखरार	श्री एन.के.पहारी	उपअभियंता जल संसाधन विभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	डिण्डौरी	श्री छत्रपाल साहू	उपअभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	गोड़खाम्ही	श्री विमल कुमार मिश्रा	श्रम निरीक्षक लोरमी, कार्यालय श्रम पदाधिकारी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	फुलवारी	श्री नानक सिंह परस्ते	सहा प्राध्यापक राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	चिल्फी	श्री सिद्धार्थ चन्द्रवंशी	उपअभियंता लोक निर्माण विभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	लगरा	डा. शिव पटेल	पशु चिकित्सा अधिकारी लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	कोयलारी	श्री पी.के. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी मनियारी जल संसाधन विभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	बरमपुर	श्री विकास कौशिक	सहायक अभियंता, कार्यालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	बोड़तराकला	श्री एस. के. भारती	सहायक प्राध्यापक डा. जे. पी. मिश्र शासकीय विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	सारधा	श्री सूर्यप्रकाश राजपूत	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	डोंगरिया	डा. ओमप्रकाश बघेल	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुधन विकास विभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	लपटी	श्री डी.एस. राजपूत	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	लोरमी	डा. हेमन्त कश्यप	सहा. प्रध्यापक रसायन शा. महा. कोतरी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	सुकली	श्री विवेक साहू	सहा. प्राध्यापक राजीव गांधी कला एवं वाणिज्य महा. लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

20	सेमरिया	श्री महेन्द्र कुमार पात्रे	सहा. प्राध्यापक राजीव गांधी कला एवं वाणिज्य महा. लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	लछनपुर	श्री के.के. ध्रुव	उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	मनोहरपुर	श्री जे.एस. राठौर	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	लालपुर थाना	श्री चंद्रदेव प्रसाद	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	देवरहट	श्री आर.के. मिश्रा	कार्यपालन अभियंता मनियारी जल संसाधन विभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	सेमरसल	श्री आकाश परिहार	एपीओ मुंगेली समग्र शिक्षा अभियान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	बीजातराई	श्री आलोक श्रीवास्तव	सहायक संचालक मछली पालन विभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	पौनी	श्री बी.एल. सिंहश्रे.	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	नागोपहरी	श्री पी.के. देवांगन	सहायक प्राध्यापक एस. एन. जी. महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	निरजाम	श्री रामनाथ गुप्ता	जिला परियोजना अधिकारी साक्षर भारत मिशन जिला लोक शिक्षा समिति मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	फंदवानी	श्री संजय श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी मनियारी जल संसाधन उप संभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	कंतेली	डा॰ मुकेश कुमार मिश्रा	सहायक प्राध्यापक एस. एन. जी. महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	संगवाकापा	श्री दिलीप देवांगन मो नं	सहायक प्राध्यापक शास. नवीन महाविद्यालय फास्टरपुर जिला मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	कोदवाबानी	श्री ओ पी कौशिक	डी. एम. सी. मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	मुंगेली (नगर)	श्री राजेश कुमार घोशले	सहा. प्राध्यापक शास. कन्या महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	मुंगेली (नगर)	श्री मन्ना राम पटेल	सहायक प्राध्यापक एस. एन. जी. महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	टेमरी	श्री प्रतीक पाटनी	उपयंत्री पी.एच.ई मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

37	टेढाधौरा	श्री टी आर सोनकर	बीज प्रबंधक बीज निगम धरमपुरा मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	पंडरभट्टा	श्री संजय पाल	वरिष्ठ खेल अधिकारी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	चिरहुला	श्री कमलेश राठौर	अनुविभागीय अधिकारी ग्रा. यां. सेवा मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	करही	श्री प्रदीप कुमार दिवाकर	एबीईओ मुंगेली कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	रामगढ	श्री योगेन्द्र साहू मो नं	सहायक प्राध्यापक शास. महाविद्यालय फास्टरपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	दशरंगपुर	श्री सुरेन्द्र कुमार तिग्गा	सहायक प्राध्यापक नवीन शास. कन्या महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	भठलीकला	श्री गोचंद पटेल मो.नं.	सहायक प्राध्यापक एस एन जी महाविद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	जरहागांव	डा. आर एम त्रिपाठी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	फुलवारी	श्री जूलियस केरकेटटा	सहा. संचालक जिला योजना सांख्यिकी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	बरेला	श्री राजीव स्वर्णकार मो नं	जिला पंजियक मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	भटगांव	श्री पी.एस.बेदी	बी.ई.ओ. कार्या.विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	लौदा	डा. शीलमणी पाण्डेय	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	कुकुसदा	श्री एल. के. कोशले	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	अमोरा	श्री एन.के. तिवारी	एस.डी. ओ. आर ई एस पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	सिलतरा	श्री कुमार डाहिरे	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	गंगद्वारी	श्री ए.के.करैया	उपअभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	पथरिया	डा. के.पी.मरावी	व्ही. ए.एस. वेटनरी विभाग सरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	पडियाईन	श्री मानव जायसवाल	सहा. प्राध्यापक विरागना अवंती बाई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			लोधी शा. महा. पथरिया	क्षेत्र
55	हिन्छापुरी	श्री मदनलाल कश्यप	सहायक प्राध्यापक नवीन कन्या महा. मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	धरदेई	श्री रविपाल राठौर	ए.बी.ई.ओ. पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	बावली	डॉ. आर.बी. गौतम	व्ही.ए.एस.वेटनरी विभाग पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	चन्द्रखुरी	श्री सुधकर सोनकुसरे	ए.ई. पी.एच.ई पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	बिदबिदा	श्री यतेन्द्र भास्कर	ए.बी.ई.ओ. पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	सरगांव	कविन्द्र भारद्वाज	उप अभियंता जनपद पंचायत पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री संजय साहू	एपीसी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री राजेन्द्र निर्मलकर	एबीईओ लोरमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री पी.सी.दिव्य	प्राचार्य स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम गर्व. स्कूल बीआरसाव मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		भगवती साहू,	सहायक संचालक उद्यानिकी मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		डॉ नूतन पंचखाडे	पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री सुमान सिंह पैकरा,	सहायक संचालक कृषि कार्यो, उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री नरेश कुमार वर्मा	उप अभियंता जनपद पंचायत पथरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री देवेन्द्र कुमार कंठले	उद्यान विस्तार अधिकारी, उपसंचालक उद्यानिकी विभाग मुंगेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

12. जिला-बिलासपुर

1	आमागोहन	श्री आमद नवाज दानिश	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-02 बिलासपुर मोबा. 9827900275	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	मिदू नवागांव	श्री अरूण कुमार भार्गव	सहायक अभियंता, लोक स्वा. यांत्रिकीय खण्ड बिलासपुर मोबा. 9827900275	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	छतौना	श्री सूरजदास मानिकपुरी	सहायक अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय उप संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			मोबा.7987995399	
4	केंदा	श्री राजकुमार नागदेव	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा. 9425537927	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	करवा	श्री मुकेशराव बहेकार	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड बिलासपुर मोबा. 9755125905	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	कुरदर	श्री आर. सी. अग्रवाल,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव बांगो मिनिमाता परियो. बिलासपुर मोबा. 8085061443	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	बेलगहना	श्री किशोर कुमार सिंह	सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल बिलासपुर मोबा.7987877327	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	मझवानी	श्री संजय कुमार कुर्रे	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी बिलासपुर मोबा. 7089085064	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	पुडू	श्री दिनेश कुमार सिंह	सहायक अभियंता, विद्युत यांत्रिकीय नलकूप एवम गेट संभाग सकरी बिलासपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	भैंसाझार	श्री अनिल कुमार भारती	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रा.यां.से. बिलासपुर मोबा 9977938784	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	चपोरा	श्री अतुल केरकेट्टा	सहायक अभियंता, मिनीमाता, हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर मोबा.9399753547	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	रतनपुर	श्री ईश्वर दत्त भगत,	सहायक अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर मोबा.7047612212	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	नवागांव(सल्का)	श्री लोकेश भाई पटेल	सहायक अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगों परियोजना बिलासपुर मोबा.9757613117	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	शिवतराई	श्री भूपेन्द्र सिंह चनाप,	सहायक भू-जल विद्, भू-जल सर्वेक्षण इकाई- 09 बिलासपुर मोबा. 9407994047	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	तेंदुवा	श्री संतदास मानिकपुरी	सहायक अभियंता, मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना बिलासपुर मोबा.9424159473	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	करगीकला	श्री बृजमोहन चौहान	सहायक अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर मोबा. 9981299747	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	गोबरीपाट	श्री आर. के. मैत्री	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा, मो. नं. 9009222002	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	कोटा	श्री अनिल कुमार त्रिवेदी	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा. 9039373637	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

19	पीपरतराई	श्री विवेक कुमार सिंह	सहायक भू-भौतिकीविद्, भू-जल सर्वेक्षण इकाई -09 बिलासपुर मोबा.7488047511	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	जोगीपुर	श्री रमन श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन संभाग बिलासपुर मोबा.9632730068	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	जूनापारा	श्री रामेश्वर प्रसाद साहू	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा.क्रमांक 7999912129	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	विजयपुर	श्री शिवराज सिंह पैकरा	अनुसंधान अधिकारी, मिनीमाता हसदेव बांगो परि. बिलासपुर मोबा.नं. 9827989260	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	बेलपान	श्री विजयसिंह पोटाई	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवम सुरक्षा बिलासपुर मोबा. 9806170906	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
24	तखतपुर	श्री बटेश्वरदयाल नरवरिया	सहायक अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर मोबाइल नं. 9826953963	संबंधित लोकसभ क्षेत्र '
25	कुंवा	श्री महेश प्रसाद शर्मा	सहायक अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर मोबा.नं. 9425536526	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	सोनबंधा	श्री श्रीराम देवांगन	उप अभियंता, कार्यालय क्रियान्वयन इकाई, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक विकास अभि. बिलासपुर मोबा. 9406007906	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	बीजा	श्री श्रवण कुमार नेताम	सहायक अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	राजेश कुमार राजपुत	श्री राजेश कुमार राजपूत	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मो.नं. 9425540482	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	घुटकू	श्री इम्तियाज सिद्दिकी,	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा.नं. 9407776622	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	लोखण्डी	श्री सचिन कुमार पराते	सहायक भू-जलविद् भू-सर्वेक्षण इकाई-09 बिलासपुर मोबा. 9300350144	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	अमेरी	श्री करनसिंह मरकाम,	सहायक अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर मोबा.नं.7049295102	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	सकरी	श्री अभिषेक भारद्वाज	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर मोबाइल क्रमांक 7509993444	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	देवरीखुर्द	श्री सुखदेव राम मंाझी	सहायक अनुसंधान अधिकारी, मिनीमाता बांगो परियोजना बिलासपुर मोबा.नं. 8120292895	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	लाखासार	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा. नं. 9425892135	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

35	सैदा	श्री राकेश सिंह चतुर्वेदी	सहायक अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा मोबा.नं. 9407667866	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	छतौना	श्री बाबूलाल कोलाम	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर मोबा. 7974102018	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	बोदरी	श्री अनिल कुमार कौशिक	सहायक संचालक कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर मोबा. 9977106777	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	बिल्हा	श्री मनीष कुमार पात्रे	सहायक संचालक, नगरीय प्रशासन बिलासपुर मोबा. 7354200011	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	हिरौ	श्री आशीष नंदकिशोर ब्राम्हण	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-02 बिलासपुर मोबा 6267290562	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	भोजपुरी	श्री पवन कुमार कश्यप	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग मुख्यमंत्री ग्राम सडक एवम वि.योजना बिलासपुर मोबा. 7747030886	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	दगोरी	श्री विनय कुमार छात्रे	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक विकास अभिकरण परिमण्डल मुंगेली रोड बिलासपुर मोबा. 8319477789	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	बरतौरी	श्री मालिकचंद पैकरा	उप अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर मोबा 7987615671	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	गोडी	श्री राजेश सिंह	क्रीडाधिकारी शासकीय कला एवम वाणिज्य महाविद्यालय कोटा मोबा. 9074774654	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	बिटकुली	श्री चंद्रकिशोर उरेती	प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल कापेरिशन लिमिटेड तिफरा बिलासपुर मोबा. 9827791766	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	बुदेला	श्री राजेश कुमार कुर्रे	प्राचार्य वर्ग-02 शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी मोबाईल 9098456314	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	पासीद	श्री मुकेश कुमार साहू	प्राचार्य वर्ग-02 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिल्हा मोबा. 9827984373	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	कडार	श्री विनोद कुमार मोहबे	प्राचार्य वर्ग-02 शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी मोबा. 9340541789	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	सरवानी	श्री सुरेश कुमार पवार	क्रीडा अधिकारी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9425540078	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	नरपुरा	श्री अमिताभ कश्यप	सहायक अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग मु.मं.ग्रा.स.योजना बिलासपुर मोबा 7748806262	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	परसदा	श्री रमेशचंद्र साहू	उप अभियंता कार्यालय क्रियान्वयन इकाई छत्तीसगढ़ ग्रामीण सडक विकास अभिकरण बिलासपुर मोबा 7039300000	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	तिफरा	श्री निर्मलदास सूर्यवंशी	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता मु.मं.ग्राम एवम सडक विकास योजना बिलासपुर मोबा 9926274147	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

52	तिफरा	श्री सुरेश कुमार पटेल	सहायक प्राध्यापक, शासकीय माता शबरी, कन्या महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9575063291	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	चुचुहियापारा	श्री भूपेश कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी मोबा. 8236099787	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	सिरगिट्टी	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र बिलासपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	कोरमी	श्री अभिषेक शर्मा	व्याख्याता (एलबी) शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9165536550	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	नूतन कालोनी चौक सरकंडा बिलासपुर	श्री सुरेश कुमार बांधे	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर मोबा. 9425536055	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	जबड़ापारा सरकंडा बिलासपुर	डा. बसंत कुमार सोनी	प्राध्यापक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9826485424	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	बंधवापारा सरकंडा बिलासपुर	श्री संतोषसिंह राजपूत	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र बिलासपुर मोबा. 9424193944	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	रामदुलारे स्कूल शास्त्रीनगर सरकंडा बिलासपुर	डा. श्रीकान्त मोहरे	ग्रंथपाल, शासकीय एमएसएल महाविद्यालय सीपत मोबा. 9424152496	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	सेफर्ड स्कूल कुदुदंड बिलासपुर	डा. जितेन्द्र द्विवेदी	सहायक प्राध्यापक शासकीय कला एवम वाणिज्य महाविद्यालय कोटा मोबा. 9425223855	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	विष्णुनगर कुदुदंड बिलासपुर	श्री स्वप्निल चौबे	व्याख्याता, ठाकुर बलरामसिंह पालिटेक्निक कालेज तखतपुर मोबा. 9399134590	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	मिशन स्कूल बृहस्पति बाजार बिलासपुर	श्री उमाशंकर देवांगन	सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9981293105	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	आदिवासी छात्रावास जरहाभाठा	श्री आदित्यसिंह	सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर मोबा 9406044432	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जरहाभाठा बिलासपुर	श्री ए.के. सोनी	संयुक्त संचालक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बिलासपुर मोबा. 9425535873	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	बालमुकुन्द स्कूल भारतीय नगर बिलासपुर	श्री सुमित कुमार देवांगन	व्याख्याता शासकीय कन्या पालिटेक्निक कालेज बिलासपुर मोबा. 9644265913	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	डा भीमराव अम्बेडकर स्कूल तालापारा बिलासपुर	श्री विकास कुमार साहू,	व्याख्याता शासकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय कोनी बिलासपुर मोबा. 7879173015	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

67	स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मिडियम स्कूल खपरगंज	श्री नीरज कुमार	व्याख्याता शासकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय कोनी बिलासपुर मोबा. 9669183084	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर	श्री शंकर भूषण टेकाम	व्याख्याता शासकीय कन्या पालिटेक्निक कालेज बिलासपुर मोबा. 9131642432	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	सी एम डी कालेज बिलासपुर	श्री सोनू वर्मा	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक तखतपुर जिला बिलासपुर मोबा. 9479175581	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	नागोराव शेष आयुर्वेदिक कालेज जूना बिलासपुर	डा. रघुनंदन पटेल	एसोसियेट प्रोफेसर, शासकीय एमएलएस महाविद्यालय सीपत मोबा. 9826153480	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	स्वामी आत्मानंद मल्टीपरपस स्कूल बिलासपुर	श्री यशवंत पटेल	सहायक प्राध्यापक अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर मोबा. 7748800660	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	डी पी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर	श्री अनिल कुमार बरेठ	सहायक अभियंता, कार्यालय क्रियान्वयन इकाई छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बिलासपुर मोबा. 9424152607	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार हा- से- स्कूल तारबाहर बिलासपुर	श्री अमित कुमार बंजारे	सहायक अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर मोबा. 9424291326	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान पी जी बी टी कालेज तारबाहर बिलासपुर	श्री सतीश कुमार नायर	सहायक नियंत्रक नापतौल बिलासपुर मोबा. 9179036269	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	प्राथमिक शाला तोरवा बिलासपुर	श्री रोहित गुप्ता	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर मोबा. 9981158011	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	केन्द्रीय विद्यालय तोरवा बिलासपुर	श्री किशोर कुमार सक्सेना	प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9424169287	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	शास उ मा विद्यालय तोरवा बिलासपुर	श्री सागर कुमार गरेवाल	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर मोबा. 9993361859	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

78	भारत माता प्राईमरी स्कूल वायरलेस कालोनी बिलासपुर	श्री मनीष जायसवाल	सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर मोबा. 8319817773	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	कर्क	श्री अधीश कुमार विवेक	असिस्टेंट प्रोफेसर, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर मोबा. 7578905600	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	बेलतरा	श्री सतीश कुमार गबेल,	सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर मोबा 9826209495	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	बसहा	श्री नरेन्द्र कुमार कौशिक	सहायक अभियंता, ग्रामीण सड़क संपर्क नेटवर्क प्रबंधन इकाई बिलासपुर मोबा 9827115654	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	टेकर	श्री प्रशान्त सिंह चौहान,	उप अभियंता ग्रामीण सड़क संपर्क नेटवर्क प्रबंधन इकाई बिलासपुर मोबा 9303141900	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	लखराम	श्री मनोज कुमार सिंह,	प्राध्यापक, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 8770338164	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	मदनपुर	श्री चंद्रकान्त शर्मा,	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा बिलासपुर मोबा 8225923003	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	पेण्डरवा	श्री आकाश देवांगन	सहायक अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बिलासपुर मोबा 7999281766	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	गतौरी	श्री आनंद कुमार पाण्डेय	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय कोनी बिलासपुर मोबा.7007408131	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	सेंदरी	श्री दीपक कुमार साहू,	व्याख्याता, शासकीय पालिटेक्निक महाविद्यालय तखतपुर मोबा. 9791449062	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	भरारी	डा. जितेन्द्र मिश्रा,	वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर मोबा. 9301016371	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	सेलर	श्री पुष्पेन्द्रनाथ मिश्रा	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड बिलासपुर मोबा 9584538847	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	खैरा (ड)	श्री नवीन कुमार वर्मा,	सहायक प्राध्यापक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर मोबा.7000707558	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	मटियारी	श्री नरेन्द्र कुमार साहू,	प्रबंधक, जिला व्यापार एवम उद्योग केन्द्र बिलासपुर मोबा. 9630020012	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	नगोई	श्री विनोद शेण्डे	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-02 बिलासपुर मोबा 8770435080	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	कोनी	श्री शुभम शुक्ला,	प्रबंधक, जिला व्यापार एवम उद्योग केन्द्र बिलासपुर मोबा. 7697230751	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	बिरकोना	डा. अशोक लहरे	सहायक प्राध्यापक शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर मोबा 9752107107	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

95	शास जनपद प्रा० शाला मंगला	श्री संदीप वर्मा	प्रबंधक, जिला व्यापार एवम उद्योग केन्द्र बिलासपुर मोबा. 9407775844	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	सेजेस मंगला	श्री उदयभान सिंह	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी बिलासपुर मोबा. 9685719589	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	साईस कालेज सरकंडा 1/1½	श्री अमित कुमार गजभिये	सहायक अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उर्जा शिक्षा उद्यान राजकिशोर नगर बिलासपुर मोबा. 9479023717	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
98	साईस कालेज सरकंडा 1/2½	श्री कमलेश्वर तिवारी	रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, व्यापार बिहार बिलासपुर मोबा. 9713635860	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	शा० प्रा० शाला चिंगराजपारा बिलासपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव,	वैज्ञानिक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर मोबा. 6261959700	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	माता शबरी महा० चांटीडीह बिलासपुर	श्री राकेश कुमार कुर्रे,	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड मेकेनिकल बिलासपुर मोबाईल 7587179654	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
101	पूर्व मा० शाला मोपका	श्री जितेन्द्र शर्मा	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग मु.मं.ग्रा.सा एवम विकास योजना बिलासपुर मोबा 8770299334	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
102	शास उ० मा० विद्यालय खमतराई	श्री खगेश्वर प्रसाद नामदेव,	सहायक प्राध्यापक शासकीय कला एवम वाणिज्य महाविद्यालय कोटा मोबा. 9827961871	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
103	लिंगियाडीह 01	श्री के.आनंद कोशिक,	सहायक प्राध्यापक शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर मोबा. 9516775995	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
104	लिंगियाडीह 02	श्री दीपक कुमार शुक्ला,	सहायक प्राध्यापक, शासकीय माता शबरी, नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9826340355	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
105	राजकिशोर नगर बिलासपुर	डा. सुनील गौरहा	क्रीडा अधिकारी, शासकीय ई-राघवेन्द्रराव, स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर मोबा. 9425219099	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
106	प्राथ० शाला चिल्हाटी	श्री प्रमोद कुमार महतो,	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड बिलासपुर मोबा. 8839223095	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
107	प्राथ० शाला चुचुहियापारा	श्री पियुस प्रसाद	संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, बिलासपुर मोबा. 9039334050	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
108	जेवरा	श्री महेन्द्र लाल कुशरे	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवम उद्योग केन्द्र बिलासपुर मोबा. 9425539290	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
109	लुतरा	श्री मोतीलाल मरकाम	सहायक अभियंता कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन मण्डल बिलासपुर मोबा. 9406035535	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
110	मड़ई	श्री संतोष कुमार ध्रुव	कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय उर्जा शिक्षा उद्यान राजकिशोर नगर बिलासपुर मोबा. 9340674755	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

111	धनिया	श्री जोगेन्द्र लाल	कृषि यंत्री नूतन चौक सरकण्डा बिलासपुर मोबा. 8269812853	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
112	मचखण्डा	श्री पंचमदास हथेश्वर	उप संचालक कृषि बिलासपुर मोबा. 7697990600	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
113	जांजी	श्री सहारनसिंह कंवर	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमं 1क-02 बिलासपुर मोबा 9303823258	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
114	सीपत	श्री कपूरचंद गेंदले,	सहायक प्राध्यापक शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी मोबा 9755821464	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
115	पंधी	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल	सहायक अभियंता कार्यालय क्रियान्वयन इकाई छ.ग. ग्रामीण सडक विकास अभिकरण बिलासपुर मोबा 888999906	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
116	एरमसाही	श्री महेन्द्र कुमार नरेटी,	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल बिलासपुर मोबा. 9406440772	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
117	गतौरा	श्री विनीत नायर,	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर मोबा. 9826123818	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
118	देवरीखुर्द	श्री मंगलचंद निराला	सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी मोबा 9981390693	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
119	महमंद	श्री अशोक कुमार महेश्वर	उप संचालक, मत्स्योद्योग बिलासपुर मोबा 9406008075	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
120	लिमतरा	श्री डोमूदास शामधकाते	उप संचालक हाथकरघा बिलासपुर मोबा. 9826678589	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
121	दर्दीघाट	श्री देवेश कुमार बोरकर	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग उमु.म.ग्रा.स. विकास योजना बिलासपुर मोबा 7587404282	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
122	जयरामनगर	श्री शंकरराव सोनेने	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो परियोजना बिलासपुर मोबा. 9893258255	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
123	मस्तूरी	श्री द्वारिका प्रसाद	जायसवाल कार्यपालन अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
124	रिस्ता	श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मण्डल बिलासपुर मोबा. 8889779902	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
125	सरगवां	श्री प्रमोद कुमार निर्मलकर	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक -02 बिलासपुर मोबा 9826709076	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
126	टिकारी	श्री सतीश कुमार सराफ	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर मोबा. 9407698836	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
127	बुढ़ीखार	श्री राजेश कुमार जोशी	कार्यपालन अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर मोबा. 8319986263	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
128	मल्हार	श्री अशोक कुमार सिंह	कार्यपालन अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन बिलासपुर मोबा. 9424261912	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
129	जुनवानी	श्री नितिन मेश्राम	वरिष्ठ भू-जलविद्, भू-जल सर्वेक्षण इकाई-09 बिलासपुर मोबा. 9893007416	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

130	पचपेड़ी	श्री राजकुमार बजरंग	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो परि. बिलासपुर मोबा. 9425512381	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
131	ओखर	श्री अशोक कुमार निगम	अनुसंधान अधिकारी, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर मोबा. 9425505661	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
132	बहतारा	श्री नारायण सिंह लावत्रे	उप संचालक उद्यान बिलासपुर मोबा. 9425593869	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
133	मानिकचौरी	श्री उदयभानसिंह राठिया	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर मोबा. 9575661607	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
134	सुकुलकारी	श्री रविप्रकाश पटेल	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड मेकेनिकल बिलासपुर मोबा. 7067808819	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
135	चिल्हाटी	श्री अविनाश गुप्ता	सहायक अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग बिलासपुर मोबा. 8085061443	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
136	लोहर्सी	श्री चिरौजीलाल धाकड	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल बिलासपुर मोबा. 8770060899	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
137	जोंधरा	श्री गुणवंत कुमार सोनी	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-02 बिलासपुर मोबा 9893317063	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
138	सोन	श्री नंदकिशोर राय	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण राजकिशोर नगर बिलासपुर मोबा 9406111011	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री प्रतीक धुरंधर	सहायक संचालक, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर मोबा. 9039290047	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री अशोक कुमार सिंह बनाफर	सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, कृषि, बिलासपुर, मोबा. 9926751406	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री अनिल कुमार शुक्ला	प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, मोबा. 9755865511	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री संजय कुमार दिवाकर	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लोक निर्माण वि राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर, मोबा. 9178791101	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री घनश्याम दास गर्ग	सहायक संचालक, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, मोबा. 9300834068	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री हरिशचंद्र दिलावर	सहायक संचालक, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर, मोबा. 9826529703	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

7		श्री जितेन्द्र पाटले	जिला परियोजना समन्वयक, जिला लोक शिक्षा समिति बिलासपुर, मोबा. 9893455115	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		डॉ. आनंद सिंह रघुवंशी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, संयुक्त संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी, मोबा. 9754350858	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री अतुल कुमार पटेल,	सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी बिलासपुर, मोबा. 6232775676	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		डॉ. फूलदास मंहत	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी, बिलासपुर मोबा. 9109374444	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री अजय कुमार सिंह	क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी, बिलासपुर, मोबा. 9669664343	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

13. जिला-जांजगीर-चांपा

1	1- पोड़ीदल्हा	श्री होमेष नायक	कार्यपालन अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2- खटोला	श्री संदीप शुक्ला	कार्यपालन अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3- कोटगढ़	डॉ. राजकुमार जायसवाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4- खोड़	डॉ. मनोज अग्रवाल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5- खिसोरा(अ)	श्री विकास सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6- अकलतरा	श्री अरविंद राजमणि	कार्यपालन अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7- अकलतरा	श्री एम.डी.दीवान	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8- कोटमीसोनार	श्री प्रमोद कुमार बैस	जिला खेल अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9- अर्जुनी	श्री सी.एल.गोंड	प्राचार्य	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10- परसदा (रे)	श्री राकेश कुमार सोनी	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11- बनाहिल	डॉ. श्यामलाल खैरवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12- तिलई	श्री महेन्द्र सिंह तंवर	अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13- चारपारा	श्री चन्द्रकांत शुक्ला	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

14	14- जूनाडीह	डॉ.एस.एल.ओग्रे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ ,अकलतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15- कटरा	श्री उमाशंकर सिंह	सहायक संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16- खिसोरा(ब)	डॉ.राहुल राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17- खारी	श्री उमेश गुप्ता	उप पंजीयक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18- पुरैना	श्री दशरथलाल सोनवानी	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19-पोच	श्री विजय साहू	एसडीओ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20- औराईकला	श्री एस.एस.यादव	वरिष्ठ कृषि अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21- जर्वे	श्री प्रदीप तिवारी	अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	1-चाम्पा	श्री अवनीन्द्र सिंह	अधिष्ठाता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	2-चाम्पा	डॉ.के.के.राठौर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	3-चाम्पा	श्री टी.पी.भावे	उप संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	4-पाली	डॉ.सतीश समदर्शी	आयुर्वेद अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	5-खैरा	डॉ. जैनेन्द्र सूर्यवंशी	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	6- खोखसा	श्री तरूण कुमार साहू	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	7- बिरगहनी	श्री नमित कोसरिया	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	8-नैला	श्री पंकज पाण्डेय	सहायक संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	9- नैला	डॉ.के.एल.मैत्री	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	10.जांजगीर	श्री चित्रसेन पटेल	जिला पंजीयक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	11- कुटरा	श्री गोपाल प्रसाद नायक	प्राचार्य	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	12-खोखरा	डॉ.एस.एस.सिदार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	13- पेण्डी	श्री एस.के.सिलारे	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	14- कनई	श्री एन.के.दिनकर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

36	15- हरदी	श्री कलीराम पाटले	कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	16- बुढ़ेना	श्री सौरभ कदम	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	17- अमोरा	श्री मनीष कुमार मरकाम	एसडीओ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	18- सेमरा	श्री रवि शर्मा	परियोजना अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	19- तेन्दुआ	श्री इन्द्रमणी सिंह	सहा.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	20- गिद्धा	श्री घनश्याम पाणिग्राही	श्रम पदाधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	21- किरित	श्री सुधीर कुमार सुखदेव	अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	1- उच्चभिठ्ठी	श्री विजय कुमार लहरे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	2- सिवनी	श्री ललित कुमार जाटवर	सहा.विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	3- सोठी	डॉ.केशव पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	4- कोसमंदा	श्री सी.के.धृतलहरे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	5- रिस्दा	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	6- सारागांव	श्री मनीष भगत	प्रबंधक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	7- दारंग	श्री जितेन्द्र नेताम	कार्यपालन अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	8- झींका	श्री भाष्कर कुमार राठौर	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	9-मुक्ताराजा	डॉ.सुरेश कंवर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	1- बम्हनीडीह	श्री राजकुमार तिवारी	जिला मिषन समन्वयक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	2- सरवानी	श्री राम खण्डेलवाल	प्रबंधक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	3- पोड़ीशंकर	श्री सुखसागर सूर्यवंशी	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	4- करनौद	श्री ऐश्वर्य वर्मा	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	5- तालदेवरी	श्री श्यामरतन खाण्डे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	6- बिरा	डॉ.ए.एल.िंसंह	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

58	1- मुलमुला	श्री राहुल पटेल	सहायक संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	2- कोसा	श्री एच.एल.साहू	रेषम अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	3- लगरा	श्री एम आर जायसवाल	जिला रोजगार अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	4- पामगढ़	श्री युगेश्वर प्रसाद बंजारे	सहायक संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	5- डोंगाकोहरौद	डा॰ महेन्द्र सिंह पाटले	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	6-भिलौनी	श्री आलोक तिवारी	सहायक अभियंता, क्रेडा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	7-कोसला	श्री सूर्यकांत गुप्ता	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	8- मेंहदी	श्री पंकज कुमार पटेल	अनु.कृषि अधिकारी पामगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	9- रसौटा	श्री खुन्नुलाल खुराना	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	10- भुईगांव	श्री संतोष कुमार भारती	एसडीओ	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	11- पकरिया	श्री सी.एस.बनाफर	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	12- लोहसी	श्री ए.एल.कुर्रे	कार्यपालन अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	13- कुरयारी	श्री तमेश्वर देवांगन	सहायक संचालक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	14- कुकदा	श्री ए. तिकी	महा प्रबंधक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	15- सलखन	श्री आर.जी.तिवारी	प्राचार्य	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	16- कटौद	श्री एस.आर.पैकरा	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	17- मिस्दा	श्री विनय कुमार टैगर	प्रबंधक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	18- केरा	श्री नवधाराम जाटवर	सहायक अभियंता	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

14. जिला-सक्ती

1	जर्वे	श्री हितेन्द्र राठौर	मुख्य कार्यपालन अभियंता(सिंचाई) मिनीमाता बागो नहर संभाग क्र. 06 सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	बरपालीकला	श्री के.पी.राठौर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

3	नगरदा	श्री पीयूष एक्का	अनुविभागीय अधिकारी जनसंसाधन विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	अचानकपुर	श्री यशवंतराज सिंह माण्डलेकर	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	जाजंग	श्री एस.एल. त्रिवेदी	अनुसंधान अधिकारी सिंचाई विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	सकरेली बा०	श्री इंदल सिंह राठिया	प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल सकरेली बा०	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	नन्दौरकला	श्री हरि लाल पटेल	सहायक खेल अधिकारी कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	सकरेलीकला	श्री बी.एल.खरे	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	रगजा	श्री जितेन्द्र साहू	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	सोंठी	श्री गजेन्द्र कुमार राठौर	प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल जेठा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	सक्ती	श्री संजय सिंह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	पोरथा	श्री कृतराज	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	लवसरा	श्री योगेश पटेल	सहायक अभियंता कार्यालय गृह निर्माण मंडल सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	बाराद्वार बस्ती	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	टेमर	श्री एस. आर. भगत	प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरीबंधा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	आड़िल	श्री रिद्धीशंकर पटेल	पशु चिकित्सा शल्य अधिकारी शल्य अधिकारी मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	आमनदुला	श्री वासुदेव एक्का	सहा.प्राध्या. शास वे० महा० वि० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	अड़भार	श्री सुमित राजपुत	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	सपिया	श्री त्रिभुवन सिंह जगत	वि.शि.अधिकारी वि०ख० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	फगुरम	श्री वतन जाधव	व. कृ. अधिकारी कृषि वि० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	मुक्ता	श्री राज कुमार कुर्रे	सहा.प्राध्या. शास वे० महा० वि० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	पोता	श्री दीपक कुमार मित्रा	व्याख्याता शा.उ.मा.वि.बड़े सीपत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	मालखरौदा	श्री आर .आर. खुटे	सहा.प्राध्या. शास वे० महा० वि० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	सीपत छोटे	श्री सुखीराम सिदार	प्राचार्य शा०उ०मा०वि० बा०अडभार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
25	सिंघरा	श्री एल आर कोशरिया	सहा.प्राध्या. शास वे० महा० वि० मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	खोंधर	श्री रामजीवन	मुख्य नगर पालिका अधि. नगर पंचायत चन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	चुरतेला	श्री आर.के.खुंटे	उप अभियंता जल संसाधन विभाग उपसंभाग डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	गोबरा	श्री श्यामलाल वारे	वि.शि.अधिकारी वि ख० डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	देवरघटा	श्री सुनील कुमार	सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	केनापाली	श्री ज्ञानिकचंद जांगडे	अनु.वि.अधि. लोक नि० विभाग पंचायत एवं नि० विभाग डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	टुण्डी	श्री डी.सी. देवांगन	वरीष्ठ कृषि विकास अधिकारी कृषि विभाग डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	बघौद	श्री कोमल प्रसाद पटेल	सहा.वि.वि. अधिकारी जनपद डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	कोटमी	श्री मनीष शर्मा	सहा.वि.शि.अधिकारी वि ख० डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	सकराली	श्री विनोद कुमार	सहा.प्राध्या. महा० वि० डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	डभरा	श्री के.एस.पटेल	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डभरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	सपोस	श्री बालकृष्ण पटेल	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कोटमी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	पेण्ड्रवां	श्री विवेक यादव	सहा.प्राध्या. महा० वि० चन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	मिरौनी	श्री राजेश पटेल	सहा.प्राध्या. महा० वि० चन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	चन्द्रपुर	श्री आर.के.चंद्रा	सहा.प्राध्या. महा० वि० चन्द्रपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	जैजैपुर	श्री धनंजय सिंह चन्द्रा	उप अभियंता जनपद पंचायत जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	आमगांव	श्री विष्णु गहेरवार	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	नंदेली	श्री पीलाधन सिंह सिदार	अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन मि.मा.बां.न.उप संभाग 05 सक्ती जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	गुचकुलिया	श्री बी.एल. कश्यप	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन माईनर जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	ठठारी	श्री संजय कुमार सतनामी	सहायक प्राध्यापक शास.महा.विद्यालय जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	रायपुरा	श्री आनंद राय	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत अडभार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

46	भोथिया	श्री विजय सिदार	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	कचंदा	सुश्री चंद्रिका आमो	सहा. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड मालखरौदा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	हरदीडीह	श्री महेन्द्र कपूर कूर्रे	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	ओड़ेकेरा	श्री जे.के. कंवर	डिप्टी रेंजर वन विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	देवरघटा	श्री त्रिनाथ रेड्डी	प्रबंधक नान (नागरिक आपूर्ति निगम)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	कैथा	श्री विनय कुजूर	सहा. जिला खाद्य अधिकारी जिला कार्यालय खाद्य विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	हसौद	श्री अरूण जायसवाल	व्याख्याता शा.कन्या उ.मा.वि. हसौद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	चिस्टा	सुश्री मिनाक्षी बेक	सहा. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	पिहरीद	श्री कौशल प्रसाद चंद्र	प्राचार्य शा.उ.मा.वि. पिहरीद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	भड़ोरा	श्री संजय सिंह	सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	छपोरा	श्री रामनारायण गांगे	सहा. भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग जैजैपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	मिरौनी	श्री आर. के. साहू	कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड सक्ती	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

15. जिला-महासमुन्द

1	1 चनाट	श्री बुंदरलाल मिर्धा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	बड़े साजापाली	श्री सचिन ठाकुर	उप अभियंता कार्यालय जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 1 सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3 लम्बर	श्री जोइधाराम डहरिया	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4 जमदरहा	श्री मुरारी साहू	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5 भंवरपुर	श्री संजय निषाद	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग उप संभाग सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6 सागरपाली	श्री विवेक पटेल	अनुविभागीय कृषि अधिकारी सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7 डुडुमचुंवा	7 डुडुमचुंवा	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8 मुंधा	श्री केशव सिंह सुमन	सब इंजीनियर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

9	09 बालसी	श्री देवनारायण दीवान	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10 जोगनीपाली	श्री संतोष पैकरा	डिप्टी रेंजर सिंघोड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11 सरायपाली	श्री अशोक शर्मा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12 बोंदानवापाली	श्री अरविंद कुमार सिंह	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग उप संभाग-सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13 नवरंगपुर	श्री प्रत्युष टाण्डे	वन परिक्षेत्र अधिकारी सरायपाली मो .न 8319579540	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14 जलपुर	श्री जितेन्द्र कुमार रावत	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली मो न 9630805491	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15 दमोदरहा	श्री अक्षय नंद	उप वन क्षेत्रपाल बसना मो न 9340643837	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16 खम्हारपाली	श्री भानुप्रताप टंडन	उप अभियंता जल संसाधन उप सभाग बसना मोबा न. 9644842942	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17 अर्जुण्डा	श्री पवन कोसले	उप अभियंता गृह निर्माण मंडल महासमुन्द मो न 9479179131	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18 तोषगांव	श्री फुलकुमार बढाई	उप अभियंता जल संसाधन संभाग बसना मो न 8959727464	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19 तोरेसिंहा	श्री विनोद कुमार श्रीवास	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरायपाली 9754777769	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20 बलौदा	श्री सुखराम निराला	वन क्षेत्रपाल कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी बसना 9009172913	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21 जलगढ़	श्री दीपक ध्व	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु) सरायपाली 9893493504	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22 कलेण्डा	श्रीमती शिखा पटेल	सहायक अभियंता कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग सरायपाली 7987705424	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23 चारभांठा	श्री सुनील कुमार पालके	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24 मल्दामाल	श्री जे.एस.नायक	उप अभियंता कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उप संभाग सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25 टेमरी	श्री भुवन लाल कौशिक	उप अभियंता नगर पालिका सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26 सिंघोड़ा	श्री नागेन्द्र निराला	उप अभियंता, कार्यालय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	1 - सरकड़ा	श्रीमती रतन तंवर	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना पिथौरा eks u 7745940032	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

28	2 - लहरौद	श्री जी.के.पाण्डे	श्रम अधिकारी, महासमुंद मो न 9826988281	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	3 - पिथौरा	श्रीमती लता हरित	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पिथौरा 7987296814	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	4 - राजा सेवैया खुर्द	श्री नयन कुमार प्रधान	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बसना मो न 9977045787	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	5 - सपोस	श्री हेमंत कुमार डड़सेना	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	6 - सुखीपाली	श्री हिमांशु पाण्डेय	उप अभियंता जनपद पंचायत पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	7 - सांकरा	श्री द्वारिका पटेल	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा मो न 9977045499	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	8 - परसवानी	श्री के.के.ठाकुर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा मो न 9993444637	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	9- कटंगतराई	श्री लोकेश्वर सिंह कंवर	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	10- सल्डीह	श्री सुमन पटेल	श्री सुमन पटेल उप अभियंता कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 2 पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	11- तिलंजनपुर	श्री पी.एन.सामल	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, बसना 9425529174	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	12- बरनाईदादर	श्री बद्रीविशाल जोल्हे	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना, 7979360930	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	13- बम्हनी	श्री सूरज सिदार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत बसना 9424233757	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	14- पिरदा	श्री एल.डी.रायकवार	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी बसना/पिथौरा 8085074312	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	15- भस्करापाली	श्री महेन्द्र गुप्ता	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	16- जगदीशपुर	श्रीमती आँचल चंद्राकर	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	17- बिजराभांठा	श्री रामेश्वर वासनिक	उप अभियंता मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	18- नौगड़ी	श्री गिरिश विश्वकर्मा	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतू) बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	19- खेमड़ा	श्री जसवंत सिंह पैकरा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	20- भुकेल	श्री विकास कुमार सोनी	उप अभियंता जनपद पंचायत बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	21- सिंघनपुर	श्री जागेश्वर साय पैकरा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	22- मोहका	श्री मुकेश प्रजापति	उप अभियंता गृह निर्माण मण्डल, उप संभाग महासमुंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

49	23- बसना	श्री अंजोर सिंह सिदार	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप खण्ड-सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	24- बसुंला	श्री डी.पी. जोशी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	25- गढ़फुलझार	श्री राजेश एक्का	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	26- बरोली	श्री चन्द्रहास नाग	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	27- अंकोरी	श्री विनोद शुक्ला	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	28- कुरचुण्डी	मुकेश नायक	उप अभियंता कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	1. खम्हरिया	श्री डी एल बर्मन	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद बागबाहरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	2. तुसदा	श्री एन.के. ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी कोडार नहर क्रमांक-2 महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	3. मामाभांचा	श्री मनोज धृतलहरे	जिला खेल अधिकारी, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	4. खल्लारी	श्री बाला प्रसाद भार	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बागबाहरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	5. आंवराडबरी	श्री उमेश कुमार भार्गव	खनिज निरीक्षक महासमुन्द 9406040304	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	6. सुखरीडबरी	श्री डी.एन. जांगड़े	सहायक कार्यक्रम समन्वयक जिला परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	7. तेन्दुकोना	श्री प्रफुल्ल कुमार साहू	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	8. मुनगासेर	श्री कमलनारायण धुव	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	9. खेमड़ा	श्री शशिकांत सिंह भुवाल	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	10. बंसुलाडबरी	श्री मंगल प्रसाद चंद्राकर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्रमांक-2 महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	11. देवरी	श्री साधराम कुर्रे	सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग बागबाहरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	12. खोपली	श्री पी आर शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग पिथौरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	13. नर्रा	श्री आशीष कुलदीप	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	14. कोमाखान	श्री किशोर कुमार चंद्राकर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग महासमुन्द 88321019937	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	15. बकमा	श्री कौशल वर्मा	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बागबाहरा 9340728809	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

70	16. टुहलु	श्री नरेन्द्र कुमार चन्द्राकर	उप वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्रपाल परिक्षेत्र बागबाहरा 9300584433	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
71	17. हाथीबाहरा	सुश्री पूर्णिमा चन्द्रा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्र 2 महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
72	18. बोकरामुड़ाकला	श्री कमलेश साहू	उपअभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग क्रमांक-02 बागबाहरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
73	19. लालपुर (बागबाहरा)	श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बागबाहरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
74	20. घोंच	श्री नागेन्द्र कुमार सिन्हा	उपअभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
75	21. जंघोरा	श्री ललित सिन्हा	उपअभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
76	22. भुरकोनी	श्री अंचल चन्द्रवंशी	मत्स्य निरीक्षक, विकास खण्ड बागबाहरा, जिला-महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
77	23. कोल्दा	श्री अजय ठाकुर	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग क्रमांक-1 महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
78	24. बुंदेली	श्री एच.के. बिसेन	अनुविभागीय अधिकारी सर्वेक्षण अनुभाग महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
79	1 - सिरपुर	श्री अमित कुमार मोहंती	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
80	2 - छपोराडीह	श्री लोकनाथ ध्रुव	वन क्षेत्रपाल महासमुन्द मो न 8770854589	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
81	3 - मालीडीह	श्री आकाश शुक्ला	उपअभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
82	4 - अछोला	श्री लीलाधर सिन्हा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
83	5 - भोरिंग	श्री आर.पी. पटेल	सहायक अभियंता, वि.ख.-महासमुन्द छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
84	6 - तुमगांव	श्री डी.के. चन्द्राकर	उप अभियंता कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
85	7 - बेमचा	श्री खिरसागर नायक	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत तुमगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
86	8 - बेलसोंडा	सुश्री संगीता सिंह	उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
87	9-बरोण्डाबाजार	श्री जागेश्वर सिन्हा	विकासखण्ड स्तरीय समन्वयक, महासमुन्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

88	10 - शेर	श्री भीमराव घोडेसवार	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी महासमुन्द 9009229778	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	11 - खट्टी	सुश्री गणेश्वरी बंजारे	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	12 - सिंघी	श्री टी.आर.सिन्हा	रेंजर महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	13 - पटेवा	श्री लुकेश बैस	सहायक संचालक हथकरघा, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	14 - बावनकेरा	श्री सी.एच.जांगड़े	सहायक अभियंता छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	15 - रायतुम	सुश्री सालिनि गबेल	जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम महासमुन्द 9993852699	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	16 - छिन्दौली	श्री मोहन लाल साहू	प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग महासमुन्द मो न. 8770673183	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	17 - झलप	श्री एच.एल.यादव	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	18 - नरतौरा	18 - नरतौरा	कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण मंडल, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	19. महासमुन्द	श्री खिलेश्वर साहू	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग, महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
98	20 - महासमुन्द (स्थानीय)	श्री दीपक मंडावी	जिला पंजीयक महासमुन्द 881706749	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	21 - महासमुन्द (स्थानीय)	श्री टामसन रात्रे	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद महासमुन्द	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री राजकिशोर पटेल	सहायक प्राध्यापक स्व.राजा विरेन्द्र महाविद्यालय सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री कमलेश शेंडे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु) सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री भिमेंद्र नेताम	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु) सरायपाली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

16. जिला-बलौदा बाजार- भाटापारा

1	1-बलौदा	श्री डी.पी.एस.गौतम	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2-टुण्डरा	श्री अखिलेश कुमार भारद्वाज	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत टुण्डरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-गिधौरी	श्री रमाकांत देवांगन	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-मटिया	श्री आदित्य शर्मा	परियोजना अधिकारी सोनाखान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
5	5-रामपुर	श्री तिरिथ राम घृतलहरे	बी.आर.सी.सी., विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-गिरौद	श्री आशीष अग्रवाल	उप अभियंता, नगर पंचायत टुण्डरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7-नवागांव	श्री दिनेश कुमार वर्मा	वनपाल, वन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8-बार	श्री सालिकराम डडसेना	उप वनक्षेत्रपाल, वन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	8A-बार	श्री योगेश कुमार साहू	उप वनक्षेत्रपाल, वन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	9-चांदन	श्री मनोज दाखोडे	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र *
11	10-बया	श्री खेमलाल डडसेना	वनपाल, वन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र *
12	11-थरगांव	श्री संतराम ठाकुर	वनपाल, वनपाल परिक्षेत्र सहायक अर्जुनी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	12-बानीखार	श्री आर. के. बंसोर	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	1-डमरु	श्री बसंत खांडेकर	उप वन परि. अधि., वन विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	2-खैदा	श्री रामरतन महिलांगे	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	3-लाहौद	श्री ईप्रेश कुर्रे	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	4-पनगांव	श्री भूपेन्द्र कुमार भक्त	खनिज निरीक्षक, खनिज विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	5-कोहरौद	श्री विनय पटेल	उप अभियंता, गृह निमाण मंडल बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	6-चिचिरदा	श्री एल.एन.निराला	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	7-अहिल्दा	श्री हीरा सिंह पैकरा	उद्यान विकास अधिकारी, उद्यानिकी विभाग बलौदा बाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	8-मरदा	श्री नसीब कोसले	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	9-कोयदा	श्री व्ही. के. सिरमौर	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	10-लवन	श्री विवेक कुमार पटेल	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	11-हरदी	श्री अलोक सिंह	सहायक संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	12-बगबुड़ा	प्रमोद निर्मलकर	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	13-धाराशिव	श्री शिव कुमार गर्ग	उप अभियंता, नगर पंचायत लवन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
27	14-सलौनी	श्री वायल राबर्ट	सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	15-लच्छनपुर	श्री जगदीश प्रसाद मिरी	प्रशिक्षण अधिकारी, शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सकरी बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	16-छेरकापुर	श्री गुलशन कुमार गायकवाड	उप अभियंता, जनपद पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	17-अमेरा	श्री ऐनक राम साहू	प्रशिक्षण अधिकारी, शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सकरी बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	18-कोसमंदी	श्री अनिश कुमार वर्मा	उप अभियंता, जनपद पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	19-गुमा	श्री बीरेन्द्र कुमार खरे	सहायक प्राध्यापक, शा. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	20-जारा	श्री निर्मल चेलक	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	21-देवसुन्दा	श्री चंदन कुर्रे	पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	22-जर्वे	श्री बी.के. लोंहारे	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	23-कोदवा	श्री अनिल कुमार वर्मा	उप अभियंता, नगर पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	24-सुन्दरावन	श्री गजानंद तारम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	25-तेलासी	श्री निषांत सिन्हा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	26-भवानीपुर	श्री एम कुजुर	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	27-वटगन	श्री वैभव सिंह धुव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	28-दतान प	श्री नरेश कुमार वर्मा	सहा. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	29-पलारी	श्री योगेश वर्मा	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	30-बिनौरी	श्री के.एन. वर्मा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	31-रेहांसी	श्री जीवन लाल जोशी	बीआरसीसी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	32-ओड़ान	श्री टीकेश्वर साहू	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग नहर पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	33-धौराभांठा	श्री अर्पित अग्रवाल	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग नहर पलारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	34-कसडोल	श्री सचित कुमार साहू	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

48	35-कोट	श्री अरविन्द्र ध्रुव	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	36-सर्वा	श्री जितेन्द्र कुमार जांगड़े	उप अभियंता, नगर पंचायत कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	37-कटगी	श्री सुरेश कुमार पैकरा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	38-सेल	श्री रामप्रसाद जोशी	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	39-पिसीद	श्री ए.ए.लाल	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	40-कोसमसरा	श्री बिमलेश कुमार वर्मा	वनपाल, वन परिक्षेत्र सहायक देवतराई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	41-बोरसी	श्री रोहित खरे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	42-अर्जुनी	श्री रामकुमार ठाकुर	उप वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र देवपुर उपमंडल कार्यालय कसडोल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	1-सेम्हराडीह	श्री योगेश खांडे	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	2-अर्जुनी	श्री राजेन्द्र जोशी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	3-रवान	श्री के.आर.पैकरा	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	4-करमदा	श्री कैलाश साहू	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	5-लटुवा	श्री जीतेन्द्र कुमार धिरही	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	6-रसेड़ा	श्री राजेन्द्र टंडन	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	7-खैरघटा	श्री अविनाश तिवारी	विकास खण्ड स्तरीत समन्वयक, विकास खण्ड स्तरीत केन्द्र बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	8-सकरी	श्री कुलेश्वर वर्मा	उप अभियंता, मुख्य मंत्री सड़क योजना बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	9-बलौदाबाजार-1	श्री एस. ध्रुव	अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य मंत्री सड़क योजना बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	10-बलौदाबाजार-2	श्री दामोदर वर्मा	निरीक्षक, नाप तौल विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	11-रिसदा	श्री खिलावन लाल वर्मा	सहायक जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा परियोजना बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	12-रावन	श्री विनोद यादव	उप अभियंता, न.पा. बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ

				क्षेत्र
68	13-शिकारीकेसली	श्री चोवाराम ध्रुव	मंडल संयोजक, अ.जा.वि.विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	14-जरौद	श्री लोकेश कुमार	सहायक संचालक, अ.जा.वि.विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	15-सुहेला	श्री जयेंद्र कँवर	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	16-खिलोरा	श्री नारद कुमार भारद्वाज	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	17-मोहभट्टा	श्री बी.पी. शर्मा	सहायक संचालक, मतस्य विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	18-हथबंद	श्री त्रिभुवन वर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	19-भटभेरा	श्री बी.आर.पटेल	सहायक संचालक, शिक्षा विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	20-झीपन	श्री के.के.गुप्ता	सहायक संचालक, शिक्षा विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	21-हिरमी	श्री मनोज कुमार भारद्वाज	उप अभियंता, जनपद पंचायत बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	1-तुलसी	श्री प्रमोद कुमार टंडन	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	2-तरपोंगा	श्री तरूण साव	उप अभियंता, जनपद पंचायत सिमगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	3-गणेशपुर	श्री राकेश सिंह	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड सिमगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	4-बनसांकरा	श्री ढालसिंह ठाकुर	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड सिमगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	5-सिमगा	श्री लव डोंगर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत सिमगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	6-कामता	श्री यशवंत वर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत सिमगा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	7-केसदा	श्री मोहित राम वर्मा	उप अभियंता, नगर निर्माण उप संभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	8-चैरंगा	श्री रामकुमार ध्रुव	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	9-रोहरा	श्री स्वामीनाथ यादव	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	10-तरेंगा	श्री मुन्ना सिंह नेताम	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	11-देवरी	श्री भास्कर देवांगन	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	12-कड़ार	श्री विक्रम चेलक	उप अभियंता, नहर निर्माण विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

89	13-सिंगारपुर	श्री अभीजित मित्रा	अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा), जनपद पंचायत भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	14-कोदवा	डॉ. एस.एन.अग्रवाल	पशु चिकित्सक सहायक शल्य , पशु चिकित्सालय भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	15-पुराना वि.ख.शि.अ.	श्री लाल अजय बहादुर सिंह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	16-गजा.महा.वि.	श्री बी.एल. खंडेल	अनुविभागीय अधिकारी, नाहर निर्माण शाखा उप संभाग क्र. 02 भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	17-कृषि उपज मंडी	श्री शंकर दयाल शर्मा	सहायक अभियंता, नगरपालिका भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	18-कन्या प्रा.शा. मातादेवालय	श्री राकेश सोनी	उप अभियंता, नगरपालिका भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	19-बोड़तरा	श्री कन्हैया देवांगन	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	20-धुरबांधा	श्री बी.आर. सोमनकर	उप अभियंता, अनु.अधि. जल संसाधन विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	21-मोपका	श्री सी.एल.साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
98	22-पासीद	श्री वी.एन कुर्रे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	23-खैरा	श्री दयानंद कोसले	सहायक अभियंता, यांत्रिकी विभाग बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	24-गुरा	श्री झगेश्वर सिंह वर्मा	उप अभियंता, मु.मं.ग्रा.से.यो.बलौदाबाजार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
101	25-मल्दी	श्री रामजी पाल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , विकासखण्ड भाटापारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

17. जिला-रायपुर

1	4501- सड़इ	विकास कुमार दुबे	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, डिसनेट संभाग क्रमांक 3 तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	4502- सरोरा	रविन्द्र कुमार मंडराहा	सहायक अभियंता अनुविभागीय अधिकारी पैरी हाई डेम उप संभाग तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	4503- टण्डवा	समीर सौरभ	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना, तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4504- छतौद	प्रफुल्ल कुमार चावड़ा,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	4505- कुंदरू	एम.पी. वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी अनु.अधिकारी, म.ज.प. डिसनेट उपसंभाग क्र11 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	4506- तिल्दा	ऐश्वर्य जायसवाल,	सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	4507- सासाहोली	सुरेश कुमार देवांगन,	उप नियंत्रक, कार्यालय नाप तौल विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

8	4508- नेवरा	लक्ष्मी नारायण केंवट,	अनुविभागीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक 3 तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	4509- खपरी	कृष्ण कान्त खरे,	कार्यपालन अधिकारी कार्यपालन अभियंता, म ज प डिसनेट संभाग क्रमांक 3 तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	4510- केंवतरा	प्रदीप चौधरी,	सहायक अभियंता छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	4511- तुलसी	विद्याभूषण मेश्राम	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, अनुभाग तिल्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	4701-कुंरा	जितेन्द्र कुमार साव,	बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना, धरसीवा-2	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	4702- धरसीवां	कुमार मणि बारीक,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	4703- सौंडरा	जी.के. नन्दे,	कार्यपालन अभियंता कार्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र 2 शंकर नगर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	4704- गुमा	पुरुषोत्तम लाल बंधेय,	वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त १ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	4705- टेकारी	ब्रजभूषण सिंह गौतम,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	4706- मांढ़र	कृष्ण कुमार यादव,	सहायक अभियंता अधीक्षण अभियंता, लो नि वि सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	4707- जोरा	पुरुषोत्तम साहू,	कार्यपालन अभियंता (सिविल) छ.ग. गृह निर्माण मंडल शंकर नगर संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	4708- कचना	लक्ष्मीकांत गजेन्द्र,	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, अनुभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	4709- छपोरा	प्रेमलाल पटेल,	कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	4710- चरौदा	केशव स्वर्णकार,	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	4711- देवरी	राजेश टोप्पो,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	4712- सिलियारी	उत्तम कुमार गव्हाड़े,	अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, उप संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	4713- पथरी	अजय कुमार राठौर,	सहायक अभियंता कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

25	4714- सारागांव	पवन कुमार यदु,	अनुविभागीय अधिकारी छ.ग. गृह निर्माण मंडल रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	4715- दोदेखुर्द	चंद्रशेखर जगत,	सहायक संचालक नवा रायपुर विकास, प्राधिकरण अटल नगर रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	4716- मढी	घनश्याम प्रसाद कोष्टी,	अनुविभागीय अधिकारी कार्यपालन अभियंता वि.यां- भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	4717- खौना	अनिल कंवर,	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता विधुत यांत्रिकी खंड रावनभाठा रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	4718- रायखेडा	बी. निवास राव बोयना,	कार्यपालन अभियंता, कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो.नि.वि., रायपुर,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	4719- मोहरेंगा	हीरा लाल परमहंस,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.1, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	4720- माठ	हरीश कुमार,	कार्यपालन अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	4721- बेलदार	मुरली राल्लपल्ली,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	4722- घिघवा	चन्द्रमणी प्रसाद,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग वि.यां. संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	4723- केसला	संतोष कुमार झारिया,	कार्यपालन अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग वि.यां. संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	4724- खरोरा	हिमांशु सोनकर,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	4725- पचरी	महेश दत्त ओझा	सहायक संचालक सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	4726- कुम्हारी	प्रदीप कुमार आड़िल,	सहायक अभियंता उप संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्र. 4 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	4801- सोनडोंगरी	शिवांशु राज गुप्ता,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	4802- गोगांव	नवनीत कुमार मिश्रा,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां. सेवा उप संभाग धरसीवां जिला रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	4803- उरला	जयवंत राज वाल्टर,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.परि. रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	4804- सरोरा	जेड.एम. खान,	कार्यपालन अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन अटल नगर नवा रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

42	4805- बीरगांव 1	आर.के. कश्यप,	उप संचालक, कृषि कार्यालय उप संचालक, कृषि विभाग जिला कार्यालय रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	4806- पुराना पालिका बीरगांव	लाल महेन्द्र प्रताप सिंह,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम, जोन क्रमांक-01 रायपुर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	4807- रांवाभाठा	लोकेश कुमार लहरे,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	4808- भनपुरी गंगानगर	जे.आर. पटेल,	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	4809- भनपुरी	हितेश कुमार ठाकुर,	रा.व.से. सहायक वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	4810- सड़दू	अमित सिन्हा,	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना, धरसीवां 1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	4811- मोवा 1	रघुनन्दन सिंह तोमर,	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मंडल क्रमांक 2, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	4812- मोवा 2	सुरेंद्र सिंह मांझी,	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	4813- लाभाण्डी	सतीश कुमार टीकम,	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता जल संसाधन एवं भू जल सर्वेक्षण मण्डल रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	4814- अमलीडीह	प्रकाश गुप्ता,	वाणिज्यिक कर अधिकारी सहायक आयुक्त रायपुर वृत्त-सात (अति)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	4815- देवपुरी	संदीप यदु,	सहायक आयुक्त कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर वृत्त-एक, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	4816- पुरैना	सुशील अहीर,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 3	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	4817- डूमरतराई	विपिन लालवानी,	सहायक संचालक हाथ करघा इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, चतुर्थ तल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	4818- लालपुर	नूरेन्द्र पटेल,	अतिरिक्त वाणिज्यिक अधिकारी, रायपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त 9 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	4819- मानाकैम्प	एरिक लकड़ा,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	4820- मानाबस्ती	महादेव भोई,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता लो नि वि यां संभाग सिरपुर भवन परिसर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	4821- सेजबहार	राजू लाल नागरे,	सहायक संचालक ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

59	4822- बोरियाखुर्द	जगदीश राम पुरेना,	अनुविभागीय अधिकारी सिंचाई परियोजना उपसंभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	4901- जरवाय	अशीष शुक्ला,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 2	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	4902-कोटा 1	विकास चन्द्राकर,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	4903- कोटा 2	अनिल घाटगे,	सहायक अभियंता सहायक अभियंता वि या उपखंड लो स्वा या वि रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	4904- गुढियारी 1	सौरभ बासु,	सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त राज्य कर, रायपुर वृत्त 3, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	4905- गुढियारी 2	नितिन कुमार गर्ग,	उपायुक्त राज्य कर, कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर संभाग क्र. 1,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	4906- गुढियारी 3	चंद्रकांत किशोर,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	4907- गुढियारी 4	विवेक केसवानी,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	4908- गुढियारी 5	उत्तम कुमार सूरज	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय उप संचालक जल मौसम विज्ञान संभाग क्र 4 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	4909- खमतराई	गोपाल दास मानिकपुरी,	सहायक आयुक्त. कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	4910- रामसागरपारा 1	मनीष बनवारी,	कार्यपालन अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि-यां- भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	4911- रामसागर पारा 2	देवकुमार सिंह,	संयुक्त संचालक संचालनालय मछली पालन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	4912- बढईपारा	रणजीत अशोक घाटगे,	सहायक अभियंता राष्ट्रीय राज्य मार्ग संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	4913- चिरहुलडीह	भजन लाल उईके,	सहायक संचालक रेशम ग्रामोद्योग संचालनालय इन्द्रावती भवन चतुर्थ तल नवा रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	4914- कालेज वार्ड 1	गजाराम कंवर,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 1	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	4915- कालेज वार्ड 2	रजत अग्रवाल,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	4916- कालेज वार्ड 3	मो. इमत्याजुर रहमान,	सहायक अभियंता छ ग राज्य सड़क विकास परियोजना (ए डी बी), रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	4917- रायपुरा	कमलनारायण यादव,	सहायक अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

77	4918- डुमरतालाब	द्रोणी कुमार पैकरा,	सहायक अभियंता, कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 4	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	5001- खमतराई	रमेश प्रसाद कुम्हारे,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	5002- स्टेशन वार्ड	दीपक देवांगन,	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र. 4	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	5003- सिविल लाईन	सत्यम पोर्ते,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	5004- फाफाडीह 1	रविकांत कुम्भकार,	परिवीक्षा अधिकारी, जिला कार्यालय समाज कल्याण रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	5005- फाफाडीह 2	टीकम गुनेन्द्र,	सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त, राज्य कर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	5006- पंडरीतराई	जय कुमार साहू,	सहायक अभियंता छ.ग. राज्य मंडी बोर्ड रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	5007- राजातलाब	विवेक शुक्ला,	कार्यपालन अभियंता अधीक्षण अभियंता, लो नि वि सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	5008- गंजपारा	आशालता गुप्ता,	सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	5009- केलकरपारा	देवेन्द्र डडसेना,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	5010- तेलीबांधा 1	सुरेन्द्र पटेल,	वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्यक कर अधिकारी रायपुर वृत्त 5 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	5011- आनंद नगर	शैलेन्द्र कुमार ठाकुर,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	5012- सिविल लाइन	सूरज वर्मा,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	5013- पंडरीतराई	अभिषेक गुप्ता,	कार्यपालन अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 8	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	5014- शंकर नगर 1	अरूण कुमार साय,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	5015- शंकर नगर 2	संतराम पैकरा	सहायक संचालक संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	5101- बुढापारा	नरसिंह पैकरा,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	5102- कंकाली पारा	सुरेश वर्मा,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय अन्त्यावसायी विकास नि. रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	5103- कुशालपुर	देवनारायण वर्मा,	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग क्रमांक 2 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

96	5104- लाखेनगर	अभिषेक मोहन तिवारी,	अनुविभागीय अधिकारी छ.ग. गृह निर्माण मंडल रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	5105- चंगोराभाठा	गोविंद साहेब बंजारे,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 7, 9926781512	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
98	5106- भाठापारा	अमरीश गुप्ता,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	5107- मठपुरैना	विक्रान्त देव वर्मा,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता लो नि वि यां संभाग सिरपुर भवन परिसर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	5108- अमीनपारा	कपिल कुमार मित्तल,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
101	5109- अमीनपारा	प्रवेश जोशी,	जिला खेल अधिकारी कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
102	5110- बैरनबाजार	निर्मल पाण्डेय,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
103	5111- टिकरापारा	आशुतोष भोई,	सहायक आयुक्त कार्यालय आयुक्त, राज्य कर संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
104	5112- बैजनाथपारा	महेश सिंह ठाकुर,	अतिरिक्त वाणिज्यकर अधिकारी वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त 9	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
105	5113- बैरनबाजार	फत्तेलाल साहू,	सहायक अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 10	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
106	5114- सिविल लाईन	आशीष कुमार दुबे,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.परि. रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
107	5115- बैरनबाजार	प्रभु किण्डो,	अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
108	5116- लालपुर	शुभम कुमार गुप्ता,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
109	5117- कृष्णानगर	विमल शर्मा,	कार्यपालन अभियंता कार्यालय नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्र. 5	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
110	5118- टिकरापारा 1	चन्द्र शेखर नोन्हारे,	संयुक्त संचालक, रेशम ग्रामोद्योग संचालनालय इन्द्रावती भवन चतुर्थ तल नवा रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
111	5119- टिकरापारा 2	वैभावकांत प्रधान,	सहायक आयुक्त संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
112	5201- नरहदा	शरदचंद्र कक्कड़,	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. फेस 2 कार्यसंभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
113	5202- खौली	लाल बहादुर शाह,	कार्यपालन अभियंता प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
114	5203- गोढी	संतोष कुमार पाण्डेय,	अनुभाग अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति, आरंग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

115	5204- भानसोज	सी.एस. चन्द्राकर,	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, संभाग 1 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
116	5205- धनसुली	कोमास तिकी,	सहायक संचालक संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
117	5206- रींवा	दिलीप राठी,	कार्यपालन अभियंता कार्यालय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल राज. परि. संभाग नवा रायपुर अटल नगर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
118	5207- मंदिरहसौद	कैलाश पैकरा,	उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, उद्यानिकीय विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
119	5208- गनौद	रोशन कुमार सिंह,	उपायुक्त कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
120	5209- पलौद	एफ.के. देवांगन,	सहायक अभियंता म ज प डिसनेट उपसंभाग, क्रमांक 10 आरंग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
121	5210- बरौदा	ऋषि कुमार बंजारे,	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना, आरंग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
122	5211- लखौली	अनिल कुमार कुजूर,	सहायक श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
123	5212- आरंग	गोविंद अहिरवार,	अनुभाग अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग क्र 1 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
124	5213- गुल्लू	प्रकाश कुमार साहू,	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
125	5214- भोथली	एम. एल. देवांगन,	अनुविभागीय अधिकारी भाठापारा नहर निर्माण उप संभाग क्र. 1 आरंग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
126	5215- कोसरंगी	अजीत कुमार शुक्ला,	कार्यपालन अभियंता, वरिष्ठ भूजल विद संभागीय भूजल सर्वेक्षण ई क्र. 8 शांतिनगर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
127	5216- समोदा	मनोज कुमार पैकरा,	उप संचालक उप संचालक, मछली पालन, प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
128	5217- कुरूद	विजय कुमार सोनवानी,	अनुसंधान अधिकारी मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
129	5218- पिरदा	अभिषेक बैरागी,	सहायक अभियंता मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
130	5219- कोरासी	हरीश कुमार साहू,	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, उप संभाग आरंग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
131	5220- भैंसा	दीपक कोहली,	सहायक अभियंता सहायक अभियंता भुजल सवर्धन उपखंड लो स या वि रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
132	5221- सकरी	आशुतोष कौशिक,	जिला पंजीयक जिला पंजीयक रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

133	5222- फरफौद	अरुण कुमार बढई,	सहायक अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
134	5301- रवेली	संतोष कुमार ठाकुर,	सहायक अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी कछार, ज.स.वि. रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
135	5302- सारखी	जागेश्वर साहू,	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना, अभनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
136	5303- खोरपा	सौरभ शर्मा,	उप संचालक कार्यालय राज्य शहरी विकास अभिकरण अटल नगर नवा रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
137	5304- अभनपुर	अजय खरे,	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग विभाग अभनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
138	5305- निमोरा	मनीष मिश्रा,	उपायुक्त कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
139	5306- केन्द्री	बृजभान सिंह परिहार	सहायक संचालक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, प्रमुख उद्यान शांतिनगर रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
140	5307- उपरवारा	लुकेश कटरिया,	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
141	5308- कठिया	अजय एक्का,	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
142	5309- तामासिवनी	फिलिफ एक्का,	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खंड रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
143	5310- गोईदा	अरुण कुमार जैन,	सहायक अभियंता अनु.अधिकारी, म.ज.प. डिसनेट उपसंभाग क्र11 रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
144	5311- टीला	आनंद एक्का,	सहायक संचालक, कार्यालय जिला योजना सांख्यिकीय रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
145	5312- चांपाझर	टी.आर. रिगरी,	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
146	5313- पारागांव	वकील सिंह,	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
147	5314- पोंड़	राहुल गुप्ता,	सहायक अभियंता कार्यालय क्रेडा जोनल रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
148	5315- खोला	एस.के. सहारे,	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता महानदी मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
149	5316 - मानिकचौरी	भोला उसेण्डी,	सहायक अभियंता, कार्यालय महानदी परियोजना रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
150	5317- तर्री	गणेश राम तुरकाने,	सहायक संचालक संचालनाय, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

151	5318- गोबरा नवापारा	विजय वाहने	सहायक अभियंता कार्य पालन अभियंता, वि.यां. लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग रायपुर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
-----	---------------------	------------	--	-----------------------

18. जिला-गरियाबंद

1	1-पोखरा	डा.के.के.पटेल	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र राजिम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2-बासीन	श्री बिसहत राम साहू	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-राजिम	श्री रमेश कुमार निषाद	जिला शिक्षा अधिकारी जिला गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-किरवई	श्री कुलेश्वर जोशी	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग राजिम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5-चचैद (श्यामनगर)	श्री मिथलेश कुमार देवांगन	सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-कोपरा	श्री तरुण तिवारी	वन परिक्षेत्र अधिकारी पाण्डुका	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7- लोहरसी	श्री शिव कुमार पटेल	सहायक संचालक, रेशम विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8-कौंदकेरा	श्री रामेन्द्र कुमार जोशी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9-भसेरा	श्री एस.के.साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10-जामगाँव	श्री बिदेशर सिंह पैकरा	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11-फिंगेश्वर	श्री रविशंकर देवांगन	उप अभि., मु.ग्राम सड़क यो.गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12-बेलर	श्री भूषण कुमार साहू	पशु चिकित्सा सहा.शल्यक्ष गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13-मुड़ागाँव	श्री ईश्वर लाल ध्रुव	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14-पक्तियाँ	श्री पुनीत राम सिरमौर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15-अतरमरा	श्री टी.आर.ध्रुव, सहा.अभियंता	क्रेडा गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16-कुरुद	श्री एलेन मिंज	श्रम पदाधिकारी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17-पोंड	श्री जनेश कुमार दीवान	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18-गायडबरी	श्री भगवान सिंह चन्द्राकर	उप अभियंता, जनपद पंचायत गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19-कोसमबुड़ा	श्री दीनबंधु ध्रुव	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

20	20-पीपरहट्टा	श्री नवीन चन्द्राकर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां. सेवा गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21-कोसमी	श्री के.एल.मतावले	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी छुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22-छुरा	श्री लालसिंह मरकाम	मुख्य नगर पालिका अधिकारी छुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23-खरखरा	श्री दीपक कुमार चन्द्राकर	उप अभियंता, जनपद पंचायत छुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24-घुटकुनवापारा	श्री आर.पी.दास	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25-कोचवाय	श्री एस.के. पण्डोले	सहा.अभि., लो.नि.वि.सेतु निर्माण गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26-गरियाबंद	श्री भूषण लाल देवांगन	सहा.अभि., ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग छुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	1-सदौली	श्री जी.के.ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी कृषि विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	2-कोसमबुड़ा	श्री महेन्द्र कुमार कन्नौजे	सहायक अभियंता (वि./यां.) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	3-सड़क परसुली	श्री महेश पैकरा	सहा.संचा. उपसंचालक कृषि गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	4-दर्दीपारा	डा. वेदप्रकाश सोनवानी	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सा नवागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	5-पीपरछेड़ी	श्री एच.एल. ध्रुव	उद्यान विकास अधिकारी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	6-लोहारी	श्री डी.एस.चैहान,	सहा.सांख्यिकी अधि., जि.यो.एवं सांख्यिकी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	7-धवलपुरडीह	श्री विष्णु यादव	पशु चिकित्सक, पशु विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	8-ओढ़	श्री जगदीश प्रसाद दर्दी	उपवनमण्डलाधिकारी उदंती गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	9-कनसिंधी	श्री आर.के. साहू	वन परिक्षेत्र अधिकारी, सड़क परसुली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	10-रसेला	श्री चन्द्र साहू	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास छुरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	11-मैनपुरखुर्द	श्री गुप्तेश्वर साहू	उप अभियंता, जनपद पंचायत मैनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	12-जिडार	श्री एस.के.यादव	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	13-मैनपुरकला	श्री रजनीकांत तिवारी	मंडी उपनिरीक्षक देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	14-शोभा	श्री चन्द्रशेखर मिश्रा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

41	15-गोना	श्री रविशंकर ध्रुव	सहायक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	16-तौरंगा	श्री राकेश सिंह परिहार	उप वनक्षेत्रपाल गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	17-इंदागांव	श्री छबिलाल ध्रुव	वन क्षेत्रपाल इंदागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	18-खोखमा	श्री महेन्द्र कुमार नौरंगे	उप अभियंता लो.स्वा.यांत्रिकी उपखंड गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	19-गोहरापदर	श्री ओमप्रकाश देशमुख	उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	20-झरगांव	श्री रमेश निषाद	सहायक संचालक, कृषि विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	21-मुचबहाल	श्री डी.पी.ठाकुर	उपसंचालक समाज कल्याण गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	22-सरनाबाबहाल	श्री संजीत मरकाम	वन परिक्षेत्र अधिकारी, मैनपुर सामान्य	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	23-अमलीपदर	श्री युवराम सिन्हा	उप अभियंता जल संसाधन विभाग देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	24-पानीगांव	श्री रंजीत कुमार मोहले	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	25-मुड़गेलमाल	श्री भूखन लाल सोरी	वनक्षेत्रपाल, नवागढ़ रेंज, वनमण्डलाधिकारी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	26-काण्डेकेला	श्री एस.के.नागे	बी.आर.सी.सी.मैनपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	27-उरमाल	श्री कामता लाल मरकाम	वनक्षेत्रपाल, वनमण्डल गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	28-धौराकोट	श्री देवनाथ बघेल	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	29-कदलीमुड़ा	श्री आर.के.सोरी	अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	30-मुड़ागांव	श्री खेलसिंह नायक	जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	31-सीनापाली	श्री मोहित कुमार साहू	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	32-लाटापारा	श्री अशोक पाण्डे	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	33-देवभोग	श्री सुरेश कुमार वर्मा	सहायक अभियंता, लोक स्वा.यांत्रिकी उपखण्ड देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	34-कुम्हड़ईखुर्द	डा. भीष्म साहनी साहू,	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ पशु चिकित्सा देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	35-झाखरपारा	श्री चंदन राय	उप संचालक, कार्या. उपसंचालक कृषि विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	36-डुमरबहाल	श्री शरद कुमार देवांगन	सहा.सांख्यिकी अधि.जिला योजना एवं सांख्यिकी गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

63	37-सेन्दमुड़ा	श्री गोरेलाल पैकरा	उप अभियंता, जनपद पंचायत देवभोग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
रिजर्व टीम				
1		श्री लिमेश कुमार साहू	उप अभियंता, ग्रा.यां.से.जनपद पंचायत गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री मनीष साहू	उप अभियंता, लो.नि.वि.गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री फागूलाल नागेश	प्रभारी खनिज अधिकारी, गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री विद्यासागर सोनी	सहा.अभियंता, छ.ग.ग्रा. स.वि.अभि.गरियाबंद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19. जिला-धमतरी				
1	01 - खिसोरा	श्री हरीश कुमार पारकर	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	02 - कपालफोड़ी	श्री नरेन्द्र कुमार नायक	उप अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता (वि/यां), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	03 - मगरलोड	श्री रूप चंद सूर्यवंशी	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	04 - मोहदी	श्री आदित्य चन्द्राकर	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	05- सोनेवारा	श्री हरिक राम ध्रुव	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि नगरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	06- कोरगांव	श्री हीरा चंद	उपअभियंता, जलप्रबंध संभाग, रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	07- सिंगपुर	श्री पवन ध्रुव	उप अभियंता, जनपद पंचायत, कुरुद,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	08 मारागांव	श्री प्रदीप कुमार सिन्हा	उप अभियंता, कार्यालय मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत मगरलोड,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	09 सलोनी	श्री शिवशंकर नाविक	उपवनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10- कुकरेल	श्री कृष्णा राम साहू	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान नापतौल विभाग धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11- केरेगांव	श्री दीपक कुमार ध्रुव	उप अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग, जल संसाधन विभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12- भोथापारा	श्री प्रदीप कुमार	सहायक अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय उर्जा, विकास अधिकारी (क्रेडा)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13- गट्टासिल्ली	श्री होमराज मरकाम	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14- दुगली	श्री अश्वनी कुमार यादव	विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र, जल संसाधन विभाग रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

15	15- डोंगरडुला	श्री देवेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16- घोटगांव	श्री सोमेन्द्र कुमार साहू	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना नगरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17- बिरगुड़ी	श्री सोहन साय निकुंज	सहायक अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग, रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18- भुरसीडोंगरी	श्री पेमेश कुमार सिन्हा	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19- बेलरगांव	श्री विनय कुमार देवांगन	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20- गढ़डोंगरी	श्री शांतनु पैकरा	उप अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्र 02 रुद्री, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21- घठुला	श्री बी एस सिदार	कार्यपालन अधिकारी, अंत्याव्यवसायी, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22- सिहावा	श्री अशोक कुमार देवदास	उप अभियंता, आदिवासी विकास, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23- उमरगांव	श्री नीलकमल सोरी	उप अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्र 02 रुद्री, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24- नगरी	श्री राघवेन्द्र साहू	उप अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग, रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25 - फरसिया	श्री शैलेन्द्र सिन्हा	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग नगरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26- सांकरा	श्री कृष्णपद साहू	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	27- मेचका	श्री गोविन्दा मिश्रा	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग, रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28- बोरई	श्री सतीश साहू	उप अभियंता जनपद पंचायत धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	29- खल्लारी	श्री शैलेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	01 - मड़ेली	श्री राजकुमार घृतलहरे	कार्यपालन अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	02 - दरबा	श्री खिलेश कुमार	उप अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र, संभाग रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	03 - बिरेझर	श्री सुमन मिंज	उप अभियंता जल प्रबंध संभाग रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	04- सिर्नी	श्री रिखीनाथ वार्डे	सहायक अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	05- अंवरी	श्री प्रवीण कुमार खेरडे	उप अभियंता जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	06 - सिलीडीह	श्री राकेश कुमार जोशी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	07- भखारा	श्री नितेश कुमार सिन्हा	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

37	08- रामपुर	श्री डी.पी.साहू	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	09- सिलौटी	श्री श्रवण कुमार नेताम	सहायक अभियंता, कार्यालय अक्षीक्षण अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना बांध मण्डल रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	10 - कोर्रा	श्री मनोज कुमार पैकरा	उप अभियंता लोक, स्वास्थ्य यांत्रिकी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	11 - कोसमर्रा	श्री सौरभ देवांगन	उप अभियंता, विद्युत यांत्रिकी भारी संयंत्र संभाग, रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	12 - बगौद	श्री कौशल कुमार साहू	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	13 - मरौद	श्री पीला राम ध्रुव	सहायक अभियंता, म ज प बांध क्रमांक रुद्री, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	14- चरमुड़िया	श्री कीर्तन नरेटी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मगरलोड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	15- कुरुद	श्री शशीकुमार ठाकुर	सहायक अभियंता, लो0स्वा0 यांत्रिकी, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	16 - चर्चा	श्री मणी शंकर कंवर	उप अभियंता, भारी संयंत्र रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	17 - सिंधौरीकला	श्री फणेश्वर पिथौरा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	18 - परखंदा	श्री विवेक कुमार साहू	उप अभियंता, भारी संयंत्र रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	19 - नारी	श्री कृतिक सिन्हा	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	20 - कठौली	श्री धीरपाल सिंह कुंजाम	सहायक अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	21 - भेण्डरी	श्री सरोज कुमार साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	22 - बड़े करेली	श्री युवराज कुमार देवांगन	उप अभियंता, जल प्रबंध संभाग रुद्री,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	23 - कुण्डेल	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	24 - मेघा	श्री सोभित कुमार जैन	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	01 - कुर्रा	श्री जयप्रकाश साहू	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	02 - आमदी	श्री प्रहलाद सिंह गजेन्द्र	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड कुरुद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	03 - देमार	श्री चेतनलाल हिरवानी	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	04 - गुजरा	श्री राहुल देव वर्मा	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

58	05 - डाही. अंगारा	श्री रायसिंग साक्षी	सहायक अभियंता. जल प्रबंध संभाग रुद्री.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	06 - छाती	श्री विश्वजीत सिकदार	सहायक अभियंता.कार्यालय अधीक्षण अभियंता. महानदी जलाशय. परियोजना. बांध मण्डल, रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	07 - पुरी	श्री कैलाश नाथ नागवंशी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्या.जिला परियोजना सांख्यिकी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	08 - कण्डेल	श्री संजय कोटवानी	उप अभियंता, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	09 - दोनर	श्री शोएब मोहम्मद	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	10 - बारना	श्री अजय संभाकर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग - धमतरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	11 - खरेंगा	श्री योगेश कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	12 - लोहरसी	श्री आकाश सोनकर	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	13 - धमतरी	श्री गुणेश वैष्णव	सहकारिता निरीक्षक कार्यालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाए धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	14 - धमतरी	श्री तरूण कुमार धुर्वे	उप अभियंता ग्रा.यां.सेवा धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	15 - धमतरी	श्री आदित्य कुमार चन्द्राकर	उप अभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	16 - धमतरी	श्री मनीष ठाकुर	उप अभियंता लो.नि.वि., सेतु निर्माण धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	17 - धमतरी	श्री अमित कुमार साहू	उप अभियंता लो.नि.वि., सेतु निर्माण धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	18 - धमतरी	श्री मनोज सागर	अनुविभागीय कृषि अधिकारी, जिला धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	19 - गोकुलपुर	श्री आर.एस. छाबड़ा	सहायक अभियंता, गृह निर्माण मण्डल धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	20- अछोटा	श्री अमर सिंह धुव	अनुविभागीय अधिकारी, भारी संयंत्र उपसंभाग(काडा)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	21 - अरौद (लीलर)	श्री विनोद सिंह राठौर	सहायक अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	22 - रुद्री	श्री प्रकाशचंद सोनकर	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	23 - सोरम	श्री बालकिशन साहू	सहायक अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	24 - अकलाडोंगरी	श्री भूपेन्द्र कुमार बावनथडे	सहायक अभियंता, बांध संभाग 02 रुद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

78	25 - मोगरागहन	श्री एम के सोम	कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मंडल धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	26 - अरौद	श्री संदीप सूर्यवंशी	ड्रग इंस्पेक्टर, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	आरक्षित	श्री चुन्नी लाल धुव	वरिष्ठ सचिव कृषि उपज मंडी समिति नगरी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	आरक्षित	श्री देवेश सूर्यवंशी	जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	आरक्षित	श्री शिव कुमार सिन्हा	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	आरक्षित	श्री झनक लाल उईके	उप अभियंता, नगर पंचायत नगरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	आरक्षित	श्री महेश राम मरकाम	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	आरक्षित	श्री सी.आर. साहू	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	आरक्षित	श्री मदनलाल मोहबे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी कुरूद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	आरक्षित	श्री प्रशांत चन्द्राकर	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	आरक्षित	श्री रेवेन्द्र कुमार कश्यप	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	आरक्षित	श्री देवेन्द्र नाथ पात्र	सहायक श्रम पदाधिकारी श्रम विभाग धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	आरक्षित	श्री डेविड बघेल	सहायक अभियंता, छ.ग. राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा),	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	आरक्षित	श्री लक्ष्मण राव मगर	सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	आरक्षित	श्री संजय राजपूत	सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	आरक्षित	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी धमतरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	आरक्षित	श्री संत राम धुव	सहायक अभियंता जल प्रबंध संभाग रूद्री	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

20. जिला-बालोद

1	1 जगन्नाथपुर	श्री के.के.वर्मा	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2 तरौद	श्री प्रणय कुमार बघेल	प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3 बालोद अ	श्री के.के.लिमजे	अ.वि.अ. पी.एच.ई. बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4 बालोद ब	श्री लोकेश कुमार सोनबरसा	उप अभियंता ग्रा.यां.सेवा संभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

5	5 लाटाबोड़	श्री गणेश जोशी	सहकारी निरीक्षक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6 बेलमाण्ड	श्री युगल कुमार साहू	उप अभियंता PMGSY बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7 परसोदा	श्री सतीश राजपुत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतर्व्यवसायी बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8 झलमला	श्री बसंत बाघ	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9 देवारभाट	श्री आर.एस.साहू	ए.पी.सी. R.G.S.M.S.S. बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10 कत्रेवाड़ा	श्री सतीश गुप्ता	सहायक संचालक मछली पालन बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11 करहीभदर	श्री केशव राम पिस्टा	अ.वि.अ. कृषि विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12 निपानी	श्री गणेश कुमार साहू	व्याख्याता शास.पालीटेक्निक बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13 अरमरीकला	श्री राकेश कुमार वर्मा	सहायक अभियंता PMGSY बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14 पलारी	श्री ललित कुमार चन्द्राकर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15 भोथली	श्री तेजराम सिन्हा	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (विद्युत यांत्रिकी) बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16 कंवर	श्री आशीष कुमार चन्द्राकर	सहायक संचालक कृषि विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17 फागुन्दाह	श्री सुरेश कुमार देवांगन	उप अभियंता कार्या. अ.वि.अ. जल प्रबंध उप संभाग क्र.-8 गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18 धनेली	श्री डी.आर.वर्मा	उप अभियंता जल संसाधन विभाग उप संभाग क्र.1, आदमाबाद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19 भरदा	श्री बी.आर.मण्डावी	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20 गुरूर	श्री चन्द्रकांत चन्द्राकर	सहकारिता विस्तार अधिकारी गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21 कुलिया	श्री रामनारायण खरे	उप अभियंता जल संसाधन विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22 मिर्रीटोला	श्री सी.चन्द्रवंशी	उप अभियंता पी.एच.ई. गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23 सोनईडोंगरी	श्री मुकेश ठाकुर	सहायक संचालक सांख्यिकी बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24 हितेकसा	श्री व्यासनारायण साहू	उप अभियंता RES संभाग बालोद उपसंभाग गुरूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25 बालोदगहन	श्री कमलेश ध्रुव	बीज निगम बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	1 संजारी	श्री कुंजलाल कोठारी	वरिष्ठ कृषि अधिकारी डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

27	2 अछोली	श्री सी.पी. शर्मा	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना देवरी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	3 संबलपुर	श्री एस.के. चेलक	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग (वि./यां.) लाईट मशीनरी एवं गेट उपसंभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	4 बड़गांव	श्री शशांक सोनी	खनिज निरीक्षक बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	5 दुधली	श्री डिग्री लाल ध्रुव	उप अभियंता RES डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	6 सहगांव	श्री अश्वन कुमार साहू	सहा.वि.ख.शिक्षा अधिकारी डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	7 माटरी	श्री सुशांत चन्द्राकर	उप अभियंता वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट उपसंभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	8 रेंगाडबरी	श्री अरूण बघेल	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग संबलपुर (डौण्डीलोहारा)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	9 मंगचुवा	श्री राजन चन्द्राकर	व्याख्याता शास.पालिटेक्निक बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	10 भंवरमरा	श्री मुकेश शर्मा	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग खरखरा मोहंदापाट बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	11 कोड़ेकसा	श्री नीतिन ठाकुर	सहायक अभियंता PHE डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	12 गुजरा	श्री गौरव रामटेके	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	13 कुसुमकसा	श्री रामनारायण मारकण्डे	अ.वि.अ. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	14 चिखलाकसा	श्री मयंक राय	उप अभियंता PMGSY डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	15 सिंगनवाही	श्री श्रवण कुमार ठाकुर	उप अभियंता जल संसाधन विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	16 दल्लीराजहरा	श्री जे.एस. भारद्वाज	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	17 दल्लीराजहरा	श्री एस.के. गौर	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	18 दल्लीराजहरा	श्री सूर्यनारायण ताम्रकार	सहायक संचालक कृषि विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	19 चिखली	श्री गोविन्द सिंह ध्रुवे	उपसंचालक कृषि विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	20 कोटागांव	श्री सोमनाथ राजपूत	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	21 बेलोदा	श्री चन्द्रशेखर पटेल	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	22 डौण्डी	श्री नेतराम सहारे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			डौण्डी	क्षेत्र
48	23 कुंआगोंदी	श्री संतोष कुमार सोनी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	24 पुसावड़	श्री सौरभ देशमुख	उप अभियंता PMGSY डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	1 जेवरतला	श्री त्रिलोक डहरिया	उप अभियंता जन.पंचा. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	2 नाहंदा	श्री उमाशंकर ठाकुर	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	3 देवरी	श्री बी.के.गोटी	अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	4 फरदफोड़	श्री भानुप्रकाश घोष	उप अभियंता नगर पंचायत डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	5 सुरेगांव	श्री शेख वसीम	उप अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	6 मनकी	श्री के.एल.नेताम	सहा. अभियंता जल संसाधन विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	7 घीना	श्री घनश्याम मारकण्डे	सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	8 भरदाकला	श्री बी.एस. सिदार	प्रभारी अधिकारी क्रेडा बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	9 अर्जुन्दा	श्री अजय कुमार सोनी	अ.वि.अ. जल संसाधन विभाग खरखरा मोहंदापाट उपसंभाग 2 अर्जुन्दा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	10 गब्दी	श्री डी.पी.सिंह	जिला महिला बाल विकास अधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	11 अर्जुनी टिकरी	श्री भूपेन्द्र ध्रुव	उप अभियंता परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र.02 गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	12 कुरदी	श्री डी.पी.कोसरे	सहा. जिला परियोजना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्या. बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	13 कोटगांव	श्री आनंद शर्मा	उप अभियंता PMGSY बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	14 डंगनिया	श्री एस.आर.ठाकुर	अ.वि.अ. पी.एच.ई. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	15 कचांदुर	श्री भूपेन्द्र कुमार यादव	सहा.प्राध्यापक शहीद कौशल यादव शास.महाविद्यालय गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	16 गुण्डरदेही	श्री भरतभूषण पटेल	खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	17 भाठागांव	श्री युवराज हटिले	उप अभियंता गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	18 सिकोसा	श्री टीकम ठाकुर	अ.वि.अ. राष्ट्रीय राजमार्ग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	19 सिरसिदा	श्री गणेश राम पवार	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

69	20 रनचिरई	श्री संदीप चन्द्राकर	एस.ए.डी.ओ. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	21 भाठागांव आर	श्री मनीष जांगडे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	22 कलंगपुर	श्री दिनेश नेताम	उप अभियंता जन.पंचायत गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	23 रजोली	श्री अनंत दीक्षित	कार्यपालन अभियंता PMGSY गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	24 बेलोदी	श्री आशीष कुमार भोई	सहा.प्राध्यापक शहीद कौशल यादव शास. महाविद्यालय गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री गीतगोविंद साहू	सहा. अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (विद्युत यांत्रिकी) बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री कोमल सिंह ध्रुव	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री ए.के.भुआर्य	उप अभियंता पी.एच.ई. डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक संचालक जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री भूपेन्द्र भसगौरी	उप अभियंता जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री ए.के.भुआर्य	उप अभियंता पी.एच.ई. डौण्डी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक संचालक जिला योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग बालोद	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री भूपेन्द्र भसगौरी	उप अभियंता जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

21. जिला-दुर्ग

1	1 कुम्हारी	श्री आशुतोष पांडेय,	उपसंचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दुर्ग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2 कुगदा	ललित मोहन भगत,	उप संचालक कृषि, दुर्ग 9826435113	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3 अमलेश्वर	एम एल कुंजाम	सहायक नियंत्रक नापतौल विभाग, दुर्ग 9425593889	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4 मोतीपुर	राकेश मिंज सहा. प्राध्यापक	शा. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, जिला दुर्ग 99074044211	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5 औंधी	अरुण कुमार मिश्रा	प्राध्यापक, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई 7587338147	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6 झीट	पुकुल राम खंडेलवाल	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, 8305958805	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7 लोहरसी	राजेश कुमार राठौर	संयुक्त संचालक, संयुक्त संचालक कृषि, दुर्ग, 9827269575	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

8	8 पतौरा	प्रकाश देवरे	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग दुर्ग, 9340027153	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9 पहंडोर	मोहम्मद अलाउद्दीन (आई. ए. खान)	अनुविभागीय अधिकारी, पी.एच.ई 9340305293	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10 जामगांव (एम)	विजय पोर्ते	अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण बोर्ड भिलाई 32 बंगला 7773879926	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11 पाटन	एम.पी. देवांगन	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम रिसाली 9302893190	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12 गोड़पेन्डी	सुनील कुमार पंधारे	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, 9425552038	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13 मर्रा	अंबटी नाग वेंकट सत्यनारायण	सहायक संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक 9424108604	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14 तर्रीघाट	सागर साहू	सहायक संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, दुर्ग 7805080027	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15 कौही	कमलाकांत शुक्ला	सहायक संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक 7647903370	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16 डीडाभाठा (रानीतराई)	हरीश सक्सेना	सीजीएम जिला उद्योग केन्द्र, जिला दुर्ग 9302620000	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17 जामगांव (आर)(क)	नीलम संजीव एक्का	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय मंचादूर 9827628514, 9425021382	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18 बटरेल	सुनील कुमार ढीढ़ी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग, पाटन 9826766346	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19 कानाकोट	युवराज सिंह साहू	गुणवत्ता पर्यवेक्षक (उप अभियंता) राज्य सड़कक्षेत्र परियोजना लो नि वि दुर्ग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20 कुमीगुण्डरा	दिनेश भगोरिया	अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल दुर्ग, 9424151515	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21 सुरपा	संजय कुमार डहरिया	सहायक संचालक कार्या संयुक्त कार्यालय कृषि दुर्ग 8120444546	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22 भरर	टी.एन. संतोष	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग दुर्ग 9826136576	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	1	सुश्री प्रतिभा बंजारे	सहायक अभियंता कार्या. अधीक्षण अभियंता लोक स्वस्थ यांत्रिकी दुर्ग 9285314288	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	2	ए.के. बारसागढ़े	उप अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग 9993350991	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	3	संजय सिंह	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग 9754133443	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

26	4	सुरेश कुमार पांडेय	कार्यपालन अभियंता, कार्यपालन अभियंता तंदूला जल संसाधन संभाग दुर्ग, 9329029101	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	5	रोशन ताम्रकार	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, सेतु उप संभाग दुर्ग 9407733977	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	6	रामेश्वर सिंह नेताम	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता वी/यो लाइट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग, 9424282671	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	7	अमित परिहार	उपसंचालक, कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग दुर्ग 9302445914	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	8	डॉ. हंस राज ठाकुर	सहा. प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय बोरी 8349430778	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	9	अजय सिंह गौर	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई, 9893690630	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	10	आलोक सिंह	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (ई एंड एम) संभाग दुर्ग, 9907988993	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	11	भास्कर औचर	उप अभियंता, मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण सड़क योजना, दुर्ग 9098540318	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	12	प्रमोद कुमार गढ़वाल	सहायक संचालक, कृषक प्रशिक्षण केंद्र रूआबांधा दुर्ग, 7879006355	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	13	सुमन कुमार कोराम	सहायक संचालक, उपसंचालक कृषि दुर्ग, 7389368625	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	14	रोहित कुमार चंद्राकर	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (ई एंड एम) संभाग दुर्ग, 9406442335	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	15	डॉ अजय लांजेवार	सहायक प्राध्यापक. सेठ रतन चंद्र सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग 9893518360	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	16	एल.एल. उईके	एल.एल. उईके, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग 7247611685	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	17	नितेश मेश्राम	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई, 9713647539	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	18	प्रदीप राजपूत	व्याख्याता, उदय प्रसाद उदय पॉलिटेक्निक दुर्ग 7205124714	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	19	घनश्याम सिंह डडसेना	सहायक प्राध्यापक, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा, 9479172203	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	20	राजीव सुखदेवे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 9425592446	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	1	अशोक शर्मा	जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

44	2	श्रीमती श्रद्धा केसरवानी	सहायक श्रमआयुक्त, सहायक श्रमआयुक्त, दुर्ग, 7049671157	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	3	ए चंदन निर्मल	उप अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई, 7722877774	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	4	अशोक कुमार साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 8839978336	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	5	सुरेन्द्र पांडेय	जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा दुर्ग 7999545826	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	6	श्यामल दास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, दुर्ग, 9893825047	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	7	सतीश कुमार अवस्थी	सहायक संचालक, कृषि प्रशिक्षण केंद्र रूआबांधा, 9303201010	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	8	शैलेंद्र सिंह	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग, 8770543625	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	9	श्री गोरख प्रसाद	प्राचार्य, महिला आई.टी.आई. दुर्ग 9826139210	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	10	उत्कर्ष उमेश पांडेय	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड दुर्ग, 7999540428	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	11	सनत कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, 9770873106	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	12	गोपी कृष्ण शर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 9827153246	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	13	तुषार त्रिपाठी	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र दुर्ग, 8319588853	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	14	विपेन्द्र कुमार तिवारी	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी वी या आर आर अनुविभाग दुर्ग 7415500745	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	15	विनोद कुमार	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 9826911438	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	16	संतोष कुमार बेहरा	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम रूआबांधा 9425243872	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	17	शशांक सिंह राठौर	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग, 9827475647	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	18	जितेंद्र कुमार समैया	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग 9644082508	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	19	आर . प्रसाद	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, सहायक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, 8358232868	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	20	पंकज साहू	उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग, 9691030600	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

63	21	ईश्वरीलाल देशमुख	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग, सेतु उप संभाग दुर्ग, 9399849049	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	1	विभा देवांगन	सहायक अभियंता, कार्यालय जल संसाधन विभाग तांदुला दुर्ग 9827964299	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	2	श्री हेमंत कुमार बघेल	संयुक्त संचालक कृषि 8817521157	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	3	प्रतीक मसीह	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग संभाग दुर्ग 9302599009	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	4	पुष्पराज राठौर	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग, 9827999119	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	5	खूबचंद आडिल	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग संभाग दुर्ग, 9406075793	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	6	राजकुमार कुर्रे	उप संचालक, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, दुर्ग, 9407610778	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	7	प्रिवेश साहू	सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग, दुर्ग, 9425577575	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	8	जागेश्वर कुमार	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, दुर्ग, 9425241478	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	9	संजीव रंजन सिंह	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्ग 700050925	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	10	देवेंद्र नाथ सिरसांत	विभागाध्यक्ष, शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दुर्ग, 9630817471	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	11	राजकुमार चन्द्रवंशी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग 9893604420	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	12	आर. राम मोहन राव	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग, 9893416162	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	13	राजू कोल्हे	सहायक संचालक, उपसंचालक हथकरघा, दुर्ग, 9827479950	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	14	जे. मनोहरण	सहायक जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा 9893295918	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	15	डिंपलेश जैन	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग दुर्ग 9752627778	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	16	सागर मारचट्टीवार	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, 9827311344	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	1	एस. आर. ठाकुर	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग, दुर्ग, 9424209025	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

81	2	धर्मेंश कुमार सोनी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग, 7587709802	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	3	श्री गौतम पुरी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण दुर्ग 8435412690	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	4	श्री बी के पटौरिया	कार्यपालन अभियंता पी एम ए डी बी दुर्ग , 9993311553	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	5	राजेंद्र ढाबाले	उप अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग 7999828273	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	6	सुमित गंडेचा	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पाटन, 7587221778	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	7	भूपेंद्र कुमार वर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग, 8839640802	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	8	गोविंद साव	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग 9303259653	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	9	पवन मिश्रा	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिक निगम रिसाली 7999258347	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	10	पराग त्रिपाठी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग, 9329519724	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	11	मुकेश कुमार सांकरकर	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग, 9826582684	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	12	शिल्पा तिवारी	परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिलाई 7415797161	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	13	मोहम्मद रिजवान	उप अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग, 7024101786	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	14	गितेश कुमार मानकर	उप अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग दुर्ग, 8827267365	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	15	श्री अनिल टेम्पुरकर	प्राचार्य, शासकीय आई.टी.आई. दुर्ग 9406250222	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	16	रामसिंह मिरी	अधीक्षक, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, दुर्ग 7440490257	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
96	17	छत्तर सिंह कलार	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 , छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण दुर्ग, 9424110158	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
97	18	छत्र कुमार सोने	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग, 9926742481	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

98	19	लोकेश्वर कुमार ठाकुर	क्रीडा अधिकारी, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, 8103438769	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
99	20	धनेश कुमार साहू	सहायक वन संरक्षक, वर्किंग प्लान दुर्ग 8827884422	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
100	21	गुणेश्वरी साहू	प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग 7828808098	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
101	1. मेडेसरा	विमल बगवइया	उपसंचालक नगर एवम ग्राम निवेश दुर्ग, 9425503581	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
102	2. नंदनी खुदंती	कात्यानी उपाध्याय	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी वि/या/आर/आर अनु विभाग 9981756960	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
103	3. नंदनी नगर	अर्चना ताम्रकार	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वी/यो लाइट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग 9770166357	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
104	4. अहिवारा	प्रतीक मिश्रा	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धमधा 9752314143	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
105	5 गोढी	संतोष वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 9039195675	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
106	6. मुरमुंदा	देवव्रत देवांगन	कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिक निगम रिसाली 9425562743	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
107	7. दादर	श्री अश्वनी द्विवेदी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दुर्ग, 9302113999	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
108	8. सुरडुंग	विकास साहू	सहायक संचालक उप संचालक, कृषि, दुर्ग 7987343044	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
109	9. चिखली	चंद्रभान परधनिया	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई, 9425242258	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
110	10. जेवंरा	गिरीश प्रसाद सिन्हा	उप अभियंता, उपसंचालक मत्स्य उद्योग दुर्ग, 9074744331	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
111	11. करंजा भिलाई	मोहित मरकाम	उप अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग 9685373777	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
112	12. ननकट्टी	गोपाल बघेल	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पाटन 9827114841	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
113	13. जामुल	सुरेश केवलानी	उप अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग, 9425675465	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
114	14. जामुल	रामसागर अनंत	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन दुर्ग, 8319145050	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
115	15. डबरा पारा	गिरीश दीवान	उप अभियंता, नगर पालिक निगम दुर्ग, 7746015450	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
116	16. कुंदरा पारा	डॉक्टर शालिनी वर्मा	सहायक अध्यापक, शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई, 9977581651	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
117	17. शांति नगर	संतोष कुमार सोनी	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			संभाग संभाग दुर्ग, 7974548437	क्षेत्र
118	18. पंचशील नगर	राजेन्द्र कुमार वर्मा	प्राचार्य आई.टी.आई. धमधा 8871133435	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
119	19. इंदिरा नगर	अनिल कुमार कश्यप	प्राध्यापक, शासकीय वी. या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, 9827958247	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
120	20. देवबलौदा	कैलाश शर्मा	प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय वैशाली नगर, भिलाई, 9827172782	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
121	21. सोमनी	छाया वर्मा	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी वि/या/आर/आर/ अनुविभाग, 7697279925	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
122	1 राहटादाह	अवधेश मिश्रा	उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग, 9752620472	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
123	2 धमधा	लक्ष्मेन्द्र कुलदीप	कृडा अधिकारी, शा.वि. या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 9893670222	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
124	3 पेण्ड्रावन	भूषण देव शेंडे	उप अभियंता अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग दुर्ग, 9826229839	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
125	4 बरहापुर	आर.पी. सराफ	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय अधीक्षण अभियंता दुर्ग संभाग 9300714301	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
126	5 कन्हारपुरी	श्री नरेश दिवान	क्रीडा अधिकारी शासकीय महाविद्यालय जामगांव - आर पाटन दुर्ग 9406269178	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
127	6 डोड़की	गौरव सिंह	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता तंदुला जल संसाधन दुर्ग, 7999541011	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
128	7 लिटिया	देव नारायण शुक्ला	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन, 9826832611	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
129	8 बोरीबुजुर्ग	सुनील कुमार जैन	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता तांदुला जल संसाधन, 9009078068	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
130	9 पोटिया	संजय ठाकुर	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम, दुर्ग, 9340401946	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
131	1. दारगाँव	रमाशंकर सिंह	प्राध्यापक, शासकीय वी. या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, 7999354622	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
132	2. बिरोदा	आलोक पसीने	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई, 9907917880	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

22. जिला-बेमेतरा

1	1. कन्हारा	श्री दिग्विजय कुमेटी	उप अभियंता जल संसाधन अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
---	------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------------

2	2.खाती	श्री मनीष थवाईत	अनुविभागीय अधिकारी विद्युत यात्रिकी लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट उप संभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3.नवागांवकला	श्री गौरव साहू	उप अभियंता जल संसाधन अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4.धानखम्हरिया	उद्यन नागेन्द्र	उप अभियंता जल संसाधन अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5.खैरझिटीकला	श्री संतोष कुमार गोड़	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6.पदुमसरा	श्री दिलीप निर्मल	उप अभियंता लो-स्वा-यां- साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7.पतोरा	श्री अनील कुमार लोनारे	अनुविभागीय अधिकारी पीएचई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8.ठेलका	श्री रमेश शर्मा	प्र.अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9.साजा	श्री संदीप शर्मा	उप अभियंता जल संसाधन अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10.बीजा	श्री ईश्वर प्रसाद साहू	सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11.मोहतरा	श्री एस.आर.नारनौरे	अनुविभागीय अधिकारी पीएचई नवागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12.बीजागोड़	श्री निलेश चन्द्रवंशी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13.सोमझकला	श्री उमाकांत सुकदेव	प्रभारी अ.वि.अधि. जल संसाधन अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14.तेंदुभाठा	श्री आई.पी.दिनकर	प्राचार्य शास.महा.वि.साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15.मोहगांव	श्री अभिशेख ताम्रकार	उप अभियंता लो.स्वा.यां. साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16.कौंगियाकला	श्री दीपक कुमार वर्मा	उप अभियंता लो.स्वा.यां. साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17.परपोड़ी	श्री दाऊराम बंजारे	उप अभियंता लो.स्वा.यां. साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18.गाड़ाडीह	श्री प्रमोद रामटेके	उप अभियंता आरईएस साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19.देवकर	श्री रविन्द्र रतन बंजारे	उप अभियंता आरईएस साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	1 पिकरी	डॉ. पुष्पराम खटकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	2 बेमेतरा	श्री भूपेन्द्र उपाध्याय	परियोजना अधिकारी डुडा बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

22	3 कोबिया	डॉ. हेमंत सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	4 मटका	श्री एच.आर.बवनथड़े	सहायक अभियंता हाउसिंग बोर्ड बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	5 बावामोहतरा	श्री नरेन्द्र वर्मा	राजीव गांधी शिक्षा मिशन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	6 निनवा	सुश्री अराधना यादव	सहायक संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकीय कार्यालय बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	07 कठिया	श्री अरूण खरे	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	08 सरदा	श्री व्ही-एच- दुबे	अनुविभागीय अधिकारी वन विभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	09 भेड़नी	सुश्री अल्का शुक्ला	जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	10 देवरबीजा	श्री राजेन्द्र भगत	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	11 परपोड़ा	श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक कृषि बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	12 सोंढ़	श्री जयप्रकाश करमाकर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	13 लेंजवारा	डॉ. आकाश चन्द्राकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ बेरला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	14 बेरला	श्री वनीशचंद दुबे	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बेरला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	15 कुसमी	श्री प्रवीण लाटा	कार्यपालन अधि-जिला अंत्यावसायी बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	16 बारगांव	डॉ. अनिल शुक्ला	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ बेरला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	17 आनंदगांव	श्री डी.एल. वर्मा	उप अभियंता लो.स्वा.यां. अनुभाग साजा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	18 भिंभौरी	श्री बी-डी-पटेल	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	19 हसदा	डॉ. अजीत सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	20 गोड़गिरी	डॉ. अविनाश मिरे	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	21 गुधेली	श्री गौरीशंकर राठौर	जिला प्रभारी ऊर्जा विभाग केरडा बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	01 टेमरी	श्री राकेश चतुर्वेदी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	02 नांदघाट	श्री एम.डी. डड़सेना	उपसंचालक कृषि	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	03 घुरसेना	श्री व्योम श्रीवास्तव	बाल संरक्षण अधिकारी बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

44	04. मारो	श्री रामवन नेताम	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत मारो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	05. भदराली	श्री लोकेश सातनकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	06. मेहना	श्री विमल कुमार तिर्की	उपयंत्री पीएमजीएसवाय, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	07. पुटपुरा	श्री दिलीप सिदार	सहायक संचालक मत्स्य विभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	08. संबलपुर	डॉ. विजय कुर्रे	पशु चिकित्सा सहायक सल्यज्ञ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	09. गोढ़ीकला	श्री आर.एस.टंडन	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	10. बदनारा	श्री रूपेश कुमार धनंजय	कार्यपालन अभि-पी-एच-ई-बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	11. कटई	श्री टी.आर.चैहान	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	12. नवागढ़	श्री श्याम लाल साहू,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	13. झाल	श्री हंसराज साहू	उप अभियंता आरईएस अनुभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	14. मुरकुटा	श्री संदीप सोनकर	प्रबंधक बीज निगम पर्थरा बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	15. अधियारखोर	श्री अमर सिंह पैकरा	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामसंचयन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	16. गांगपुर	श्री मनीष सिंह	अनु. अधि. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बेमेतरा (मैके) बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	17. बैहरसरी	श्री हितेन्द्र मेश्राम	उप संचालक उद्यानिकी बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	18. उमरिया	श्री जीवन सिंह कंवर	निरीक्षक विधिक माप विज्ञान नामतोल विभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	19. दाढ़ी	श्री संतोष कुमार नायक	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	20. खण्डसरा	श्री राघवेन्द्र अग्रवाल	सहायक संचालक खादी ग्रामोद्योग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	21. मोहतरा	श्री गणेश कुमार मण्डारे	अनुविभागीय अधिकारी ग्राम्यांसेवा नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	22. अतरिया	श्री रूद्रप्रताप धुव	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (परियोजना) बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	23. मुलमुला	श्री महाजन बनधाडे	अनुविभागीय अधिकारी ग्रा-या-सेवा बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	24. भनसुली	श्री एन-के-साहू	श्रम पदाधिकारी बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	25. चंदनू	श्री विजय कुमार टंडन	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

66	26. मोहरेंगा	श्री दिनेश कुमार धुर्वे	कृषि वि. अधि. बेमेतरा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23. जिला-कबीरधाम				
1	पण्डरीपानी	सुयष दीवान	उपवनमण्डलाधिकारी, पण्डरिया, वनमण्डल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	पुटपुटा	श्री आकाश कश्यप	परियोजना वनक्षेत्रपाल वन विकास निगम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	कुकदूर	श्री समीम खान	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	कुई	श्री पीताम्बर साहू	उपमंडल प्रबंधक, वन विकास निगम, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	कामठी	श्री अर्जुन चंद्रवशी	विकासखंड स्तुत समन्वयक, पंडरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	कोदवा गोडान	श्री मनोज सोनी	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	दुल्लापुर	श्री सुखनन्दन राम	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	बाघामुड़ा	श्री श्यामदास मोहले	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	किसुनगढ़	श्री आर.के. धवलकर	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	पण्डरिया	श्री अमृतलाल उरैहा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	मैनपुरा	श्री रमेश कुमार पांडे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	खैरझिटी	श्री राजेंद्र गेंदले	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	रोहरा	श्री मूलचंद कौशिक	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	पाण्डातराई	श्री योगेश्वर सिन्हा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	कुम्ही	श्री गुनीराम राजपूत	उप अभियंता, छ.ग. ग्रामीण विकास अभिकरण, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	नानापुरी	श्री ओ.पी.उपाध्याय	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	महली	श्री एम.के. चौहान	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	जंगलपुर	श्री सतीश वर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	मोहगांव	श्री वैभव दूबे	सहायक अभियंता, क्रेडा, कबीरधाम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	कुंआमालगी	श्री विनोज कोचे	जिला पंजीयक, कबीरधाम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

21	कोलेगांव	श्री नरेन्द्र कुमार चंद्राकर	कृषि विकास अधिकारी, पंडरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	कुण्डा	श्री ब्रिजेश सोनी	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कुण्डा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	डोंगरियाखुर्द	श्री टिकेन्द्र कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	दामापुर	श्री एस.एस. मरकाम	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पण्डरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	मरका	श्री अश्वनी ठाकुर	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	चचेडी	श्री संतोष कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	खपरी	श्री महानंद अनंत	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, वि.यां. नलकूप एवं गेट, उप संभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	इंदौरी	श्री जीतेन्द्र कुमार मेश्राम	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण विकास संभाग, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	पनेका	श्री वी.के. अखण्ड	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	दशरंगपुर	श्री आनंद तिवारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	गोछिया	श्री ए.के. उपाध्याय	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	धरमगढ़	श्री खिलानंद कुल्हारे	उपअभियंता, कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत स.लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	ओड़िया कला	श्री रवि सिंह साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	वीरेन्द्रनगर	श्री संतोष भास्कर	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, स.लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	रणवीरपुर	श्री आर.एन.निकुंज	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	सिंघनगढ़	श्री सोमकांत साहू	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	बीजाबैरागी	श्री देवेन्द्र सोनकर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	दलदली	श्री मनीष सिंह	वनक्षेत्रपाल, तरेगांव, वनमंडल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	तरेगांव जं.	सरिता सिदार	परियोजना क्षेत्रपाल, तरेगांव, वन विकास निगम कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	बैजलपुर	श्री नवीन कुमार कश्यप	वनक्षेत्रपाल, बोड़ला, वनमण्डल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

41	भोंदा	श्री संदीप पटेल	एकीकृत बाल विकास परियोजना बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	मड़मड़ा	श्री त्रिवेणीकांत गजेन्द्र	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	खड़ौदाकला	श्री शिवम सोनी	सहायक अभियंता, हाउसिंग बोर्ड, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	बोड़ला	श्री गोपाल प्रसाद ठाकुर	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	चिल्फी	श्री नमन देशमुख	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, चिल्फी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	झलमला	श्री लाल सिंह मरकाम	वनक्षेत्रपाल, चिल्फी, वनमण्डल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	राजानवांगांव	श्री शैलेश श्रीवास्तव	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	बरबसपुर	श्री रामधन सिंह	सहायक संचालक, मछली पालन विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	सारंगपुरकला	श्री आर.के.गुप्ता,	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	पोंडी	श्री सचिन शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	रवेली	श्री नवीन कुमार	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	खाम्ही	श्री अखिलेश दत्त दूबे	सहायक संचालक, कृषि विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	सोनबरसा	श्री सुरेश चन्द्र प्रसाद	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	जोराताल	श्री आनंद सिंह राजपूत,	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	रेंगाखारखुर्द	श्री नरेन्द्र कुमार नेताम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	महराजपुर	श्री अविनाश चंद्रवंशी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	कवर्धा	श्री विशाल नेताम	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	कवर्धा	कु.अल्का डड़सेना,	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	कवर्धा	श्री देवलाल पुसाम	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कबीरधाम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	कवर्धा	श्री गजेन्द्र वर्मा	उप अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	पिपरिया	श्री मुरितराम धुर्वे	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं कबीरधाम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

62	बिरकोना	श्री ईश्वरी प्रसाद सोमनकर	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	धरमपुरा	श्री व्यंकटेश पाटले	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	धमकी	श्री ऋतुराज ताम्रकार	प्रबंधक, व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	मैनपुरी	श्री प्रमोद कुमार	जिला रोजगार अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	बचेड़ी	श्री राकेश शर्मा	उप संचालक, कृषि विभाग, कबीरधाम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	बडौदाकला	श्री एल.आर छतरे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	स.लोहारा	श्री शंभू प्रसाद चक्रवर्ती	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	समनापुर	विरेन्द्र कुमार यादव	कृषि विकास अधिकारी, बोड़ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	रेंगाखारकला	श्री विजयंत तिवारी	वनक्षेत्रपाल, रेंगाखारकला, वनमंडल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	खारा	श्री अनुराग वर्मा	वनक्षेत्रपाल, स-लोहारा/खारा, वनमंडल कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	सिल्हाटी	श्री हरेसिंह वास्केल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	सिंघनपुरी जंगल	श्री बिहारीलाल नीरज,	कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	बांधाटोला	श्रद्धा यादव	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	बिड़ोरा	श्री ओमप्रकाश कुलमित्र	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, स-लोहारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

24. जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

1	साल्हेवारा-1	श्री सलीम मोहम्मद कुरैशी	वन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी गंडई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	आमगांव-2	श्री अमृतलाल खुंटे	उप वनमंडलाधिकारी, गण्डई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	रामपुर-3	श्री संतोष कुमार ठाकुर	वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र गंडई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	बकरकट्टा-4	श्री अशोक कुमार वैष्णव	वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्राधिकारी छुईखदान, वन मंडल खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	पैलीमेटा-5	श्री संदीप इंदुरकर	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, गण्डई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	ठाकुरटोला-6	श्री आर.के. कोसरिया	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	चकनार-7	श्री एस.एन.शर्मा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

8	गण्डई-8	डॉ. एन.एस. वर्मा	प्राचार्य, पं. देवी प्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय गण्डई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	लिमो-9	श्री रामकुमार बांधे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग-छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	पेण्डरवानी-10	श्री भागवत राम वर्मा,	सहायक प्राध्यापक, पं. देवीप्रसाद चौबे, शास. महाविद्यालय गण्डई,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	भुरभुसी-11	श्री ओमनारायण वर्मा	सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	बुन्देली-12	श्री रामपाल टंडन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	अतरिया-13	श्री राजेश मड़ावे	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	झूरानदी-14	श्री गिरेन्द्र कुमार सुधाकर	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	बीरूटोला-15	श्री शत्रुहन देवांगन	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग-छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	गातापार-16	श्री अशोक कुमार झारिया	वन क्षेत्रपाल वनमंडल खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	छुईखदान-17	श्री गजानन्द नायक	अनुविभागीय अधिकारी, जलसंसाधन संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	पद्मावतीपुर-18	डॉ. परमेश्वर साहू	सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	उदयपुर-19	श्री केतन किशोर साहू	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	भावे-20	श्री टी.ए.खान	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	जोरातराई-21	श्री प्रदीप कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक, वीरांगना अवंती बाई शासकीय महाविद्यालय, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	बाजार अतरिया-22	श्री जनक कुमार	व्याख्याता मेटलर्जी, शासकीय पॉलिटेक्निक खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	डोकराभाठा- 23	श्री चंद्रप्रकाश नायक	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	पिपरिया- 24	श्री सात्विक कुमार साहू,	व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्नि खैरागढ़,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	खैरागढ़(01)- 25	श्री महेश कुमार देवांगन,	व्याख्याता, शासकीय पॉलिटेक्निक खैरागढ़,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	मंडला - 26	श्री रामकृष्ण राठौर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	खैरागढ़(02)- 27	श्री सौरभ ताम्रकार	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	अमलीपारा- 28	श्री चन्दन कुमार	व्याख्याता मेटलर्जी, शासकीय पॉलिटेक्निक खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	सलोनी- 29	श्री एम. आर. रामटेके	अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया केनाल जल संसाधन खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

30	मदराकुही- 30	श्री सुरेश कुमार अडवानी	सहायक प्राध्यापक, रानी रश्मि देवी शास. महाविद्यालय, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	जालबांधा- 31	श्री राजीव शर्मा	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	1-गातापार जंगल	श्री रमेश कुमार टण्डन	वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्राधिकारी, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	2-ईटार	श्री दिनेश धुर्वे	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	3-देवरी	श्री मनीष चंदेहे	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	4-पाड़ादाह	श्री के.के.द्विवेदी	अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया शीर्ष, जल संसाधन उप संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	5-मुढ़ीपार	श्री मुकेश कुमार वाधवानी	सहायक प्राध्यापक रानी रश्मि देवी सिंह शास- महाविद्यालय खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	6-टोलागांव	श्री तुषान्त रामटेके	पशुचिकित्सा सहायक, पशुचिकित्सा सहायक, शल्यज्ञ खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	7-बढ़ईटोला	श्री हेमेन्द्र सिंह चंद्रा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	8-ठेलकाडीह	श्री किशोरी लाल अमेला	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री अरविन्द कुमार भेड़िया	सहायक प्राध्यापक शास. महाविद्यालय सालहेवारा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री तोपलाल वर्मा	सहायक प्राध्यापक पं. देवीप्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय गंडई	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री डेविड कुमार	प्रशिक्षण अधिकारी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, छुईखदान	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री लाकेश वर्मा,	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री यशपाल जंघेल	सहायक प्राध्यापक, रानी रश्मि देवी शास. महाविद्यालय, खैरागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

25. जिला-राजनांदगांव

1	09-ढारा	श्री दिनेश सुधाकर	उप अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मंडल, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	10-कलकसा	श्री कमलेश कुमार	सहायक यंत्री, छ.ग.गृह निर्माण मंडल, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	11-डोंगरगढ़	श्री पी.के. नादिया	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	12-डोंगरगढ़	श्री पृथ्वी शाक्य	उप अभियंता जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	13-बेलगांव	श्री अमित साहू	सहायक संचालक, हाथ करघा विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

6	14-मोहारा	श्री आदित्य खरे	सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	15-सहसपुर दल्ली	श्री पी.सी. मरकले	सहायक जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	16-पटेवा	श्री अनीश मंसूरी	उप अभियंता जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	17-घुमका	श्री मुकेश देवांगन	श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	18-पदुमतरा	श्री एन.एल. पाण्डेय	उप संचालक, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	19-खैरझिटी	श्री टीकम ठाकुर	सहायक संचालक, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	20-बघेरा	श्री बी.एल. ठाकुर	उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	रिजर्व	श्री अनूप चटर्जी	उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	रिजर्व	श्री प्रसाद स्वामी	उप वन क्षेत्रपाल, वनमंडल राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	रिजर्व	श्री आबिद अली	उप वन क्षेत्रपाल, वनमंडल राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	1-पेण्डी	श्री देवेन्द्र कौशिक	उप संचालक, पंचायत विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	2-कौरिनभाटा	श्री विजय सोनी	सहायक अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	3- मोतीपुर	श्री याकुब कुजूर	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	4-चिखली	श्री एस. के. साहू	प्राचार्य, शासकीय आई.टी.आई राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	5-राजनांदगांव वेसलियन स्कूल	श्री गोपाल राव	सहायक संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	6- ठाकुर प्यारे लाल सिंह उ.मा.शा.राजनांदगांव	श्री सुशील लहरे	सहायक अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	7- शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव	श्री खूबचंद चावरे	उप अभियंता जल संसाधन बैराज संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	8-टांकापारा	श्री लालाराम देवांगन	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

24	9-लखोली	श्री सुशील वर्मा	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	10-शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय	श्री ए. एक्का	सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	11-रानीतराई	श्री लोमेश कुमार	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-2, छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि., राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	12-सुरगी	श्री शैलेश नागेश्वर	उप अभियंता, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	13-कन्हारपुरी	श्री जय सिंह सेंगर	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग राजनांदगांव राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	14-ठाकुरटोला	श्री आर.के. शर्मा	सहायक संचालक उद्यानिकी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	15-सोमनी	श्री ए.आर. रंगारी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु उप संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	16-टेडेसरा	श्री देवेन्द्र माहेश्वरी	सहायक संचालक, कौशल विकास, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	रिजर्व	श्री आर.आर. खरे	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इकाई क्रमांक -2, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	रिजर्व	श्री दिलीप कुमार त्रिवेदी	उप अभियंता, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास , राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	रिजर्व	श्री अरविन्द गोयल	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	1-तुमडीबोड़	श्री रमेश कुमार प्रधान	श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	2-बीजाभाटा	श्री होरीलाल साहू	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	3-तिलईरवार	श्री एम.एन. रेड्डी	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	4-कोकपुर	श्री दिनेश प्रसाद मर्सकोले	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	5-डोंगरगांव	श्री रत्नाकर माटे	श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	6-अमलीडीह	श्री विकास माहेश्वरी	उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	7-अर्जुनी	श्री अविनाश भट्ट	सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	8-करमतारा	श्री नवीद उल्लाह खान	उप अभियंता, मोंगरा बैराज, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

43	9-किरगी	श्री सुशील सावरकर	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	10-खुर्जी	श्री योगेश साहू	अनुविभागीय अधिकारी (वन), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	11-बोरतलाव	श्री एन. एल. मण्डावी	वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	12-बिच्छीटोला	श्री एस.आर. डोंगरे	प्राचार्य, शासकीय आई.टी.आई., टेडेसरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	13-माडियान	श्री मुकेश दुबे	सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	14-सीतागोटा	श्री सतविन्दर सिंह भाटिया	सहायक संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	15-चारभाटा	श्री अवधेश कुमार सिंह	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	16-लाल बहादुर नगर	श्री प्रवेश कुमार कोल्हे	सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	17-मेढ़ा	श्री हमीरचंद्र साहू	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रा.ग्रा.स.योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	18-मुडपार	श्री प्रशांत कुमार शांडिल्य	सहायक अभियंता, पंचायत एवं प्रा.वि.वि., परि.क्रिया.ईकाई क्र.1 प्र.ग्रा.स.यो. राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	19-मुसराकला	श्री सुमित कुमार गजभिये	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रा.ग्रा.स.योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	20-बिल्हरी	श्री परमेश्वर साहू	सहायक संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	रिजर्व	श्री शकील खान	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	रिजर्व	श्री ज्ञानेंद्र कश्यप	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इकाई क्रमांक -1, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	रिजर्व	श्री इन्द्रजय पाण्डेय	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	1-सड़क चिरचारी	श्री सागर कुमार शेंडे	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जिला राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	2-खोभा	श्री प्रवीण खलखो	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जिला राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	3-लालूटोला	श्री आलोक खोब्रागढ़े	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	4-महाराजपुर	श्री संजय राय	सहायक संचालक कृषि, कार्या. उप संचालक कृषि, राजनांदगांव (छ.ग.)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	5-छुरियाकला	श्री संतलाल देशलहरे	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), कार्यालय उप संचालक कृषि, राजनांदगांव (छ.ग.)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

63	6-भोलापुर	श्री उबैद फारूकी	अनुविभागीय अधिकारी सेतू निर्माण राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	7-बम्हनीचारभाठा	श्री संजय झाडेकर	सहायक नियंत्रक ड्रग, खाद्य एवं औषधि प्रसाशन, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	8-कल्लूबंजारी	श्री अरुण कुमार खोब्रागढ़े	अनुविभागीय अधिकारी, वि./या. लाईट, मशीनरी नलकूप एवं गेट उपसंभाग (जल संसाधन) राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	9-गेंदाटोला	श्री विभोर साहू	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	10-कुहीकला	श्री अनिल ठाकुर	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	11-चिरचारीकला	श्री श्रीकांत देवांगन	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	12-जोशीलमती	श्री राजकिशोर कपिल	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	13-चिरचारीखुर्द	श्री आकाश श्रीवास्तव	उप अभियंता, छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	14-कुमरदा	श्री अनिल मेश्राम	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, सहायक संचालक उद्यान, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	15-धनगांव	श्री रामनारायण भारद्वाज	सहायक अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जिला राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	16-चिखलाकसा	श्री मेघनाथ साहू	उप अभियंता, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	17-उमरवाही	श्री बी.के. धृतलहरे	अनुविभागीय अधिकारी, लघु जल संसाधन उपसंभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	18-गोडलवाही	श्री एन.एस. रावटे	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	19-करमरी	श्री क्षितिज सोरी	सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	रिजर्व	श्री बी.एन. बंजारे	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (मेकेनिकल), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	रिजर्व	श्री कृष्ण कुमार सोनी	उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग छुरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	रिजर्व	श्री हर्षद साहू	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), उप संभाग डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री अनूप चटर्जी	उप संचालक, पशु चिकित्सा विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री प्रसाद स्वामी	उप वन क्षेत्रपाल, वनमंडल राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री आबिद अली	उप वन क्षेत्रपाल, वनमंडल राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

4		श्री आर.आर. खरे	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इकाई क्रमांक -2, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री दिलीप कुमार त्रिवेदी	उप अभियंता, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री शकील खान	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जनपद पंचायत, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री ज्ञानेंद्र कश्यप	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इकाई क्रमांक -1, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री इन्द्रजय पाण्डेय	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री बी.एन. बंजारे	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (मेकेनिकल), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री कृष्ण कुमार सोनी	उप वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग छुरिया	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री हर्षद साहू	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ./स.), उप संभाग डोंगरगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

26. जिला-मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी

1	रेगाकठेरा-20	श्री वाई.के साहू	उप-अभियंता, जनपद पंचायत अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	आमाटोला-21	श्री विनोद सिंह	उप-अभियंता, लाक स्वा. यांत्रिकी विभाग अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	ढाढ़टोला-22	श्री योगेश पिस्टा	सहा. वि. वि. अधिकारी जन. पंचा. अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	सांगली-23	श्री हरिशंकर वर्मा	उप-अभियंता, नगर पंचायत, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	अं. चौकी-24	श्री बी.एल. खरे	सहायक -अभियंता, पी.एच.इ. अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	चिल्हाटी-25	डॉ. देवेन्द्र कुमार देवांगन	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	छछानपाहरी-26	श्री एस.आर. चन्द्रवंशी	सहा. विकास अधिकारी, जनपद पंचायत अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	कोरचाटोला-01	श्री गौतरण लदेर	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	डुमरघुंचा-02	श्री शंभू यादव	उप-अभियंता, जनपद पंचायत, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	परसाटोला-03	श्री जितेन्द्र कुमार नेताम	कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	बिहरीकला-04	श्री ताजीराम सलामें	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

12	कौडीकसा-05	श्री अरविन्द रजक	मत्स्य निरीक्षक, जनपद पंचायत, अ०चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	माहुद मचान्दुर-06	डा. चंद्रशेखर अम्बुलकर	पशु चिकित्सा शल्यज्ञ मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	कनेरी-07	श्री देवेन्द्र धुर्वे	उप अभियंता, जल संसाधन मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	वासडी-08	श्री योगेश भगत	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	भोजटोला-09	श्री मुकेश अग्रवाल	वन क्षेत्रपाल पानाबरस परियोजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	मोहला-10	श्री जागेश गौड	वन क्षेत्रपाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	रेंगाकठेरा-11	सुश्री दीपिका सोनवानी	वन क्षेत्रपाल, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	एकटकन्हार-12	श्री सुशील लहरे	अनुविभागीय अधिकारी हाऊसिंग बोर्ड, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	गोटाटोला-13	श्री सुभाष गोरे	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रा.यां.सेवा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	मोहभट्टा-14	श्री केशव पटेल	उप-अभियंता, जनपद पंचायत, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	सोमाटोला-15	श्री प्रदीप कुमार	उप-अभियंता, हाऊसिंग बोर्ड, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	डुमरटोला-16	श्री दरवन बोगा	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	गिधाली-17	श्री सुबोधकांत पिस्टा	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	सरखेड़ा-18	श्री मो.अयुब शेख	वन क्षेत्रपाल, मानपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	भर्रीटोला-19	श्री गोविंद धुर्वे	वरिष्ठ कृषि अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	पानाबरस-20	श्री दिलेश्वर कुमार वर्मा	मंडल संयोजक, आ.जा.क.विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	मरकेली-21	मो हसन आफ़्रोज	उप अभियंता ग्रा.यां.सेवा जनपद पंचायत मानपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	बसेली-22	श्री अरूण मरकाम	सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी, मानपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	खड़गांव-23	श्री अनील देवांगन	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	कोहका-24	श्री ओ.पी.खिलाड़ी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	कहडबरी-25	श्री नारायण प्रसाद गौतम	उप अभियंता जनपद पंचायत मानपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	औंधी-26	श्री विकास कुजूर	ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			मानपुर	
34	संबलपुर-27	श्री पी.आर. औरेन्द्र	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	मानपुर-28	श्री पंचराम ठाकुर	वन क्षेत्रपाल, वन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री राज कुमार पिस्टे	अनुविभागीय अधिकारी, कृषि अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री एस. के. धीवर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री पुष्करनाथ चन्द्रवंशी	उप-अभियंता, लो. नि. विभाग, अं. चौकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री ए.पी. शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री दिलीप मेश्राम	सहायक मत्स्य अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री अंगद राम कौर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मानपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7		श्री जे एल मांडवी	सहायक संचालक कृषि, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री सोनसाय दुग्गे	विकास विस्तार अधिकारी, मोहला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

27. जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

1	गोड़बिनापाल-1	श्री पी.के. ध्रुव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग अंतागढ़ 9770109376	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	ताड़ोकी-2	श्री विजय कुमार मांडवे	अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	बैहासाल्हेभाट-3	श्री शिवेन्द्र भगत	अनुविभागीय अधिकारी (वन) अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	सरण्डी-4	श्री संजय मारकण्डे	उप अभियंता, नगर पंचायत अंतागढ़,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	कढ़ाईखोदरा-5	श्री एस.के. मरकाम	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	भैंसासुर-6	श्री जागेश्वर परते	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	पोण्डगांव-7	श्री सालिकराम यादव	वन परिक्षेत्राधिकारी अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

8	करैगांव-8	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंघोरिया	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	अंतागढ़-9	श्री एन.एस कोमरर्	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	बोड़ागांव-10	श्री मोहरलाल सोरी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	आमाबेड़ा-11	श्री गजेन्द्र कुमार सिन्हा	कृषि विकास अधिकारी अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	नागरबेड़ा-12	श्री बिरेन्द्र यादव	वन परिक्षेत्राधिकारी आमाबेड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	अर्वा-13	श्री डी.एल. बढई	प्राचार्य, लाल कालेन्द्र महाविद्यालय अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	किसकोड़ो-14	श्री टी.एस. नेताम,	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	कोयलीबेड़ा-15	श्री भूपेश नेताम	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतागढ़ 6263168248	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	सुलंगी-16	श्री प्रवीर कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	केसेकोड़ी-17	श्री दिलीप कुमार सिन्हा	वन परिक्षेत्राधिकारी कोयलीबेड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	कड़मे-18	श्री आर.एल. खाण्डेकर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग अंतागढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	आनंदनगर-19	श्री मनोज सरकार	कृषि विकास अधिकारी पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	इरिकबुटा-20	श्री हरिश चन्द्र साहू,	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	पी.व्ही. 132-21	श्री योगेन्द्र मंडावी	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग कापसी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	मेण्डा-22	श्री विजय कुमार यादव	उपवन क्षेत्रपाल कापसी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	परतापुर-23	श्री एच.एस. उईके	अनुविभागीय अधिकारी (वन) पूर्व कापसी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	बारदा-24	श्री एस.के. ध्रुव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

25	पखांजूर-25	श्री पी.एस. कंवर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	मिक्सफार्म&26	श्री केजू राम सिन्हा	खण्ड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	इन्द्रप्रस्थ-27	श्री बी.पी. टंडन	अनुविभागीय अधिकारी (ग्रा.यां.से.) पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	ऐसेबेड़ा&28	श्री नवलू राम नेताम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	मरोड़ा-29	श्री चन्नीलाल स्वर्णकार	उपअभियंता, ग्रा.या.से. कोयलीबेड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	छोटेबेठिया-30	श्री एस. आर. धाकड़	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बांदे	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	बांदे-31	श्री अभिषेक दत्ता	उप अभियंता, नगर पंचायत पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	कुरेनार-32	श्री हेमंत कुमार पटेल	उप अभियंता जल संसाधन पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	पानावर-33	श्री थनेंद्र कोमा	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान अधीक्षक पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	नागलदण्ड-34	श्री शेष नारायण सोनी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग पखांजूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	हाटकौंदल	श्री मुकेश नेताम	परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गुकौंदल पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	दमकसा	श्री आशुतोष शर्मा	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर 9340870953	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	जाड़ेकुर्से	शेख असलम	उप अभियंता लोनिवि भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	सुरूगदोह	श्री एण्केण्मण्डावी	अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे दुर्गुकिंदल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	कोड़ेकुर्से	श्री विजय पटनायक	परिक्षेत्र अधिकारी भानुप्रतापपुर पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	कोण्डे	श्री पंकज देवांगन	अनुविभागीय अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	मेड़ो	श्री वायण्केण्गुरू	अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	भीरागांव	श्री दानेश्वर देवांगन	अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	दुर्गुकौंदल	श्री व्हीण्केण्कोड़ोपी	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन	संबंधित लोकसभ

			भानुप्रतापपुर	क्षेत्र
44	तुड़गे	श्री इतवारी राम कंवर	उप अभियंता लोनिवि भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	सम्बलपुर	श्री आई ण्पीण्गेदरे	अनुविभागीय अधिकारी पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	केवटी	श्री देवेंद्र सिंह हटिले	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	आसुलखार	श्री बुधपाल वासनिक	उप अभियंता जनपद पंचायत दुर्गूकोन्दल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	भानुप्रतापपुर	श्री जितेंद्र गजबिये	उप अभियंता जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर 9770160530	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	कच्चे	श्री मोहन नेताम	परिक्षेत्र अधिकारी उत्पादन पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	भानबेडा	श्री सुदीप वर्मा	उप मण्डल प्रबंधक वन विकास निगम मुल्ला	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	बैजनपुरी	श्री एलण्केण्णाग	अनुविभागीय अधिकारी कृषि भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	कोरर	श्री धनलाल साहू	परिक्षेत्र अधिकारी कोरर वनमण्डल कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	हाटकर्ना	श्री गजेंद्र सिंह कोरेटी	उप अभियंता लोनिवि भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	तरादुल	श्री श्याम देवांगन	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	आंवरी	श्री राजकुमार सिन्हा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	डोकला	श्री विजय कुमार सिन्हा	परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	चारामा	श्री अरविंद कुर्रे	सहायक उद्यान अधीक्षक चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	पुरी	श्री एमण्केण्खरे	उप अभियंता लोनिवि चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
59	मयाना	श्री युवराज सिंह	उप अभियंता लोनिवि चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	लिलेझर	श्री एचण्णलण्कोमरे	उप अभियंता जल संसाधन चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	लखनपुरी	श्री आरण्केण्पाण्डे	उप अभियंता जल संसाधन चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	खैरखैड़ा	श्री उत्तम कुमार चौधरी	उप अभियंता जनपद पंचायत चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	कोटेला	श्री पीण्सीण्साहू	उप अभियंता लोनिवि चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	हल्बा	श्री मोहन नेताम	उप अभियंता ग्रायांसे चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	तेलगुड़ा	श्री विनोद दिवान	उप अभियंता ग्रायांसे चारामा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	1-केंवटीनटोला	श्री विकास श्रीवास्तव,	उप अभियंता ग्रा0यां0सेवा संभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	2- धनेलीकन्हार	श्री टिकेन्द्र साहू,	जल संसाधन उप संभाग 2 कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	3- देवरी(बारदेव)	श्री राजेश हिरकने,	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	4-नांदनमारा	श्री अमर नाथ जैन,	क्षेत्राधिकारी विभाग जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कांकेर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	5- ठेलकाबोड	श्री एस.डी.प्रसाद,	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	6. मालगांव	श्री नंद कुमार कुर्रे	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	7- सुरेली	श्री मनीष बिछिया	उप अभियंता जल संसाधन उपसंभाग क्र.2	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	8- कानागांव	श्री अमन अवधिया	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग क्र. 02 कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	9 - डुमाली	श्री सत्यम मित्रा	उपसंचालक, पशु चिकित्सा एवं सेवाए	संबंधित लोकसभ

			कांकेर 9479018646	क्षेत्र
75	10- बेवरती ।	श्री रीतेश नायडू	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	11-इच्छापुर	श्री त्रिलोक कुमार कुटारे	सहायक अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा उपसंभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	12- सिंगारभाट ।	श्री विनोद कुमार श्रेय	उप अभियंता सेतु लोक निर्माण विभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	13- मोहपुर	श्री समर सिंह कंवर,	सहायक संचालक मतस्य विभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	14- शिवनगर	श्री मधुकर श्याम हरित	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	15 - बरदेभाटा	श्री राजेश मिश्रा	उप अभियंता नगरपालिका परिषद कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	16- डुमरपानी	श्री कुलदीप टंडन	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग क्र.	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	17 -उमरादाह	श्री आर. एस. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी वन अनुविभाग कांकेर (वन)	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	18- नरहरपुर	श्री ओंकार सिंह कंवर	उप अभियंता, सेतु लोक निर्माण विभाग कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	19 - बादल	हरिकीर्तन राठौर	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	20- देवगांव	श्री हर्षवर्धन जागड़े,	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
86	21 - अमोडा	श्री प्रकाश कुमेटी	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कांकेर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	22 - ढेकुना	श्री आर. के. दुर्गे,	उप अभियंता सेतु लोक निर्माण विभाग कांकेर 9893389523	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	23 - बुदेली	श्री एस.आर.जाटव,	सहायक अभियंता, जल संसाधन उपसंभाग 1 नरहरपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	24-मानिकपुर	श्री आर.के.सिंघाई	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

			कांकेर	क्षेत्र
90	25- जामगांव	श्री महेन्द्र कुमार ठाकुर.	उप अभियंता सेतु लोक निर्माण विभाग कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
91	26- धनोरा	श्री छत्रुलाल साहू	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
92	27- कुम्हानखार	श्री रोहित कुमार ध्रुव	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
93	28- ठेमा	श्री चन्दशेखर भण्डारी	वनपरिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र सरोना	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
94	29- बासनवाही	श्री नरेन्द्र ठाकुर	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री ईश्वर निर्मल	पशु चिकित्सा अधिकारी पी.व्ही. 26	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2		श्री कमल सिंह नरेटी	पवनक्षेत्रपाल कापसी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3		श्री देवकुमार कलिहारी,	पशु चिकित्सा अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4		श्री तुलाराम मधुकर	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5		श्री सुन्दर लाल बछार	ग्रा.कृ.विस्तार अधिकारी, अंतागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6		श्री विमल जुरी	उपअभियंता, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7		श्री डेमनलाल देशमुख	उप अभियंता लो.स्वा.यांत्रिकी भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8		श्री दीपक चौबे	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9		श्री एम.के. नुरेटी	उप अभियंता लोनिवि चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10		श्री प्रीतम सार्व	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11		श्री केशव राम साहू	खण्ड शिक्षा अधिकारी चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

28. जिला- कोण्डागांव

1	1-खालेमुरवेण्ड	श्री हंसराज सिन्हा	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फरसगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
---	----------------	--------------------	--	------------------------

2	2-केशकाल	श्री त्रमन लाल बंजारे	उप अभियंता, जनपद पंचायत बड़ेराजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-गढ़धनोरा	श्री दीपक प्रधान	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग फरसगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-कुएं	श्री विजय कुमार जुरी	उपअभियंता, जनपद पंचायत कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5-अडेंगा	श्री आर.के. मरकाम	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग केशकाल/बड़ेराजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-सालेभाट	श्री देवेन्द्र कुमार अग्रवाल	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग फरसगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7-सिंगनपुर-1	श्री रविन्द्र साहू	उपअभियंता, जनपद पंचायत माकड़ी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8-सिंगनपुर-2	श्री दिलीप कुमार यदु	उपअभियंता, जनपद पंचायत कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9-पिपरा-1	श्री राधेश्याम साहू	उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10-पिपरा-2	श्री जगमोहन सेमरा	उपअभियंता लोक निर्माण विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11-मस्सूकोकोड़ा	श्री कुंवर सिंह	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12-गौरगांव उर्फ चिखलाडीही	श्री आशीष अग्रिहोत्री	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13-अरण्डी	श्री हेमन्त कुमार पाल	उपअभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14-धनोरा	श्री राजेन्द्र कुमार मण्डावी	वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यान केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15-ईरागांव	श्री संदीप कुमार कोराम	उपअभियंता, जलसंसाधन कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16-कानागांव	श्री कमलेश नेताम	उप अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र-01 छ0ग0ग्रा0स0वि0अ0 कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17-बाड़ागांव	श्री जगदेव मरकाम	उपअभियंता, जनपद पंचायत फरसगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18-बालेंगा	श्री अजय कुमार टोप्पो	उपअभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19-कोरगांव	श्री देवानंद गावडे	उपअभियंता, लोक निर्माण विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20-बड़ेराजपुर	श्री ब्रम्ह दत्त शर्मा	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग फरसगांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21-कोपरा	श्री रामेश्वर सिंह यादव	वनक्षेत्रपाल, वनमण्डल केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22-बड़बत्तर	श्री कृष्ण कुमार नेताम	कृषि विकास अधिकारी बहीगांव, जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

23	23-सलना	श्री सम्पत लाल पैकरा	उपअभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24-बांसकोट	श्री विनोद कुमार लसार	उप अभियंता, जनपद पंचायत केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25-विश्रामपुरी	श्री आलोक कुमार ध्रुव	अनुविभागीय अधिकारी, लोक लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26-फुण्डेर	श्री दीपेश सिंह बघेल	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	27-चनियागांव	श्री विरेन्द्र पाण्डे	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28-उरन्दाबेड़ा	श्री सुनिल कुमार निराला	उपअभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	29-चिंगनार	श्री टारजन साहू	उपअभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	30-चांदाबेड़ा	श्री देवव्रत रामटेके	उपअभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	31-बड़ेडोंगर	श्री रूपेन्द्र कुमार भुआर्य	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	32-बोरगांव	श्री खिलेश कुमार साहू	सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	33-भण्डारसिवनी	श्री नंद कुमार नागवंशी	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	34-फरसगांव	श्री रूपनारायण पटेल	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	35-लंजोड़ा	श्री पी.एल. सोनवानी	उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	36-कबोंगा	श्री छत्रपाल सोनवानी	उपअभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	37-खलारी	श्री हेमलाल पदमाकर	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	38-भोंगापाल	श्री सारस महादेवकर	उपअभियंता जल संसाधन विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	1-चिमड़ी	श्री बी.आर. मोरे	उपसंचालक पंचायत जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	2-किर्बईबालेंगा	श्री कंवलसाय मरकाम	सहायक जिला परियोजना अधिकारी (समग्र शिक्षा) कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	3-बुनागांव	श्री धनीराम कुलदीप	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	4-गिरोला	श्री सिपरियानुस कुजूर	सहायक संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	5-पल्ली	श्री के.एल. उइके	सहायक पंजीयक सहकारिता, जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

44	6-बफना	श्री घनश्याम प्रसाद	कार्यपालन अधिकारी अंत्यव्यवसायी, जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	7-फुकागिरोला	श्री लोकेश्वर प्रसाद ध्रुव	उद्यान अधिकारी कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	8-बम्हनी	श्री अतुल सिंह ठाकुर	उपअभियंता, जल संसाधन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	9-बनियागांव	श्री रणधीर लाल अम्बादे	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	10-मुनगापदर	श्री राजूराम साहू	खण्ड शिक्षा अधिकारी माकड़ी, जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	11-घोड़ागांव	श्री दीपक कुमार शर्मा	सहायक संचालक, कृषि जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	12-बड़ेकनेरा	श्री ओमप्रकाश ठाकुर	उप अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो. कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	13-चिपावण्ड	श्री उमेश कुमार नेताम	उपअभियंता जल संसाधन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	14-कोण्डागांव-1	श्री जेवियर टोप्पो	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	15-कोण्डागांव-2	श्री आशीष कोटरीवार	उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	16-कोण्डागांव-3	श्री ईरशाद अंसारी	सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	17-शामपुर	श्री योगेश देवांगन	सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	18-केरावाही	श्री ठकेश्वर लांझे	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	19-कांटागांव	श्री मनीष सिंह नेताम	उपअभियंता क्रेडा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	20-रांधना	श्री अनुराग सिन्हा	मण्डल संयोजक, आदिवासी विकास विभाग, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	21-बरकई	श्री गोपाल दास टण्डन	खनिज निरीक्षक, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	22-बागबेड़ा	श्री एन.के. रंगारे	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	23-माकड़ी	श्री राकेश कुमार नागेश	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
62	24-जरण्डी	श्री राजीव सिंह	उपअभियंता, जनपद पंचायत केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र .
63	25-हीरापुर	श्री जे.पी. प्रधान	अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	26-तोरण्डी	श्री छगन कुमार	उपअभियंता, जलसंसाधन कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	27-अनंतपुर	श्री सूर्यकांत यादव	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

66	28-अमरावती	श्री सचिन मिश्रा	उपअभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	29-हिरलाभाट	श्री प्रतीक वर्मा	वनक्षेत्रपाल, वनमण्डल कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	30-देवगांव	श्री लालमोहर सिंह	सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड, जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	31-मारागांव	श्री विमल कुमार गौतम	सहायक संचालक उद्यान, जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
70	32-बालोण्ड	श्री चन्द्रशेखर कश्यप	सहायक संचालक कृषि, जिला- कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	33-ठेमागांव	श्री डिकेश कुमार कोमा	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	1-बयानार	श्री मुकेश कुमार साहू	उपअभियंता जल संसाधन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	2-कोगेरा	श्री डिसेन कुमार कश्यप	सहायक संचालक कृषि कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	3-सोनाबाल	श्री संतोष कुमार	उपअभियंता जल संसाधन कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	4-गोलावण्ड	श्री देवेन्द्र कुमार सोरी	सहायक संचालक, जिला योजना एवं सांख्यिकी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	5-मर्दापाल	श्री अमर सिंह खाण्डे	श्रम निरीक्षक कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	6-नवागांव	श्री संतोष कुमार ध्रुव	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	7-बेचा	श्री शशिकांत नाग	कृषि विकास अधिकारी, कृषि कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	8-मटवाल	श्री संजय पोटावी	परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	9-हसलनार	श्री अघनूराम मण्डावी	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		डा. ओमप्रकाश	प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र बोरगांव, जिला कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री गजेन्द्र धुरडे	मण्डल संयोजक वि.ख. केशकाल, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री के.एस. पोया	खण्ड शिक्षा अधिकारी बड़ेराजपुर, वि.ख. बड़ेराजपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री सत्येन्द्र कुमार सिरदार	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री राजेन्द्र कुमार राठौर	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग केशकाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री शेषमणि पाण्डे	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

7		श्री विपिन सिंह चैहान	उप अभियंता, क्रेडा, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री राजेश कुमार वाजपेयी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री तुषार चंदन	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री प्रकाश नारायण पैकरा	ग्रा.उ.वि.अधि., उद्यान विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री बीजन लाल शर्मा	वनपाल, वन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री टी.आर. मरई	उप वनमण्डलाधिकारी, वन मण्डल कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री आर.के. राय	उप अभियंता, क्रेडा, जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14		श्री जितेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15		श्री सुरेश कुमार कतलाम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16		श्री आनंद राम नेताम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग जिला-कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17		श्री सूर्य प्रकाश ध्रुव	वनपाल, वन विभाग कोण्डागांव	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

29. जिला-नारायणपुर

1	ओरछा-1	श्री प्रभात कुमार जल्होना	सहायक अभियंता, पंचा.एवं ग्रा.यां.विभाग ओरछा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	ओरछा-2	श्री विरेन्द्र बंजारे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	सोनपुर-3	श्री रामसिंह किंकर	उप अभियंता, क्रेडा नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	सोनपुर-4	श्री जितेन्द्र कुमार साहू,	उप अभियंता, पंचा.एवं ग्रा.यां.विभाग ओरछा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	आकाबेड़ा-5	श्री सावन प्रसाद	उप अभियंता, पंचा.एवं ग्रा.यां.विभाग ओरछा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	आकाबेड़ा-6	श्री लोकनाथ भोयर	सहायक संचालक कृषि नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	गोमैं-7	श्री सीमांत खरे	सहायक अभियंता पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	पांगुड़-8	श्री चन्द्रशेखर नायक	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	कोहकामेटा-9	श्री शरद कुमार मारकोले	सहायक संचालक कृषि नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	कोहकामेटा-	श्री दीनबंधु रावटे,	खण्ड शिक्षा अधिकारी ओरछा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

				क्षेत्र
11	नारायणपुर-11	श्री तोषण चन्द्राकर	सहायक संचालक उद्यानिकी नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	नारायणपुर-12	श्री मनीष कुमार साहू	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्रा.स.यो.नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	नारायणपुर-13	श्री आशुतोष कुमार सिदार	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रा.स.यो. नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	बाकुलवाही-14	श्री देवानंद डहरे	उप अभियंता, जल संसाधन नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	कुडड़ाझोर-15	श्री विजय कुमार ध्रुव	सहायक अभियंता, क्रेडा नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	गुरिया-16	श्री हिमांशु कावड़े	उप अभियंता, नगर पालिका परिषद नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	बिंजली-17	श्री आई.के.बागरी	उप संचालक रेषम विभाग नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	गढ़बेंगाल-18	श्री आइ.जे.एक्का	जिला सांख्यिकी अधिकारी नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	मरकाबेड़ा-19	श्री शेषलाल गावड़े	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	एड़का-20	श्री विजय कुमार टोप्पो	सहायक संचालक, जिला योजना सांख्यिकी नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	एड़का-20	श्री विजय कुमार टोप्पो	सहायक संचालक, जिला योजना सांख्यिकी नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	बेनूर-22	श्री योगेन्द्र कुमार ग्वाल	उप अभियंता, जल संसाधन नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	भाटपाल-23	श्री दुर्गेश रंघाटे	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रां.स.यो.नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	महिमागवाड़ी-24	श्री सुखचंद वट्टी	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रां.स.यो.नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	बड़गोंव-25	श्री लक्ष्मण सिंह कश्यप	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	कन्हारगांव-26	श्री गंगेश्वर भोयर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	छोटेडोंगर -27	श्री हेमराज ध्रुव	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		रामेश्वर नेताम	कार्यपालन अभियंता, पंचा.एवं ग्रा.यां.वि.नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री अशोक चौधरी	उप अभियंता, पंचा.एवं ग्रा.यां.विभाग नारायणपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री मेघलाल मण्डावी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास ज.पं. ओरछा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

30. जिला-बस्तर

1	1-भानपुरी	श्री रमेश कुमार शुक्ला	वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2-तुरपुरा	श्री गुरुप्रसाद नेताम	सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3-केशरपाल	श्री अमित कुमार उर्वशा	सहायक अभियंता, (विद्युत सुरक्षा) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, संभाग-जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4-सोनारपाल	श्री मदन लाल कुर्रे	क्रीडा अधिकारी, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केन्द्र कुमहरावंड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5-करनदोला	श्री हेमन्त कुमार नेताम	उप अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग क्र-2 जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6-बड़े आमाबाल	श्री तरूण कुमार प्रधान	अनुविभागीय अधिकारी कृषि, जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7-मांदलापाल	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केन्द्र कुमहरावण्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8-कावड़गांव	श्री छत्रपाल सिंह कोमरे	कार्यपालन अभियन्ता, कार्य-मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	9-रतेंगा	श्री साबू वर्गीस	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जगदलपुर, जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10-घोटिया	श्री अनिल अगरकर	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	1-मोहलई	श्री उत्तरा कुमार राठिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बकावंड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	2-जैबेल	श्री विनोद सिंह भदौरिया	वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नानगुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	3-कोलावल	श्री पूरन चंद्र जैन	सहायक अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता लो.स्वा.यां.खण्ड जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	4-करपावण्ड	श्री गोविंद कुमार	जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	5-चिउरगांव	श्री अनिरुद्ध कुमार भट्ट	उप अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग- 1 जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

16	6-जैतगिरी	श्री अमित गुलहरे	अधीक्षण अभियन्ता प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	7-बकावण्ड	श्री गुणेश कुमार पाणीग्राही	उप अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता लो.स्वा.यां.खण्ड जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	8-मूली	श्री रविशंकर पाण्डे	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	9-ईच्छापुर	श्री रोशन कुमार केरकेटटा	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	10-बालेंगा	श्री हिरेन बघेल	उप अभियन्ता कार्यपालन अभियन्ता लो.यात्री जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	11-मधोता	श्री पंकज बिचपुरिया	श्रम पदाधिकारी, जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	12-भोण्ड	श्री शंकर सिंह मांझी	अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	13-बस्तर	श्री सुरेश ठाकुर	उप संचालक, उद्यानिकी विभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	14-चोकर	श्री अरुण पाण्डेय	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	15-घाटलोहंगा	श्री नेमीचंद मंडावी	वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय कुमहारावण्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	16-मोंगरापाल	श्री राजेन्द्र डेकाटे	सहायक संचालक, जिला खेल अधिकारी जगदलपुर, जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	17-राजनगर	श्री हेमन्त कुमार देवांगन	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकावण्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	18-भेजरीपदर	श्री ओम प्रकाश साहू	सहायक अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क ईकाई क्रमांक 1 जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	19-सरगीपाल	श्री नरेन्द्र कुमार नाग	वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय कुमहारावण्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	20-छोटेदेवड़ा	श्री एस.ए.रजा	अति.मु.का.अधि, जिला सहकारी मार्या.बैंक जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	21-मालगांव	श्री सर्वात्तम सिंह पैकरा	सब ईजिनियर कार्यपालन अभियन्ता लोक यांत्रीक जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	22-उलनार	श्री प्रफुल्ल मांझी	उप संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
33	23-चितालूर	श्री चुनेंद कुमार चंद्राकर	उपअभियन्ता, जनपद पंचायत बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

34	1-घाटपदमुर	श्री प्रणव बेनर्जी	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला नियानार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	2-जगदलपुर 1	श्री रमेश उपाध्याय	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला आसना	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	3-जगदलपुर 2	श्री अनिल सहारे	उप अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक सेवा संभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	4-आसना	श्री शोभित एक्का	सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	5-कलचा	श्री रमेश कुमार धुत्र	अनुविभागीय अधिकारी, जल मौसम विज्ञान उप संभाग क्रमांक 13 जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	6-माड़पाल	श्री बी.के.डोंगरे	सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	7-नगरनार	श्री प्रवीण पोयाम	सहायक अभियन्ता, आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	8-मारकेल	श्री कमलेश कुमार	उप अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	9-आड़ावाल	श्री अनिल कुमार सोम	सहायक संचालक, जिला हाथ करघा कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	10-जगदलपुर 3	श्री अभय राम नोन्हारे	प्राचार्य, शासकीय कन्या परिसर परचनपाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	11-जगदलपुर 4	श्री आर.के.रिझारिया	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसंधान जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	12-जगदलपुर 5	श्री प्रकाशचंद रथ	प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जामावाडा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	13-जगदलपुर 6	श्री नीतेशराज खोब्रागड़े	सहायक अभियन्ता, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता इन्द्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	14-जगदलपुर 7	श्री रमाकांत सोनी	खनीज अधिकारी जिला कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	15-जगदलपुर 8	श्री सुरेन्द्र शुक्ला	अधीक्षण अभियन्ता सहायक अभियन्ता विद्युत सुरक्षा एवं सहायक	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	16-जगदलपुर 9	श्री पवन कुमार गुप्ता	वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	17-पंडरीपानी	श्री गंभीर सिंह शोरी	सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	18-सरगीपाल	श्री अक्षत कुमार जैन	उप अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

52	19-तिरिया	श्री बी.डी.मानिकपुरी	वन क्षेत्रपाल, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
53	20-नानगुर	श्री अमरेश दास	उप अभियन्ता, सहायक अभियन्ता विद्युत सुरक्षा एवं सहायक निरीक्षक जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
54	21-पुसपाल	श्री राजेश कुमार पाण्डे	उप अभियन्ता, आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
55	22-जामावाड़ा	श्री राजीव श्रीवास्तव	उप संचालक कृषि जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
56	23-ककनार	श्री सौरभ रजक	वन क्षेत्रपाल, वनमण्डला अधिकारी कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
57	24-नेगानार	श्री विजय पाण्डेय	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
58	25-दरभा	श्री बुधराम साहू	उपवन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र बस्तर वनमण्डल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
59	26-नेतानार	श्री देवन्द्र सिंह वर्मा	वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र बस्तर वनमण्डल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
60	27-कोलेंग	श्री तेजपाल चंद्राकर	वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय अनुसन्धान केंद्र कुमहारावण्ड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
61	28-गुमलवाडा	श्री मानसिंह भारद्वाज	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
62	1-बोदली	श्री कमलकान्त जोशी	उप वनक्षेत्रपाल, वनमण्डलाधिकारी अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र सामाजिक वानिकी वनमण्डल जगदलपुर, जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
63	2-एरपुण्ड	श्री सुकुलधर नाग	सहायक परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र चित्रकोट, वनमण्डलाधिकारी कार्यालय सामान्य वनमण्डल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
64	3-चंदेला	श्री प्रकाश सिंह ठाकुर	वन क्षेत्रपाल वनमण्डलाधिकारी कार्यालय सामान्य वनमण्डल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
65	4-भेजा	श्री लोकेश कुमार खापर्डे	प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
66	5-मारडूम	श्री मोहन लाल राणा	उप संचालक, मछली पालन जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
67	6-चित्रकोट	श्री मोहम्मद परवेज खान	उप अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग -1 जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
68	7-बड़ाजी	श्री जगदीश कुमार	कार्यपालन अभियन्ता, जल जीवन लो.स्वा.यां. जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
69	8-छापरभानपुरी	श्री राहुल चंद्रकार	कार्यपालन अभियन्ता, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

70	9-सिरिसगुड़ा	श्री सचिन शर्मा	उप अभियन्ता, जनपद पंचायत बास्तानार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
71	10-पोटानार	श्री घसियाराम मरकाम	सहायक अभियन्ता, क्रेडा जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
72	11-केशलूर	श्री प्रमेन्द्र शेखर पांडेय	क्षेत्रीय अधिकारी, छ ग पर्यावरण संरक्षण मण्डल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
73	12-तोकापाल	श्री किशोर कुमार कुंजाम	उप अभियन्ता, कार्यपालन अभियन्ता लो.नि.वि. क्र.-2 संभाग बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
74	13-राजूर	श्री बिनोद कुमार बुनकर	उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
75	14-रायकोट	श्री योगेश रात्रे	अनुविभागीय अधिकारी सामान्य वन मंडल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
76	15-सालेपाल	डॉ. राजेन्द्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर जिला बस्तर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
77	16-बड़ेपरोदा	श्री सुरेश कुमार साहू	सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
78	17-तारागांव	श्री भक्त मल्ला	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
79	18-मांदर	श्री गिरवर सिंह नागवंशी	उप अभियन्ता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
80	19-जामगांव	श्री देवाशीष चौधरी	सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
81	20-मूतनपाल	श्री शशिधर निषाद	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बास्तानार	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
82	21-बागमुण्डी पनेड़ा	श्री लखनधर दीवान	उप संचालक कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
83	22-बास्तानार	श्री भुवनेश्वर सुरोजिया	वन क्षेत्रपाल, वन मण्डाधिकारी सामान्य वन मंडल जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
84	23-बड़ेकाकलूर	श्री अंशुल चोपडा	सहायक अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
85	24-बड़ेकिलेपाल	श्री टेकराम मरई	सहायक वन संरक्षक, वन मण्डाधिकारी कार्य आयोजना वन मंडल जगदलपुर जिला बस्तर,	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

86	25-कुम्हार साडरा	श्री मदन चन्द्र मिश्रा	उप वन क्षेत्रपाल . वन मण्डाधिकारी सामान्य वनमंडल कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
87	26-कोड़ेनार	श्री सुशील कुमार कर्मकार	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर जिला बस्तर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
88	27-डिलमिली	श्री अखिलेश कुमार नाग	उप संचालक कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
89	28-चितापुर	श्री अजय कुमार मिरी	सहायक संचालक कृषि, प्राचार्य कृषक प्रशिक्षण केंद्र, कुम्हरावंड	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
90	29-छिन्दावाडा	श्री दीपेश वट्टी	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता लो.नि.वी सेतु निर्माण जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
91	30-केलाउर	श्री कमल नारायण तिवारी	सहायक संचालक कांगेर वेली जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
92	31-पखनार	श्री प्रवीण बोदलेकर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
93	32-बीसपुर	श्री सहदेव नेताम	कार्यपालन अभियन्ता , कार्यालय मुख्य अभियंता ,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र जगदलपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
94	33-कलेपाल	श्री संत कुमार चंदेल	सहायक अभियन्ता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वि/यां उप खंड जगदपुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
95	34-सुलेंगा	श्री चन्द्रशेखर यादव	विकासखंड शिक्षा अधिकारी ,कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी लोहंडीगुडा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

31. जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

1	1. मुचनार	श्री मोतीलाल नाग	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	2. बारसूर	श्री ए.आर. खरे	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	3. रांजे	श्री आर.के. बेक	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन सर्वे उपसंभाग गीदम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	4. गीदम	श्री आई.एस. पैकरा	सहायक संचालक कृषि विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	5. कासोली	श्री निखिल कंवर	प्रभारी कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	6. हारम	श्री रामभुवन पटेल	सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	7. मोफलनार	श्री सुबोध राम भगत	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उप संभाग बड़ेबेचली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	8. बांगापाल	श्री अरूण कुमार नायक	अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपसंभाग बचेली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

9	9. फरसपाल	श्री फिलिप तिग्गा	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	10. तुड़पारास	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	11. टेकनार	श्री सी. लकड़ा	सहायक संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12	12. दन्तेवाड़ा	श्री बिहारी राम कांगे	श्री बिहारी राम कांगे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उपसंचालक कृषि दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	13. पोन्दूम	श्री गणेश राम कुर्रे	उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कटेकल्याण	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	14. मटेनार	श्री रविकांत भारद्वाज	सहायक अभियंता, अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	15. भांसी	श्री डिकलेश कुमार	सहायक संचालक उद्यान विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	16. गंजेनार	श्री खिलेश कुमार	सहायक कृषि अभियंता कृषि अभियांत्रिकी दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	17. कुआकोण्डा	श्री मधु कुमार मोर्या	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग गीदम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	18. कटेकल्याण	श्री देवेन्द्र आर्मो	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	19. परचेली	श्री मनीष साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	20. जंगमपाल	श्री राजु विजय टण्डन	सहायक अभियंता, ग्रा.यां.से. उप संभाग कटेकल्याण	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	21. तुमकपाल	श्री दीपक कुमार बघेल	सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य विभाग दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	22. बड़ेगुडरा	श्री दामोदर सिंह सिदार	कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	23. भूसारास	श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा	उपवनक्षेत्रपाल, सहायक परिक्षेत्र कटेकल्याण	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	24. बड़ेबेड़मा	श्री बृजलाल देवांगन	वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी बारसूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	25. नकुलनार	श्री सूरज कुमार पंसारी	उप संचालक कृषि दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	26. दुगेली	श्री अभय कुमार तिग्गा	प्रभारी अधिकारी छ.ग.मिनरल डेक्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	27. बड़ेबचेली	डॉ. सूधीर भगत	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	28. कोड़नार	श्री दीपू नायर के.एस.	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

29	29. किरन्दूल	श्री दीपरोशन बंजारा	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	30. पालनार	श्री प्रमेन्द्र समरथ	सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कुआकोण्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	31. समेली	श्री वरूण नागेश	महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	32. पेरपा	श्री शेखर कुमार भारद्वाज	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दंतेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	33. अरनपुर	श्री ऋतिष कुमार टण्डन	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गीदम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

32. जिला-बीजापुर

1	करकेली	श्री उग्रेश कुमार देवांगन	सहायक संचालक कृषि	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	बेदरे	श्री राजेन्द्र सिंह	उप अभियंता, छ०ग०ग्रा०स०वि०अभि० बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	कुटरू	श्री कांता मेश्राम	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कुटरू	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	गुदमा	श्री अजित सुंदर बिलुंग	महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	फरसेगढ़	श्री जगबीर सिंह सोरी	वनक्षेत्रपाल भैरमगढ़ वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	रानीबोदली	श्री गुरुप्रसाद नाग	उप अभियंता जनपद पंचायत भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	चिहका	श्री लिकेश नागवंशी	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	नेलसनार	श्री गैदसिंह कोड़ोपी	उप अभियंता, लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	मिरतुर	श्री भुनेश्वर कंवर	सहायक अभियंता, छ०ग०ग्रा०स०वि०अभि० बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	पिनकोण्डा	श्री पूनम सिंह	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	जांगला	श्री प्रताप कुशरे	उप संचालक कृषि	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	माटवाड़ा	श्री रामसूरत बेक	सहायक संचालक रेशम विभाग बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	भैरमगढ़	श्री अथर्व शर्मा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	मंगनार	श्री आशीष मेश्राम	उप अभियंता छ०ग०ग्रा०स०वि०अभि० नंबर बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	केशकुतुल	श्री पी के डोंगरे	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

16	पुसनार	श्री अशोक कुमार राज	उप अभियंता लोक स्वायं यांत्रिकी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	धनोरा	श्री एस एस राजपूत	उप संचालक पशु चिकित्सा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	नैमेड	श्री उमाशंकर वर्मा	सहायक अभियंता वि यां उपखण्ड लोकस्वायं यां बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	बीजापुर.1	श्री राहुल कुमार नाग	सहायक अभियंता लोक स्वायं यांत्रिकी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	बीजापुर.2	श्री सतानंद महिकवार	उप अभियंता छोग्रासोविअभि बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	पामलवाया	श्री रामचन्द्र राव	सहायक संचालक उद्यान विभाग बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	कोयार्डटपाल	श्री घनश्याम सिंह कश्यप	जिला प्रबंधक छोग्रा स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमि	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	चित्राकवाली	श्री दामोदर यालम	सहायक मत्स्य अधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	चेरपाल	श्री बिसोहा राम कोरोटी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	पालनार	श्री निलेश नेताम	उप अभियंता जल संसाधन बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	रेड्डी	श्री ओम ब्यास नेताम	सहायक श्रम पदाधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	पुसनार गंगालूर	श्री ओमप्रकाश भगत	उप अभियंता लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	गंगालूर	श्री विपिन कुमार चैबे	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	लिंगापुर	श्री हृषिकेश सिदार	जिला रोजगार अधिकारी रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	वाडला	श्री ए पी कुर्रे	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	भोपालपटनम	श्री दौलत राम बंजारे	उप अभियंता लोक स्वायं यांत्रिकी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	सेण्ड्रा	श्री कंडिक नारायण	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भोपालपटनम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	चेरपल्ली	श्री सुधीर वासम	उप अभियंता लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	अर्जुनली	श्री विनोद तिवारी	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	मदेड़	श्री प्रमोद सिंह तंवर	उप अभियंता लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

36	पेगड़ापल्ली	श्री अशोक कुमार मधुकर	उप अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	भद्राकाली	श्री राजकुमार उसेण्डी	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भोपालपटनम	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	कोत्तुर	श्री धनंजय देवांगन	सहायक अभियंता छ०ग०ग्रा०स०वि०अभि० नंबर ०२ बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	पामगल	श्री सतीश पटेल	उप अभियंता लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	मुरकीनार	श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर	उप अभियंता लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	मोदकपाल	डा अरविन्द मरावी	जिला आयुर्वेद अधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	आवापल्ली	श्री परमनानंद रामटेके	सहायक अभियंता छ०ग०ग्रा०स०वि०अभि० नंबर ०२ बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	तिम्मापुर	श्री हितेन्द्र नगोसिया	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना बासागुड़ा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	बासागुड़ा	डा० कन्हैया लाल पटेल	वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	तर्रेम	श्री दीपक कुमार नेताम	उप अभियंता जल संसाधन बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	उसूर	श्री बालेन्दु देवांगन	परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना उसूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	गलगम	श्री जितेन्द्र कुमार तारेन्द्र	उप अभियंता लोक स्वा० यांत्रिकी बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	पामेड	श्री वासुदेव सोनी	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	ईलमिड़ी	श्री संतोष कुमार गुप्ता	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उसूर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

रिजर्व टीम

1		श्री आर.के. सिन्हा	अनु. अधिकारी लोक निर्माण विभाग बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2		श्री भिरेन्द्र कुमार पालेकर	वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3		श्री सुमीत नाग	उप अभियंता जल संसाधन बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4		श्री गुलाम दस्तगीर	उप अभियंता जल संसाधन बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5		श्री कृष्ण कुमार नेताम	वनक्षेत्रपाल वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6		श्री अघनश्याम भगत	वनक्षेत्रपाल आवापल्ली वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

7		श्री राजकुमार पडोटी	वनक्षेत्रपाल इन्द्रावती टाईगर रिजर्व बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8		श्री दीपक कुमार बघेल	वनक्षेत्रपाल बीजापुर इन्द्रावती टाईगर रिजर्व	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9		श्री देवानंदन तिवारी	वनक्षेत्रपाल मद्देड़ इन्द्रावती टाईगर रिजर्व	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10		श्री तिलक राम जघेल	उप अभियंत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11		श्री अभिषेक हिरवानी	उप अभियंता, लोक निर्माण बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
12		श्री बी.के. ठाकुर	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13		श्री अरूण सकनी	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14		श्री हरीश कुमार नेताम	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15		श्री डालेन्द्र देवांगन	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

33. जिला-सुकमा

1	कुत्रा	श्री वीरेंद्र कुमार मरकाम	कार्यालपालन अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
2	कोर्दा	श्री सुखराम देवांगन	खण्ड शिक्षा अधिकारी सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
3	गादीरास	श्री सुनील कुमार भार्वे	रोजगार अधिकारी	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
4	रोकेल	श्री नीरज सिंह ठाकुर	उप.अभियंता जल संसाधन विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
5	पालेम	श्री जीवनलाल माहला	कार्यालपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
6	तोंगपाल	श्री विक्रम कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक डेबरीधूर कॉलेज तोंगपाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
7	कुमाकोलेंग	श्री चंद्रशेखर शोरी	सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
8	लेदा	श्री सदानन्द नाग	श्रम निरीक्षक सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
9	उरमापाल	श्री उदयराम सवनक	सहायक संचालक, मत्स्य विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
10	धोबनपाल	श्री अशोक सिंह	सहायक प्राध्यापक, शहीद डेबरूधर शासकीय महाविद्यालय तोंगपाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
11	तालनार	श्री जयनारायण भगत	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

12	कोण्डरे	श्री विवेक कुमार जाधव	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
13	फूलबगड़ी	श्री गुलशन कुमार साहू	वनक्षेत्रपाल सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
14	पोंगाभेजी	श्री सुनील गडेवाल	प्रभारी आई.टी.आई. सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
15	सोनाकुकारानार	श्री ओमप्रकाश मंडावी	सहायक मत्स्य अधिकारी, मत्स्य उद्योग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
16	नीलावरम	श्री जितेश कुमार बघेल	सहायक संचालक, उप संचालक कृषि सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
17	केरलापाल	श्री रवींद्र कुमार ताती	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
18	बुड़दी	श्री देवनाथ चंद्रवशी	सहायक अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
19	दोरनापाल	सुश्री दीक्षा वैद्य	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
20	पोलमपल्ली	श्री रमेश कुमार मंडावी	प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल पोलमपल्ली	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
21	चिंतागुफा	श्री रेशमलाल सूर्यवंशी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
22	चिंतलनार	श्री एस0 के0 दीप	खण्ड शिक्षा अधिकारी कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
23	लखापाल	श्री नारायण सिंह सलाम	वनक्षेत्रपाल कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी दोरनापाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
24	जगरगुण्डा	श्री गौरव सोनकिया	सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
25	सुरपनगुड़ा	श्री कृष्ण कुमार नाग	प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगरगुण्डा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
26	मनीकोन्टा	श्री शशिकान्त धुर्वे	सहायक प्राध्यापक शासकीय नवीन महाविद्यालय कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
27	एराबोर	श्री रवींद्र कुमार देवांगन	उप अभियंता एवं जिला प्रभारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
28	गंजेनार	श्री उत्तम प्रसाद	बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
29	भेजी	श्री अशरफ अहमद कुरैशी	वन क्षेत्रपाल कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
30	किस्टाराम	श्री निवास राव	सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
31	दुब्बाटोटा	श्री सी.एन. कंवर	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
32	मराईगुड़ा	श्री राम भरोस सोनवानी	वन क्षेत्रपाल कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

33	दुरमा	श्री रोहित कुमार ठाकुर	सहायक अभियंता जल संसाधन उप संभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
34	इंजरम	श्री मिथलेश कुमार भास्कर	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
35	कोन्टा	श्री यू० शेखर उबनपल्ली	प्राचार्य वर्ग-1 विकासखण्ड कोंटा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
36	गुम्मा	श्री वीरेंद्र खरे	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना छिन्दगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
37	सुकमा 01	श्री रितेश पैकरा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
38	सुकमा 02	सुश्री बिस्मिता पाटले	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
39	छिन्दगढ़	श्री रवि साव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
40	चिपुरपाल	श्री कैलाशनाथ मरकाम	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कृषि विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
41	पाकेला	श्री जीवनलाल टंडन	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
42	कुकानार-1	श्री वसीम खान	खण्ड स्त्रोत समन्वयक विकास खण्ड छिंदगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
43	कुकानार-2	श्री देवलाल कश्यप	सहायक मत्स्य अधिकारी, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
44	सौतनार	श्री हितेश नाग	सहायक संचालक उद्यान विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
45	सामसट्टी	श्री ओमप्रकाश सोनी	सहायक प्राध्यापक, शासकीय शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
46	जुनापानी	श्री कमलेश श्रीवास्तव	खण्ड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
47	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री ऋषिकेश सलाम	सहायक अधीक्षक, भू अभिलेख शाखा सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
48	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री मुकुंद लाल सलाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
49	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री रूपेश कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
50	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री हरिदयाल मिश्रा	सहायक अभियंता अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
51	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री ए० के० त्रिपाठी	वन क्षेत्रपाल	संबंधित लोकसभ क्षेत्र
52	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री ईश्वर सिंह बघेल	उप वन क्षेत्रपाल, कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी सुकमा	संबंधित लोकसभ क्षेत्र

53	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री इडिमा पोड़ियामी	उप वन क्षेत्रपाल, कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी दोरनापाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री महेश कुमार पासवान	उप वन क्षेत्रपाल, कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी कौंटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री नंदा माड़वी	उप वन क्षेत्रपाल, कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी दोरनापाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री जयवर्धन ठाकुर	खाद्य अधिकारी, खाद्य नागरिक आपूर्ति सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री सचिन कुमार श्रीवास	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री ठाकुरेश्वर प्रसाद महतो	उप अभियंता, कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री महावीर सिंह राजपूत	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री संजय कुमार देवांगन	प्राचार्य वर्ग-1, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोन्टा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री सुरेश बाबू देवउलूरी	सहायक प्राध्यापक शासकीय नवीन महाविद्यालय कौंटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री एच एस तोमर	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	रिजर्व सेक्टर अधिकारी	श्री दशमेश ध्रुव	उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

लोकसभा निर्वाचन 2024, उड़नदस्ता/ स्थैतिक निगरानी दल हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किये जाने हेतु

स क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं विभाग	विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी हेतु क्षेत्र
1	2	3	4

1. जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री निवास तिवारी	करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत भरतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री ऋषि कुमार	ए.डी.ओ. जनपद पंचायत भरतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री भूपेन्द्र राज	खाद्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राजेश शर्मा	अधीक्षक एकलव्य आवासीय विद्यालय जमथान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रमोद श्रीवास्तव	अभियंता, लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

6	श्री प्रवीण मिश्रा	खाद्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री कमल किशोर जायसवाल	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	ओम प्रकाश श्रीवास	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रतनदास मानिकपुरी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अलोक मिंज	ड्रग इस्पेक्टर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री अशोक सिंह	उप अभियंता नगर पंचायत खोगापानी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री कासी प्रसाद अग्रिहोत्री	कृषि उपज मण्डी मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री हीरूराम	डिप्टी रेंजर मनेन्द्रगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री संतोष श्रीवास्तव	ए.आर.आई.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री धरमजीत प्रसाद पटेल	स.व.स. संलग्न अधिकारी मनेन्द्रगढ़ वन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री संजय पाण्डेय	ARI नगर पंचायत झगराखाण्ड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री विजय प्रजापति	आ.ई.ओ.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री नन्द लाल साहू	संकाय सदस्य जनपद पंचायत खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री अनूप वर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक नगर निगम चिरमिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री सूर्यदेव सिंह	रेंजर वन परिक्षेत्र चिरमिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री हर्ष अहिरवार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री संतराम टेकाम	ए.आर.आई. नगर निगम चिरमिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री दीपक प्रधान	खाद्य निरीक्षक चिरमिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री रतन कुमार	सहा.राजस्व निरीक्षक नगर निगम चिरमिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री राम कुमार लकड़ा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री विक्रम मिरी	अधीक्षक प्री0मै0छात्रावास खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री कल्याण लोध	उप अभियंता लो.नि.वि.	
---	-----------------	----------------------	--

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	कु. दीक्षा पाण्डेय	खाद्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री शुभम पुरिया	उपयंत्री, जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री आशीष नामदेव,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	सुश्री निराली एक्का	उपअभियंता, जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री अनिल कुमार चैरसिया	सहा.संचालक मत्प विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अमित कुमार सेन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	सुश्री ममता भगत	खाद्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री विनोद सोनी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री जतीन देवांगन	सहायक खाद्य अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अशोक कुर्रे	CFO	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री विरेन्द्र सिंह परस्ते	ग्रा.कृषि वि.अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री खिलेश्वर सिंह बखरे	उप अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री भुनेश्वर सिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री कृष्ण कुमार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री अंजनी प्रताप सिंह	डिप्टी रेंजर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री ध्यान सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अपोल खलखो	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री दीवान सिंह	हास्टल अधीक्षक कमर्जी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री राजकुमार सेन्द्राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री देवशरण द्विवेदी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री गोविंद कंवर	उप अभियंता ब्रिज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री राम बिहारी लहरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री प्रदीप साहू	ADEO ज०प० खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री शांतनु प्रजापति	उपयंत्री, जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री ज्ञानदार भगत	मण्डल संयोजक खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री सूरज सिंह भगत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री विजय कुमार प्रजापति	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अजय कुमार कंगो	अधीक्षक प्री०मै० छात्रावास जरौंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री नीरज पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

2. जिला-कोरिया

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री एलेक्जेंडर पत्रा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री एस.के. आर्य	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्यालय वरिष्ठ, कृषि विस्तार अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री शौर्य कुमार ध्रुव	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटगोडी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जयंत कुमार पैकरा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रफुल्ल चौरे	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृ.निर्माण मण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री हर प्रसाद राजवाडे	व्याख्याता (प्रभारी प्राचार्य), शा.हा.से.स्कूल रामगढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री अशोक कुमार पटेल	वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, वेटनरी हास्पिटल खड़गवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री डोमेश्वर राम	व्याख्याता, शासकीय पॉलीटेक्निक कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री श्याम लाल राजवाडे	प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पोंडी-बचरा जिला कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री मनोज कुमार जगत	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री आजाद कुमार एक्का	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री गौरव कुमार मिश्रा	सहायक प्राध्यापक, शा० रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री शुभेन्द्र श्रीवास्तव	उप अभियंता नगर पालिका परिषद, शिवपुर-चरचा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	हेमन्त कुमार कुर्रे	व्याख्याता इले. इंजी. शासकीय पॉलीटेक्निक कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री पुनेश्वर पैकरा	सहायक प्राध्यापक, कृषि महा. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	शिव शंकर सिंह	सहायक संचालक, कार्या. उप संचालक कृषि बैकुण्ठपुर,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र,
17	श्री इरबल पैकरा	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र,
18	डॉ. सुनील कुमार सिंह	सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री प्रदीप तिकी	व्याख्याता, शासकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौली सोनहत,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री योगेश कुमार भूषण	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. व. कृ. वि. अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री रोहित सिंह	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. व. कृ. वि. अधिकारी सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री सुखीराम लकडा	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. व. कृ. वि. अधिकारी सोनहत,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री कल्पनाथ पैकरा	सहा. पशु चि. क्षे. अधि. कार्या. उप संचालक पशु चि. सेवाएं बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विजय शंकर सोनवानी	कृ. वि. अ., कार्या. अनु. कृ. अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री रामनिवास उपाध्याय	सहा. वि. वि. अधि. जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री चौधरी अमित सिंह	उप अभियंता पी. एम. जी. एस. वाई. जिला कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री शिवकुमार सिंह	प्रयोगशाला तकनीशियन, शा. रा- सिंहदेव स्ना. महा. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री दिनेश कुमार पटेल	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. व. कृ. वि. अ. सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री इन्द्रपाल वास्काले	ग्रा. कृ. वि. अ. कार्या. व. कृ. वि. अ. सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राम जूठन साहू	प्रभारी प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल केशगंवा सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत सोनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री अनिल मंथनवार	ट्रेसर शा.पॉलीटेक्निक बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राजेन्द्र लाल मिंज	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.व.कृ.वि.अ. सोनहत,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री ठाकुर प्रसाद पावले	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मनीष कुमार	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री विजय कुमार सोनी	व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. आंजोखुर्द	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री मूलचंद भैना	ग्रा.कृ.वि.अधि. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री मिथलेश चन्द्रा	ग्रामिव उद्यान विस्तार अधिकारीकार्यालय सहाय संचालक उद्यान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री एस.के.द्विवेदी	प्राचार्य, शा.उ.मा.वि.सौरगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री कलेश्वर सिंह	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री मनमोहन कुमार	प्रयोगशाला तकनीशियन, शा.रामानुजप्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महा.बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री अमित रंजन तिग्गा	प्रयोगशाला तकनीशियन, शा. नवीन महा. पटना,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री फूलचन्द एक्का	सहा.पशु चिकित्सा क्षेत्र अधि. पशु चिकित्सा सेवाएं बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री कलेश्वर सिंह	ग्रा.कृ.वि.अधि. कार्या.व.कृ.वि.अ.बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री कृष्ण कुमार यादव	ग्रा.कृ.वि.अ.कार्या. उपसंचालक कृषि बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री अलोईस खलखो	ग्रा.कृ.वि.अ.कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री तिवारी लाल बेक	सहा.पशु चि.क्षे.अधि. कार्या. उप संचालक पशु चि.सेवाएं बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री आशुतोष शर्मा	प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री आशीष कुमार मिंज	ग्रा.कृ.वि.अ.कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या. उप संचालक कृषि विभाग बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री धीरज कुमार,	तकनीकी सहायक, शा.पालीटेक्निक कोरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री त्रिभुवन सिंह	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री लक्ष्मण सिंह	ग्रा.कृ.वि.अ.कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री विपिन सिंह	प्रयोगशाला तकनीशियन, शा.नवीन कन्या महा.बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री शार्दुल विक्रम	ग्रा.कृ.वि.अधि. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री मुरलीधर झाप	ग्रा.कृ.वि.अधि. कार्या.व.कृ.वि.अ. बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री रामजीत राम	ग्रा.कृ.वि.अ. कार्या. अनु.कृषि अधिकारी बैकुण्ठपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3. जिला-सूरजपुर**उड़दस्ता प्रभारी**

1	श्री सुनील कुमार देवांगन	उप अभियंता, कार्या. का.पा.अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री नारेन्द्र कुमार सिंह	उप अभियंता,कार्या. का.पा.अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री पंकज कुमार तिग्गा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री हेमनारायण सिंह	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री एल्फिज बिराज लकड़ा	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग रामानुजनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री पंकज कुमार सिन्हा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री निवास जंजलवार	वरिष्ठ अधिकारी, एस.ई.सी.एल. विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री बृजभान पाण्डेय,	उप अभियंता, छ0ग0ग्रा0स0वि0अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री विपिन कुमार भगत	सहायक प्रबंधक, एस.ई.सी.एल. विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री रविन्द्र बडा	फोरमेन (मैक.) एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सुदर्शन	फोरमेन (मैक.) एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राजेन्द्र कुमार दान	फोरमेन (मैक.) एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री जाहिद हुसैन	फोरमेन (मैक.) एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

14	श्री नितीश कुमार गुप्ता	उपअभियंता, कार्या. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री धर्मजीत भगत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री राजकिशोर तिग्गा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री संजय कुमार मोदनवाल	उप अभियंता, जनपद पंचायत सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री श्याम लाल	उप अभियंता, कार्या. कार्य. अभियंता छ.ग.ग्रा.सड़क विकास अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री सुशील कुमार एक्का	उप अभियंता, कार्या. कार्य. अभियंता छ.ग.ग्रा.सड़क विकास अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री विनोद शर्मा	उप अभियंता, जनपद पंचायत सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री शकील अहमद	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री आदर्श शर्मा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री उत्तम ध्रुव	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग अम्बिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री मोहन पैकरा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री शिवनाथ राम राजवाडे	पी.सी.एस.ए. एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री मानसिंह साहू	पी.सी.एस.ए. एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री किशुन कुमार पैकरा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री बंसत जायसवाल	सहायक अभियंता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद् सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री निखिल कुमार यादव	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अजय कुमार पटेल	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग प्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री कमलेश कुमार भारद्वाज	प्रशिक्षण अधिकारी, शा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संतोष कुमार पाठक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री गणेश कुमार,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	श्री प्रवीर कुमार पाण्डेयन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री राघवेंद्र कुमार शुक्ला	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री कपिल देव सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री कन्हैया लाल	सहायक प्राध्यापक, शा.रे.र.मि.महा.वि. सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री पुनीत विजय टोप्पो	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि.रामानुजनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री दिलीप कुमार लकड़ा	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि.भैयाथान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रामकुमार	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि.भैयाथान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव	पी.सी.एस.ए., एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री महेन्द्र यादव	ओवरमेन, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री संतोष कुमार बाउरी	वरिष्ठ ओवरमेन, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री प्रेमदास केरकेट्टा	वरिष्ठ ओवरमेन, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री सुरेन्द्र कुमार	वरिष्ठ ओवरमेन, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री संदीप कुमार स्वर्णकार	प्रशिक्षण अधिकारी, शा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रेमनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री रमेश कुमार सूर्यवंशी	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 03, शा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रेमनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सुमित कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वि.खं. प्रेमनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री ऋषि कांत तिवारी	उप अभियंता, कार्या. कार्यपान अभियंता, ग्रा.यां.से. उपसंभाग प्रेमनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रदीप कुमार एक्का	उपअभियंता, कार्या. मुख्य नगरपालिका परिषद् सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री महेन्द्र राम एक्का	सहायक संचालक, उद्यान विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री अभ्यानंद शर्मा	वरिष्ठ अधिकारी (वित्त), एस.ई.सी.एल. विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री लोकेश राजवाड़े	उप अभियंता, कार्या.कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अजय कुमार जांगड़े	प्रशिक्षण अधिकारी, शा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	मो. फरहान खान	उप अभियंता, कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री योगेन्द्र कुमार मिश्रा	उप अभियंता, कार्या. कार्यपालन अभियंता ग्रा.स.वि. अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री रामनयन निर्मलकर	उप अभियंता, ग्रा.यां.से.उपसंभाग भैयाथान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री तारिक अंसारी	प्रबंधन प्रशिक्षार्थी, एस.ई.सी.एल. विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री नीरज कुमार गुप्ता	अधिकारी, एस.ई.सी.एल. विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री विनोद कुमार तिकी	उप अभियंता, ग्रा.स.वि. अभिकरण सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री महेश्वर प्रसाद	माईनिंग सरदार, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह	उप अभियंता, कार्या. कार्य. अभियंता ग्रा.यां.सेवा संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अमन जायसवाल	उप अभियंता, कार्या. का.पा. अभियंता, जल संसाधन विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री लखन राम	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग भैयाथान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री राजू प्रकाश जांगडे	उप अभियंता, कार्या. कार्य. अभियंता ग्रा.यां.सेवा संभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री नर्मदा सिंह	करारोपण अधिकारी, कार्या. जं.पं. सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री सबलसाय तिकी	उप अभियंता, कार्या. ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग ओड़गी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री धीरेन्द्र कुमार	सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय चाँदनी बिहारपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री विजय कुमार	करारोपण अधिकारी, कार्या. जं.पं. ओड़गी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री नितरंजन पैकरा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री गंगाराम साहू	करारोपण अधिकारी, जं.पं. सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री देवनिस बरवा	सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सांख्यिकी विभाग सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री अश्वनी कुमार पटेल	माईनिंग सरदार, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री पंकज गुप्ता	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उपसंभाग ओड़गी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री अभय नारायण सिंह	पी.सी.एस.ए., एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

31	श्री बृजेश कुमार नरेश	उप अभियंता, कार्या. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. प्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री संजीव कुमार सिंह	माईनिंग सरदार, एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री रामकुमार	स.आ.ले.परि. एवं करारोपण अधिकारी, कार्या. जं.पं. प्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री सायमन तिकी	सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री अनिल कुमार कुशवाहा	पी.सी.एस.ए., एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री लक्ष्मण दास महंत	फोरमेन (मैके.) एसईसीएल भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	डा. विकेश कुमार झा	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि.सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	डा. धनंजय पाण्डेय,	सहायक प्राध्यापक, शा. नवीन कन्या महा.वि. सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अनिल कुमार चक्रधारी	सहायक प्राध्यापक, शा. महा.वि.सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री शैलेश सिंह	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि.विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री नील कमल मिश्रा,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री कमलेश कुमार मार्को	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि. जरही (डुमरिया)	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री आशीष कुमार जायसवाल,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री दिलिप कुमार यादव,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अजय कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक, शा.महा.वि. सिलफिली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री चन्द्रप्रकाश जायसवाल,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सुनील कुमार शर्मा	सहायक फोरमेन विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राज कुमार सोनी	उप सर्वेक्षक, एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री जगदीश	सहा. फोरमेन (ईएंडएम/इलेक्ट्रिक), एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री अंकुश केरकेटा	सहायक प्राध्यापक शा.महा.वि.प्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री कमल उपाध्याय,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री रामबिलास राम दिवाकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि सूरजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

17	श्री विपुल कुमार पांडे	उप सर्वेक्षक, एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री राजमणि पटेल	फोरमैन प्रभारी (निर्वाचित) एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री संतोष जयसवाल	सहा. फोरमैन (ईएंडएम/इलेक्ट्रिक), एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री नित्य कुमार एक्का	सहा. फोरमैन (ईएंडएम/इलेक्ट्रिक), एसईसीएल विश्रामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

4. जिला-बलरामपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री चीतेश कुमार देवांगन	तहसीलदार, रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री चमनु राम	आरक्षक-558 थाना-चलगली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री त्रिलोचन मिर्चे	मतस्य निरीक्षक, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री श्याम सुन्दर आयाम	आरक्षक-799, थाना-चलगली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री सीताराम	वनरक्षक-रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सलीम एक्का	आरक्षक-846, थाना-चलगली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री रामगरीब राम	वनपाल-रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री निरंजन सिंह	आरक्षक-746, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	डॉ०मोहन भारद्वाज	नायब तहसीलदार, चलगली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री आशीष तिकी	आरक्षक-419, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री घनश्याम शर्मा	वनपाल, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री नरसिंह नेताम	आरक्षक-1160, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	सुश्री राँकी एक्का	तहसीलदार, डौरा-कोचली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री जगदीश सिंह	आरक्षक-276, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राजाराम लहरे	नायब तहसीलदार, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री भूपत सिंह	आरक्षक-748, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री प्रमोद लकडा	वनपाल-बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अनवेश केरकेट्टा	आरक्षक-1216, रक्षित के0बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री जयप्रकाश डडसेना	मण्डल संयोजक, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री दुर्गाराम नागवंशी	आरक्षक-587, चौकी-रनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	मण्डल संयोजक, रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री कुलदीप कुजूर	आरक्षक-20, चौकी-रनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री अनिल तिवारी	बी0आर0सी0 बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री संदीप टोप्पो	आरक्षक-543, चौकी-रनहत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री प्रदीप कुजूर	वनपाल-रामानुजंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री संतोष एक्का	आरक्षक-1154, थाना-पस्ता	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री प्रशांत राजवाड़े	खाद्य निरीक्षक, रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री जवाहर तिकी	आरक्षक-1138, थाना-पस्ता	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री देवधारी धुर्वे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि0रामानुजंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री संजय टोप्पो	आरक्षक-963, थाना-पस्ता	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

31	श्री अनुग्रह केरकेट्टा	नायब तहसीलदार, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री राजेन्द्र कुजूर	आरक्षक-497, चौकी-डौरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री अनिल तिग्गा	पटवारी, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री पवन जगत	आरक्षक-1184, चौकी-डौरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री नरेन्द्र कुमार कवर	नायब तहसीलदार, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री सचित कुशवाहा	आरक्षक-992, चौकी-डौरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री दीपक बड़ा	कृषि विस्तार अधिकारी, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री रामू प्रसाद तिवारी	प्रधान आर0-122, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री भानू प्रताप सिंह	खाद्य निरीक्षक, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री अनिल यादव	प्रधान आर0-444, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री प्रदीप मानकर	सहायक विकास विस्तार अधि0 कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री चेतन मारकण्डे	एपीसी, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री राहुल दूसी	खाद्य निरीक्षक, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री संतोष आर्या	प्रधान आरक्षक-06, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री निखिलेश घुर्ने	खाद्य निरीक्षक, राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री सोनेर साय लकड़ा	प्रधान आर0-204, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री सत्येन्द्र परमार	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधि0कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री कुशल प्रसाद भगत	प्रधान आर0-347, 6वीं वाहिनी कोरंथा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री शिव कुमार जायसवाल	वनपाल रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अवधेश कुशवाहा	आरक्षक-843, चौकी-बलंगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री पियुष पटेल	वनरक्षक, बलंगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री मानसाय सरोता	आरक्षक-705 चौकी बलंगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री अंजनी सोनवानी	वनरक्षक, बलंगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री ठाकुर राम	आरक्षक-641, चौकी बलंगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री एस0के0दास	सहकारी निरीक्षक, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री इन्द्रेण राम	आरक्षक-851, थाना-रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री राजकुमार सिंह	वनरक्षक-रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री कृष्णा मरकाम	आरक्षक-954, थाना-बसंतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री मनमोहन सिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि0वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री टेकचन्द वर्मा	आरक्षक-1069, थाना-रघुनाथनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रामसिंगार सांडिल्य	वनपाल-वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री सफेन्दर सिंह	आरक्षक-885, थाना-बसंतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री जयपाल सिंह कवर	खाद्य निरीक्षक, वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

16	श्री रामप्रसाद भगत	आरक्षक-924, थाना-बसंतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री ननबोधन राम	वनपाल-वाडूफनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री नीलकमल टंडन	आरक्षक-918, थाना-बसंतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री शिवकुमार दूबे	वनपाल-सनावल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री ससतु राम	आरक्षक-318, थाना-सनावल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री अनुप गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि०रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री बलदेव राम	आरक्षक-560, थाना-सनावल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री राजू पोया	राजस्व निरीक्षक-डिण्डो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री सोहन लाल	आरक्षक-786, थाना-सनावल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री सुरेश सिंह	सहा.आ.ले.परि.एवं क.अ.जन.पं.रामचन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री महेन्द्र सिंह	आरक्षक-1089, चौकी-विजयनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री रविशंकर कुजूर	वनरक्षक-धमनी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री कुलदीप यादव	आरक्षक-713, चौकी-विजयनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री रत्न सिंह	वरिष्ठ करारोपण अधि.रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री संतोष गुप्ता	आरक्षक-770, चौकी-विजयनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री आलोक मनमीत तिकी	राजस्व निरीक्षक-रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री चक्रधर सिंह	आरक्षक-1187, थाना-बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री सत्यभान सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि०बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री सचिन्द्र पाल सिंह	आरक्षक-1000, थाना-बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री नरेश कुमार पैकरा	वनरक्षक-रामानुजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री कुलदीप केरकेट्टा	आरक्षक-958, थाना-बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री विजय लकड़ा	पटवारी, महाराजगंज	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री सुकेन्द्र खेस	आरक्षक-669, चौकी-गणेशमोड़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री संतोष कवर	खाद्य निरीक्षक, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री विपिन एक्का	आरक्षक-774, चौकी-गणेशमोड़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री परशुराम भगत	राजस्व निरीक्षक, बलरामपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री सुरेन्द्र सिंह मरकाम	आरक्षक-884, चौकी-गणेशमोड़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री रोहित कुमार पैकरा	मतस्य निरीक्षक, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री भीम तिकी	आरक्षक-642, थाना-सामरीपाठ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री आशुतोष टोप्पो	पटवारी, गोपातू	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री अरविन्द सोनवानी	आरक्षक-870, थाना-सामरीपाठ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री सन्तू साय	पटवारी, सबाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री मुकेश कुजूर	आरक्षक-929, थाना-सामरीपाठ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	श्री फिलिप एक्का	बी०आर०सी०कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	श्री बालेश एक्का	आरक्षक-807, थाना-राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	श्री प्रीतम भगत	पटवारी, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	श्री जनकधारी सेन	आरक्षक-449, थाना-राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	श्री दुष्यंत भगत	पटवारी, कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	श्री भीखराम कुजूर	आरक्षक-570, थाना-राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	श्री हरिशचन्द्र यादव	वनपाल राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

56	श्री मनोज लकड़ा	आरक्षक-428, चौकी-बरियों	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	श्री पप्पू सोनी	पटवारी, राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	श्री अजमेरू हसन	आरक्षक-594, चौकी-बरियों	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	श्री अमरजीत भगत	पटवारी, राजपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	श्री सुबोध पैकरा	आरक्षक-719, चौकी-बरियों	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	श्री पुरन्दर यादव	पटवारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	श्री राजूराम	आरक्षक-1025, पुलिस सहा0केन्द्र-डीपाडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	श्री सम्पत राम बघेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	श्री धनेश्वर टोप्पो	आरक्षक-1078, पुलिस सहा0केन्द्र-डीपाडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	श्री नारायण साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	श्री विनोद यादव	आरक्षक-1084, थाना-शंकरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
67	श्री रामप्रताप सिंह	वनपाल, चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
68	श्री बंधेश्वर राम	आरक्षक-823, थाना-चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
69	श्री सुरेश सरदार	उप वनक्षेत्रपाल चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
70	श्री गौकर्ण सिंह मराबी	आरक्षक-1205, थाना-चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
71	श्री ओमप्रकाश भगत	ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधि0 कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
72	श्री राजेन्द्र लकड़ा	आरक्षक-658, थाना-चांदो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
73	श्री राकेश जायसवाल	ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधि0 कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
74	श्री हेमन्त तिकी	आरक्षक-02, थाना-कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
75	श्री अशोक कुजूर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि0 कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
76	श्री चन्द्र साय तिकी	आरक्षक-145, थाना-कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
77	श्री अविनाश निकुंज	पटवारी, जिगनिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
78	श्री मूलधर राम पैकरा	आरक्षक-आरक्षक-528, थाना-कुसमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5. जिला-सरगुजा

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री ईश्वर चन्द यादव	प्रभारी तहसीलदार लुन्डा, धौरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री जयनाथ राम	प्रभारी आरक्षक 292, थानाधौरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अशोक सिंह	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राजेंद्र राम	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. रघुनाथपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संजय कुमार	प्र.आर.960 चौकी रघुनाथपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अमर सिंह कंवर	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री शिवमोहन धुसिया	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. लुन्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री रामकरण राजवाड़े	सहा.उप निरीक्षक थाना लुन्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अमरेश कुमार पाण्डेय	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री अभिषेक दुबे	सहा.उप निरीक्षक थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री सोनू राम दीवान	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री निखिल श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री सारके खेस	प्रभारी आरक्षक 270, थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री छोटे लाल पांडव	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री राजनन्दन राजवाडे	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. अजिरमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री विनोद बारी	प्रभारी आरक्षक 424, थाना गांधीनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री छेरतु राम	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्रीमती अंकिता पटेल	नायब तहसीलदार दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री बबलू कुजूर	सहा.उप निरीक्षक थाना मणिपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री जगत राम लकड़ा	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री संजय कुमार	नायब तहसीलदार मैनापाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री छत्रपाल सिंह	प्रभारी आरक्षक 586, थाना बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री गणेश कुमार कसेर	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री कृष्ण कुमार कंवर	नायब तहसीलदार मैनापाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री रामप्रसाद निकुंज	प्रभारी आरक्षक 870, थाना कमलेश्वरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री विरेन्द्र कुमार सिंह	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री रामप्रकाश प्रजापति	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री चंद्रप्रताप सिंह	सहा.उप निरीक्षक थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री दयाशंकर सोनवानी	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री तेजपाल कुजूर	ग्रा.कृ.वि. अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री सतीश उपाध्याय	प्रभारी आरक्षक 137, थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सुशील एक्का	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री गंगाराम सिंह	ग्रा.उद्द्यान.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री संतोष गुप्ता	प्रभारी आरक्षक 97 रक्षित केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री सुनील कुमार अम्बस्ट	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री शिवेन्द्र सिंह नेताम	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री कृष्णमुरारी शर्मा	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री सबल साय एक्का	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. धौरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रुबेन मिंज	प्रभारी आरक्षक 254 रक्षित केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री सूरज विश्वास	वनरक्षक परिक्षेत्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री आलोक भगत	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. गगौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री विरेन्द्र बंजारे	प्रभारी आरक्षक 155 महिला थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री विजय पैकरा	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

18	श्री संदीप कुमार	वाणिज्यिक कर निरीक्षक राज्यकर सरगुजा वृत्त	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री राजेश चतुर्वेदी	प्रभारी आरक्षक 939 आजाक थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री बुधन राजवाड़े	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री रोशन कुमार भगत	वाणिज्यिक कर निरीक्षक राज्यकर सरगुजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री राजन तिकी	प्रभारी आरक्षक 645 आजाक थाना अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री सगवा राम	वनपाल उड़नदस्ता अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री खेमराज चौहान	ग्रा.कृ.वि. अनु.वि. अधिकारी अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री संजय लकड़ा	प्रभारी आरक्षक 457 थाना मणिपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री लोचन प्रसाद	वरिष्ठ रेशम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री अरुण कुमार गुप्ता	सहा.उप निरीक्षक थाना लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अशोक सिन्हा	उपवन क्षेत्रपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री सत्यपाल एक्का	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री जयप्रकाश अग्ने	प्रभारी आरक्षक 232 चौकी कुन्नी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री चंद्रकांत भगत	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि उदयपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री कृष्णपाल सिंह	प्रभारी आरक्षक 208 चौकी केदमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री संजय तिकी	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री गंगाप्रसाद मिश्रा	राजस्व निरीक्षक रा.नि.म. अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री प्रभात सिंह	सहा.उप निरीक्षक रक्षित केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री प्रेम सिंह	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री अरविन्द गुप्ता	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री रवि सिंह	प्रभारी आरक्षक 228 थाना लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री राकेश कुमार सिंह	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री पवन पाण्डेय	वाणिज्यिक कर निरीक्षक सरगुजा वृत्त	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री मुक्ति लाल तिकी	प्रभारी आरक्षक 107 थाना लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री राहुल नाग	वनरक्षक वनपरिक्षेत्र लखनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री विजय प्रकाश निकुंज	ग्रा.उद्द्यान.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री अनिल कुमार सिंह	सहा.उप निरीक्षक थाना गांधीनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री बुधन राजवाड़े	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री नरेश प्रसाद साहू	ग्रा.उद्द्यान.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	श्री चंद्रप्रकाश टंडन	प्रभारी आरक्षक 476 थाना गांधीनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	श्री सगवाराम	वनपाल उड़नदस्ता अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	श्री शैलेश विश्वकर्मा	वरिष्ठ ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	श्री मदगोपाल परिहर	प्रभारी आरक्षक 613 थाना गांधीनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	श्री रामेश्वर साय	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

55	श्री शिवमन कोशिक	सहा.उप निरीक्षक थाना बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	श्री चन्द्र बहादुर सिंह	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	श्री जसवन्त सिंह पैकरा	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	श्री राजीव कुमार कुजूर	प्रभारी आरक्षक 689 रक्षित केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	श्री पांडो बिशी	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	श्री जुगेश्वर सिंह	आरएईओ, कृषि कार्यालय बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	श्री इसदोर एक्का	प्रभारी आरक्षक 255 रक्षित केंद्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	श्री बृजमोहन कुशवाहा	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	श्री मनरूप तिग्गा	आरएईओ, कृषि कार्यालय मैनापाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	श्री सुमन कुजूर	प्रभारी आरक्षक 398, थाना बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	श्री शिव भगत	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	श्री बोध शंकर कुर्रे	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
67	श्री देवशरण सिंह	प्रभारी आरक्षक 226, थाना बतौली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
68	श्री नवीन प्रताप सिंह	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
69	श्री संतोष कुमार भगत	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
70	श्री दिलसाय कुजूर	सहा.उप निरीक्षक थाना दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
71	श्री सुदामा विश्वकर्मा	वनरक्षक सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
72	श्री शैलेन्द्र ऋषि	आरएईओ, कृषि कार्यालय सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
73	श्री नारायण सिंह	सहा.उप निरीक्षक थाना सीतापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
74	श्री बुधन राजवाड़े	वनपाल सरगुजा वनमंडल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
75	श्री ब्रिजेश ऋषि	आरएईओ, कृषि कार्यालय मैनापाट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
76	श्री नारायण चौधरी	प्रभारी आरक्षक 332, थाना दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
77	श्री सगवा राम	वनपाल उड़नदस्ता अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
78	श्री दुर्गेश कुमार गुप्ता	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
79	श्री मनीजर राम	प्रभारी आरक्षक 266, थाना दरिमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
80	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	वनरक्षक वनपरिक्षेत्र अंबिकापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

6. जिला-जशपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	रोहित कुमार त्रिपाठी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	करण राठिया	नायब तहसीलदार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	गोविन्द सोनी	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	अजय तिकी	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	राजीव कुमार सोनी	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	विनीत तिग्गा	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	सतीश कुमार भगत	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	भूपेन्द्र साय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	राजेश खुटे	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री लालदेव राय भगत	प्र० मण्डल संयोजक, तपकरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री रंजीत राम टोप्पो	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री रोशन दानियल धानसोन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री प्रभाकांत सरोज	बी० आर० पी० आई० फरसाबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री नरसिंह राम भगत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, साजबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री रत्यो राम सक्सेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, भेलवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री श्यामलाल साहू,	विकास खण्ड स्तरीय समन्वयक, फरसाबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री नरेश कुमार पटेल	कृषि विस्तार अधिकारी, कोनपारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री पीताम्बर पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्रीमती उमा सिंह	तहसीलदार पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू	राजस्व उप निरीक्षक, नगर पंचायत पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री नितिन शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री गणेश सिदार	तहसीलदार बागबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री घुनेश्वर साय पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बागबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री सुन्दर सिंह चौहान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रेडे	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री डा० शेख मो० एजाज हाशमी	नायब तहसीलदार कांसाबेल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	मिथुन कुमार चौधरी	कृषि विकास अधिकारी कांसाबेल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	मुनेश्वर साय पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कांसाबेल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	अजय कुमार चौबे	बी. आर. सी. जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्याम कुमार राठिया	उद्यान विस्तार अधिकारी जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	संजय मिंज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	जागेश्वर लाल भगत	बी. आर. पी. मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	गोविन्द राम चौहान	ग्रामीण विस्तार अधिकारी मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	राजेन्द्र प्रसाद भगत	ग्रामीण विस्तार अधिकारी मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	बसंत कुमार धिरही	मंडल संयोजक बगीचा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	अभिनित कुमार सिंह	मत्स्य निरीक्षक बगीचा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	मनीष कुमार गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बगीचा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	तिलक श्रीवास	बी. आर. पी. बगीचा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	अविनाश बेक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पंडरापाठ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	जितेन्द्र सिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरधापाठ	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	सर्वेस सिंह	बी.आर.पी. मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	भूपेन्द्र नारायण सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	विपिन प्रकाश भगत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	एस.एल.पाटीदार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	व्ही.के. जाटव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	राजेन्द्र यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जशपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री ओंकार बघेल	नायब तहसीलदार, दुलदुला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री मुखदेव प्रसाद यादव,	तहसीलदार, कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री तोष कुमार सिंह	नायब तहसीलदार, फरसाबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री ओंकार यादव	अतिरिक्त तहसीलदार, कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्रीमती पूनम रश्मि तिग्गा	नायब तहसीलदार, कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री प्रदीप कुमार राठिया	अनुविभागीय अधिकारी, फरसाबहार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री धर्मेन्द्र सिंह	उपवन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र दुलदुला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री अरूण कुमार बंजारे	नायब तहसीलदार, कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री सतीश कुमार सिंह	उपवन क्षेत्रपाल, वन परिक्षेत्र कुनकुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री आलोक टोप्पो	खाद्य निरीक्षक, पत्थलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री घनश्याम राम	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्रीमती कमलेश्वरी देवी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्रीमती हितेश साहू	मतस्य निरीक्षक, पत्थलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री तेजराम भगत	प्रभारी आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	सुश्री मरियम पन्ना	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

34	श्री राजा राम लकड़ा	पंचायत निरीक्षक , जनपद पंचायत पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री गिरवर दास	सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री संदीप यादव	सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत पथलगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7. जिला-रायगढ़

उड़दस्ता प्रभारी, स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	गरीबसाय कुजूर	उप अभियंता जनपद पंचायत लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	संतोष कुमार सिदार	उप वन क्षेत्रपाल तमनार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	लाल साय भगत	वन क्षेत्रपाल तमनार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	संजय कुमार लकड़ा	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	राकेश कुमार पटेल	उप अभियंता जनपद पंचायत लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	करण सिंह राठिया	राजस्व निरीक्षक तहसील लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	मनीष कुमार घोरे	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	प्रमोद कुमार गवेल	सहायक प्राध्यापक किरोड़ीमल शा कला एवं विज्ञान महां रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	भरत सिंह धोबा	वन क्षेत्रपाल बाकारुमा लैलूंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	शंकर दयाल शर्मा	उप निरीक्षक कृषि उपज मंदी रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	लक्ष्मी नारायणप पटेल	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	ब्रीज गोपाल मिश्रा	वन क्षेत्रपाल रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	चेतन सिदार	वाणिज्य कर निरीक्षक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	सुभ करण सिंह	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	संजीत भगत	उप निरीक्षक कृषि उपज मंदी रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	दीक्षा साहू	वाणिज्य कर निरीक्षक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	गौरव पटेल	वाणिज्य कर निरीक्षक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	नन्द राम पटेल	राजस्व निरीक्षक तहसील रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	सुरेश कुमार पटेल	राजस्व निरीक्षक तहसील रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	राम बहादुर सिंह गोंड	राजस्व निरीक्षक तहसील पुसौर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	गणेश राम रात्रे	राजस्व निरीक्षक तहसील रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	दिनेश कुमार कोशले	सहायक प्राध्यापक किरोड़ीमल शास कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	जयशंकर चौहान	मंडल संयोजक आदिवासी विकास रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

24	अजय प्रताप सिंह	उप अभियंता केलो परियोजना रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	दुष्यंत कुमार भोय	शासकीय एम ज़ी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	सचिन कुमार गुप्ता	उप अभियंता मु का पा अ जनपद पंचायत खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	अमित कुमार मांझी	उप अभियंता कार्या अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	रमेश कुमार मनहर	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	रेख लाल सिन्हा	उप अभियंता नगर पालिका परिषद् खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	गोविंद सिंह राठिया	सहायक प्राध्यापक नवीन शासकीय महाविद्यालय चपले	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	दिलीप कुमार पटेल	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	ब्रिजेश कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक तहसील खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	दीपक मरावी	उप अभियंता अधी अभि मि मा बा म खरसिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	समीर कुमार बिस्वाल	उप अभियंता मुख्य कार्या पा अधी जनपद पंचायत धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	रामकृष्ण पटेल	उप अभियंता कार्या अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	दयाराम सोनवानी	वन क्षेत्रपाल कार्या वन परि धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	आशीष राठिया	पशु चिकित्सक रायगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	संतोष कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	सुखदेव प्रसाद राठिया	उप वन क्षेत्रपाल छाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	अक्षय कुमार सिदार	सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	विजय भगत	उप वन क्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र घरघोड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	सरोज पटेल	उप अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास अभि धरमजयगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

8. जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री सुदर्शन कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री प्रेमदीप तिकी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री परसराम पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

4	श्री युगल किशोर नायक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री उदय सिंह मालाकार	व्याख्याता, शास. बालक उच्च. माध्य. विद्या. सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री मुरलीधर चौधरी	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्या. तौसीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री शिवनारायण पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री हबीलाल चौधरी	सहा. आंत. ले. परी. अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री जयराम पटेल	सहा. आंत. ले. परी. अधिकारी, जनपद पंचायत बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री पवन कुमार नायक	व्याख्याता, शास. सेजस बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री रतिराम सिंह	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री प्रवीण कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री चैतन प्रसाद पटेल	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्या. कपरतुंगा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री भरत लाल देवांगन	व्याख्याता, शास. सेजस सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री लक्ष्मण राजपूत	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्या. कोसीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री अशोक कुमार दासे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री संजय कुमार देवांगन	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री जगमोहन यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री नंदकिशोर पटेल	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्या. दुरुग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री शास्त्रज्ञ कुमार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री रामगुलाल साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री सागर प्रसाद वर्मा	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री मेहनत सिंह कंवर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री लिकेश कुमार मार्कण्डेय	तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत, बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री विक्रम कपूर	उप अभियंता, नगर पंचायत बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

26	श्री विजय कुमार कंवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री कंवल सिंह सारथी	मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	श्री अमित कुमार भोय	सहायक प्राध्यापक, शा. शशिधर पंडा महाविद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री मनीष कुमार खांडेकर	सहायक प्राध्यापक, शा. शशिधर पंडा महाविद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री जागेश्वर सिदार	सहायक प्राध्यापक, शा. शशिधर पंडा महाविद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री अनुप टोप्पो	सहायक प्राध्यापक, शा. शशिधर पंडा महाविद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री रविशंकर राठोर	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री निरंजन चौधरी	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री भुवनेश्वर सिंह तंवर	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री विभीषण साहा	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सांकरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री संतोष दास	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सांकरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री धनंजय बरेठ	सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री हेमचंद्र गर्तिया	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय हिर्री	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री हुलेश राठोर	सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री देवधर भोय	सहायक प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय बरमकेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री शिव पटेल	व्याख्याता, शास. कन्या उच्च. माध्य. विद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री प्रकाश कुमार जायसवाल	व्याख्याता, शास. सेजस विद्यालय सारंगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री सोमसाय भगत	व्याख्याता, शास. सेजस विद्यालय डोंगरीपाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मनोहर लाल साहू	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय उच्चभिट्टी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री छतराम निराला	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय छिंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री संतोष कुमार शुक्ला	सहायक प्राध्यापक, शा. राजमहंत नयनदास महिलांगे महाविद्यालय भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

20	श्री रविकांत जायसवाल	सहायक प्राध्यापक, शा. राजमहंत नयनदास महिलांगे महाविद्यालय भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	डॉ. कमलेश कुमार पटेल	सहायक प्राध्यापक, शा. राजमहंत नयनदास महिलांगे महाविद्यालय भटगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री दीनानाथ साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री विजय आनंद कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री कृष्ण कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री राजेश घृतलहरे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री कृष्ण कुमार साहू	व्याख्याता, शास. उच्च. माध्य. विद्यालय सरसीवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री अजीत कुमार पटेल	विकासखंड स्तरीय शैक्षणिक समन्वयक, रा.गा.शि. मि. बिलाईगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9. जिला-कोरबा

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री हुंकार सिंह सिदार	श्रम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्रीमती करूणा मैत्री	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री कन्हैया लाल	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्रीमती मंजूलता कुर्रे	श्रम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	सुश्री नूतन देवांगन	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री जयपाल सिंह	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्रीमती सरस्वती बंजारे	श्रम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री बी.सी. साहू	श्रम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री खेलन प्रसाद सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री मिथलेश कंवर	ग्रा.उ.वि.अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सुरेश कुर्रे	श्रम निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री अश्वनी राठौर	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	टिकेश्वरी पाटिल	मत्स्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	देवेन्द्र कुमार राजन	ग्रा.उ.वि.अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राजेश चैहान	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्रीमती रजनी कश्यप	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री विकास गुप्ता	ग्रा.उ.वि.अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री पुरषोत्तम धाकड़े	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री सर्वेश पटेल,	ग्रा.उ.वि.अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	सुश्री रीना महिपाल	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री फलेश्वर सिंह तंवर	मत्स्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	सुश्री अंजलि पैकरा	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री प्रवीण राजपूत	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

24	श्री कमल किशोर सिंह	मत्स्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	ज्योति	मत्स्य निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री वेदराम कौशिक	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री योगेन्द्र बैस	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री नंद किशोर सिंह	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री नीलकांत यादव	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री मनीष कुमार जायसवाल	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री कमलेश साहू	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री चक्रधर सिदार	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री आशीष सोनी	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री रविन्द्र जायसवाल	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री विमल कुमार भगत	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	डी.पी.गर्ग	ग्रा.कृ.वि.अधि.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री मेम सिंह कंवर,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री हेतराम कश्यप	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री आर. के. टण्डन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री एल्वीन राबर्ट बारा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री आर.एस.मरावी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री राम प्रसाद महतो	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री रामलाल कंवर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री लालमन सिंह मसराम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री नवल सिंह	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री झुगलु सिंह मरकाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री हरिसिंह कंवर	कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री हीरा लाल देवांगन	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री कान्ता साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री फिरत राम पात्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री देवव्रत आदित्य	राजस्व उप निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री सत्यप्रकाश राठौर	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री सुनील कुमार वर्मा	वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री संजू कुमार पाटले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री सुमित कुमार रजवाड़े	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री राजकुमार ताड़िया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री इन्द्रजीत भारद्वाज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री राम लाल रविन्द्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री रजनीश सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री डी के नोरगे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री हेमंत कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री सुशील पाटले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री एल. एन. पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री अर्जुन सिंह मरावी	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री बृजेन्द्र सिंह बघेल	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री रितेश कुमार शुक्ला	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री बोधराम पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री बी.एल. पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री राहुल कौशिक	स्वच्छता निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री बी. एस. मरावी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	सरसिज कुमार सोनी	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री राजेश खुसरो	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री मनोज कुमार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री मुकेश लहरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री जितेन्द्र पुहुप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	शेषमणी प्रताप सिंह	सहा. विकास विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री आर. के नेटी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री मनीष कुमार डिक्सेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री टी.एस. मरावी	सहा. आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधि.,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री सी.बी. सिंह	सहा. आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधि.,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10. जिला-गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री रवि भोजवानी	नायब तहसीलदार, मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	डॉ. संजय शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेन्ड्रा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री गिरीश निम्बालकर	नायब तहसीलदार, सकोला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री संजय वर्मा	बी. आर. सी. पेन्ड्रा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री एस एस आर्मी	अनुविभागीय कृषि अधिकारी गौरेला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राजू यादव	खनिज निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री के पी कतिया	उप अभियंता जल सभ्सधन उप सभाग मरवाही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री सुधीर सिंह पैकरा	सहायक संचालक कृषि	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11. जिला-बिलासपुर

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री विवेक देवांगन	वन क्षेत्रपाल, कोटा परिक्षेत्र कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री चन्द्रभान पटेल	श्रम निरीक्षक, कार्यालय सहायक श्रमायुक्त बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री विशेष कुमार व्यास	श्रम निरीक्षक सहायक श्रमायुक्त बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री मान सिंह श्याम	वन परिक्षेत्र अधिकारी, कोटा परिक्षेत्र, सामाजिक वानिकी वनमण्डल कोनी बिलासपुर मोबा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रहलाद यादव	सहायक वन संरक्षक कार्यालय वन मण्डल अ. बिलासपुर वन. बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सुन्दर सिंह ध्रुव	वन विस्तार अधिकारी बिल्हा इकाई कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामाजिक वानिकी वनमण्डल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री राधेश्याम जैन,	वनक्षेत्रपाल कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कार्यआयोजना वनमण्डल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री चैतन्य प्रकाश	बाजपेयी, अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री देव सिंह मरावी	वन क्षेत्रपाल बेलगहना कार्यालय बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री राकेश कुमार पटेल	कार्यपालन अभियंता गृह निर्माण मण्डल विद्युत बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सचिन शर्मा,	स.व.सं. कार्यालय वनसंरक्षक कार्य आयोजना वृत्त बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री निश्चल चंद्र शुक्ला	स.व.सं. बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री वेदप्रकाश सोनवेर	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री राहुल मेहरा	श्रम निरीक्षक कार्यालय सहायक श्रमायुक्त बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री सुशील राम भगत	सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय उप पंजीयक बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री मनीष वर्मा	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री राजेश कुमार गुप्ता	अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर संभाग बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री मुवीश लहरे	उप अभियंता कार्यालय क्रियान्वयन इकाई छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री प्रकाश नारायण श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन सर्वेक्षण उप संभाग, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री घनश्याम सिंह वर्मा,	सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री मनीष श्रीवास्तव	सहायक अभियंता (रू.), कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री चन्द्रभान सिंह	सहायक अभियंता (रू.), कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संतोष कुमार सिंह	सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री परमजीत राय,	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग बेलगहना	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री महेश पाण्डेय,	उप वन क्षेत्रपाल कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	सुमित चौहान	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग खोगसरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री कमलेश्वर सिंह	सहायक अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग क्रमांक-02 कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री हिमांशु खलखो	उप अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री रामकुमार नेताम	उप वनक्षेत्रपाल रतनपुर,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री अमितेष राज,	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री विवेश यादव,	उप अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री प्रमोद कुमार राजपूत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय तेन्दुवा, कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री देवेन्द्र सिंह	उप अभियंता, जनपद पंचायत तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री महित रंगदारी	उप अभियंता जनपद पंचायत तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री जे.एम.जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय छहरिया विकासखण्ड तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	श्री सर्वेश कुमार ब्राह्मण	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय जूनापारा विकासखण्ड तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री अशोक कुमार प्रसाद	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय सिंघनपुरी विकासखण्ड तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री के.पी. डहरिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय बांधा विकासखण्ड तखतपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री आशीष पाण्डेय	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री ओ. पी. डहरिया मोबा. 9893008307	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सकरी, कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री भूषण पैकरा	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री देवेन्द्र कुमार पाटिल	सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री चंदशेखर कश्यप	उप अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री सुजीत पाढी	लोक स्वा. यांत्रिकीय मेकेनिकल खण्ड बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री ब्रजेश कुमार पेन्द्रो	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय परियोजना प्रबंधक एडीबी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सड़क परियोजना बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री अजय कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय परियोजना प्रबंधक एडीबी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ सड़क परियोजना बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री आर.के. गुप्ता	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री आशीष गुप्ता	उप अभियंता नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री गोपाल अग्रवाल	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री रवि नवरंगे	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री रोहित कुमार पाण्डेय,	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री रविकुमार क्षत्री	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री सुशील कुमार लाल	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री भिमेन्द्र कुमार	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री आशीष कमलेश	उप अभियंता, कार्यालय क्रियान्वयन ईकाई, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री विमल चंद बघेल	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री किरण सोनी	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री कुमार लहरे	सहायक अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री आशीष भारती	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री राजेन्द्र तंवर	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री गंजानंद पात्रे	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री कमलेश सिदार	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री उमंग गौरहा	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 01 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री प्रवीण कुमार टण्डन	उप अभियंता कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण संभाग क्रमांक -02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री दरशराम कुर्रे	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 02 बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री हितेश मक्कड़	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री देवनारायण	उप अभियंता, नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री राघवेन्द्र सिंह राजपूत,	उप अभियंता नगर पालिक निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री पीयूष बजाज	वन क्षेत्रपाल कार्यालय प्रबंध संचालक छ-ग- राज्य वन विकास निगम बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

47	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना मण्डल मुंगेली रोड बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री पल्लव नायक	वन क्षेत्रपाल कार्यालय वन मण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	श्री नवीसिंह कंवर	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवम करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	श्री राजकिशोर तिवारी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	श्री उमेश कुमार यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खण्ड मस्तूरी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	श्री प्रकाश एक्का	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवम करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	श्री राहुल केशरवानी	उप अभियंता, जनपद पंचायत मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	श्री शशिकान्त सहारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खण्ड मस्तूरी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	श्री अमित द्विवेदी	उप अभियंता, जनपद पंचायत मस्तूरी,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	श्री जगमोहन साहू	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	श्री डी.पी. सूर्यवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास खण्ड मस्तूरी कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मस्तूरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री गौरीशंकर कोरी	सहायक अभियंता (रू.), कार्यालय वरिष्ठ भू-जल विद, संभागीय भू-जल सर्वेक्षण ई-9, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री रोहित कुमार साहू	सहायक अभियंता (रू.), कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री प्रहलाद कुमार दुहलानी	सहायक अभियंता (रू.), कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री कृष्णकुमार पैकरा	सहायक अभियंता (रू.) कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

5	श्री प्रशान्त मिश्रा	उप अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई बिलासपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विमल जायसवाल	उप अभियंता जनपद पंचायत कोटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

12. जिला-मुंगेली

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री रामेश्वर सिंह ध्रुव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्रीमती हीरा सूर्यवंशी	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री नितेश कुमार गुप्ता	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री श्याम लाल टंडन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री शैलेन्द्र कुमार घिंडोडे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विहर्षवर्धन पटले	उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री कृष्णकान्त कश्यप	एडीओ लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्रीमती रानी वर्मा	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री विमल कुमार पुराले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री एन.आर. मार्कण्डेय	सचिव कृषि उपज मण्डी लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री मानसिंह पैकरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री देवराज सिंह जगत	उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री धनंजय कुमार कोशले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	आशा ठाकुर	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री धर्मराज पोर्ते	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री उमेन्द्र दास टोंडे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री भानु प्रताप कोशले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री संजय भोसले	पटवारी तहसील कार्यालय जरहागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	राजेश कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

20	श्रीमती लक्ष्मी सोनवानी	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री राधेलाल डेहरे	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी उद्यानिकी कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री अनिल राज	राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री उमा शंकर बंजारा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री तुलाराम डिंडोरे	राजस्व निरीक्षक तहसील कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री कृष्ण कुमार कोशले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	निर्मला जांगड़े	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री लोमश प्रसाद साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री संतोष मानिकपुरी	पटवारी तहसील कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री देवेन्द्र देवांगन	राजस्व निरीक्षक सीएमओ कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री जगदीप मरावी	पटवारी तहसील कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री गेंदूराम टंडन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्रीमती बिंदु सिंह	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री सुनील कुमार कौशिक	लेखापाल सीएमओ कार्यालय पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री इंद्र कुमार माथुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री ओमप्रकाश देवांगन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री नवीन सोनी	पटवारी तहसील कार्यालय पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री देवेन्द्र कुमार राय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्रीमती रजनी डहरिया	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री ताम्रध्वज डडसेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री गिरवर पटले	पटवारी तहसील कार्यालय पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री आर.एस. नेताम	उद्यानिकी विकास अधिकारी पथरिया उद्यानिकी कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री सतीश धुर्वे	पटवारी तहसील कार्यालय पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	कु. पूजा देवांगन	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्रीमती लक्ष्मी कोशले	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्रीमती चित्ररेखा	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्रीमती प्रभा देवी साहू	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्रीमती स्मिता शुक्ला	पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

अतिरिक्त टीम

1	श्री अनिरुद्ध पटेल	पीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्रीमती निवेदिता गैबेल	जिला परियोजना अधिकारी आत्मा उपसंचालक मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री प्रसुत्र कुमार रॉय	पीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री अविनाश कुमार सोनी	पीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री जय बक्शा सिंह	टीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अमरचंद गुप्ता	टीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री हेतेश कश्यप	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री नर्बदा सिंह राज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री जलेश्वर प्रसाद	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री के.सी. बंजारे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री ब्रिजेश सिंह राजपूत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सनित कुमार बंजारा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सुभाष बंजारे	मत्स्य निरीक्षक लोरमी सहायक संचालक मत्स्य उद्योग मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री थानु जयसवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री भानु प्रताप जांगड़े	ग्रामीण उद्यान अधिकारी शासकीय उद्यान रोपणी सारधा लोरमी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	श्री किशोरी रमण गुप्ता	करारोपन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री एन.आर. साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री वी.पी. परिहार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री चन्द्रभान सिंह केशर	करारोपन अधिकारी जनपद पंचायत मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री के.आर. अहिरवार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री उमाशंकर कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोरमी उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री प्रकान्त बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री सौरभ दुबे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अनिल कुमार कंठले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुंगेली उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री संतोष कुमार यादव	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री प्रणयराज क्षत्रिय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री राजेश कुमार कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री गेंदलाल पात्रे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री अनिल कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री नीलेश कुमार राठोर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री सम्मन सिंह	राजस्व निरीक्षक सीएमओ कार्यालय सरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री बी.पी. पाल	ग्रामीण उद्यानिकी अधिकारी मुंगेली उद्यानिकी कार्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री ए.आर. राठौड़	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पथरिया उपसंचालक कृषि मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

अतिरिक्त टीम

1	श्री कुमार धर साहू	टीजीटी शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री राजकुमार कश्यप	संगीत शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री प्रतीक ताम्रकार	कला शिक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री यशवन्त बेडेकर	कार्यालय अधीक्षक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रमोद कुमार कुर्रेस	वरिष्ठ सचिवालय सहायक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री पशुपति कुमार	प्रयोगशाला सहायक जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13. जिला-जांजगीर-चांपा

उड़दस्ता प्रभारी

1	श्री चन्द्रकुमार साहू	ना.तहसीलदार, अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अखिलेश विश्वकर्मा	नायब तहसीलदार, बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री चन्द्र कुमार आदिले	विकास विस्तार अधिकारी जन.प.अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री अशोक कंवर,	उप अभियंता नगर पा.अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री सौरभ तिवारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री हिमांशु गुप्ता,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री भागीरथी कश्यप	नायब तहसीलदार बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री संजय कृपान	उप अभियंता ह.न.ज.प्र.सं.जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री चन्द्रप्रकाश जगत	उप अभियंता, छ.ग.गृह निर्माण	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री पंकज कुमार राम	नायब तहसीलदार, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री वेंकटेश मार्वल	नायब तहसीलदार, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री लक्ष्मण राम पैकरा	वन क्षेत्रपाल, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री चंदन कुमार शर्मा	मुख्य न. पा.अधिकारी जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री नारायण आदित्य	उप अभियंता, न.पा.जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री शिवा देव बर्मन	उप अभियंता, न.पा.जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री प्रशांत पटेल	नायब तहसीलदार जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री अभिषेक यादव	नायब तहसीलदार, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री संजय बरेठ	नायब तहसीलदार, जिला कार्यालय	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री पालेश्वर कुमार मंडलोई	उप अभियंता, ह.न.ज.प्र.जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री कुणाल पाण्डेय,	ना.तहसीलदार, शिवरीनारायण	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री पुष्पेन्द्र कुमार राज,	ना.तहसीलदार, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री जे.पी.बघेल	व.कृ.वि.अधिकारी, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री लक्ष्मी कौशिक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री आर.बी.बघेल	व.कृ.वि.अधिकारी, पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री अखिलेश लहरे,	उप अभियंता, ह.न.ज.प्र.जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री प्रीतम दास सुमैर	उप वन क्षेत्रपाल, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री प्रशांत कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

28	श्री संजय कुमार पैकरा	उप अभियंता, नगर पंचायत सारागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री रमाकांत पटेल,	नायब तहसीलदार, सारागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री मनीष सूर्यवंशी	नायब तहसीलदार, बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री बुधराम ध्रुव,	सहा.वि.विस्तार अधिकारी, बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री श्रीकांत पारधी,	उप अभियंता, कार्या.मु.ग्रा.स.यो,जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री विवेक कुमार तिकी	उप अभियंता, नगर पंचायत बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री ईश्वर दास साहू	उप अभियंता, पंचायत एवं ग्रा.वि.बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राजन कौशिक	सह.निरीक्षक, कार्या.उप पंजीयक, सह.सेवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री आर.एल.डहरिया	सहा.वि.विस्तार अधि, कार्या.जनपद अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री राजेन्द्र यादव	उप अभियंता कार्या.ग्रा.या.सेवा, अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री देवेश कुमार चतुर्गोष्ठी	सह.निरीक्षक, कार्या.उप पंजीयक सह.सेवा, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री पी.डी.जोशी	उप अभियंता जनपद पंचायत अकलतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री अशोक कुमार पटेल	उप अभियंता, प्र.ग्रा.स.यो, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री शिवेन्द्र कुमार धाकडे	उप अभियंता, ह.न.ज.प्र.सं.चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री ओमेश जोगी	उप अभियंता, ज.प.बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री पवन अग्रवाल	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री सुखराम पटेल	सहा.आ.ले.प.करारोपण अधिकारी बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री लव कुमार अग्रवाल	उप अभियंता, कार्या.न.पा.परि., चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री देवेन्द्र कुमार कैवर्त्य	उप अभियंता, कार्या.नगर पालिका परिषद चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री कृष्ण कुमार राठौर	सह.निरीक्षक, कार्या.उप पंजीयक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री अभिषेक मिश्रा	सह. निरीक्षक, कार्या.उप पंजीयक, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री उमेश चौधरी	खाद्य निरीक्षक, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अनिरुद्ध रविकांत तिवारी	खाद्य निरीक्षक, बलौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री विवेक सिंह सिसोदिया	उप अभियंता कार्या.मु.ग्रा.स.यो, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री रामकृष्ण विंझवार	उप वन क्षेत्रपाल, चाम्पा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री मनीष अग्रवाल	खाद्य निरीक्षक, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

22	श्री लोचन साहू	उप अभियंता, कार्या.जल संसा. न.उ. सं. क्र.03 बिरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री लोचन प्रसाद मांझी	उप अभियंता, कार्या.जल संसा. न.उ. सं. क्र.03 बिरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री सूर्येश्वर सिंह लाठिया	उप अभियंता, कार्या.प्र.गार.स.यो	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री भुनेश्वर प्रसाद साहू	सहा.वि.अधिकारी, कार्या.जनपद पंचा.,बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री बसंत कुमार कोसले	उप अभियंता,जनपद पंचायत बम्हनीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री शशिलाल मानिकपुरी	उप अभियंता कार्या.जल संसा. न.उ. सं. क्र.03 बिरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री देवचरन दिनकर	उप अभियंता,लो.नि.पामगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री दीपक देवांगन	उप अभियंता, कार्या.ग्रा.या.सेवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री नारायण प्रसाद गबेल	उप अभियंता कार्या.मु.ग्रा.स.यो.,जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री हरविलास बरेठ	उप अभियंता, कार्या.मु.ग्रा.स.यो, जांजगीर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री नरेन्द्र कुमार मरकाम	सहा.वि.विस्तार अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री मौरिस राज सिंह	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राहौद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री कैलाश चन्द कश्यप	सह. निरी.,कार्या.उप पंजी,सह.सेवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री बोधराम दिनकर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत खरौद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री प्रभुदयाल लकडा,	सहा.वि.विस्तार अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

14. जिला-सक्ती

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री विकास कुमार राठौर	उप अभियंता, लो.नि.वि.सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री रामनाथ ध्रुव	उप अभियंता, ग्रा.या.सेवा सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री निखिल कश्यप	सहा.वि.वि.अ.ज.पं. सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री भोलाराम पटेल	सहा.वि.वि.अ.ज.पं. डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री परमेश्वर पटेल	उप अभियंता, ग्रा.या.सेवा उप संभाग डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सूरज भान सिंह राठौर	सहा.आं.ले.प.करा.अधि. जनपद पंचायत मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री आशुतोष पटेल	उप अभियंता लो.नि.वि. जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री बजरंग सिंह सिदार	सहा.वि.वि.अधि. जनपद पंचायत जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रामकुमार साहू	सहा.वि.ख.शि.अधि.जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री मंगलेश्वर भगत	स.ले.प.अ. जनपद पंचायत सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री विजय कुमार पटेल	पटवारी, तहसील-सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री मंगल सिंह पैकरा	स.ले.प.अ. जनपद पंचायत सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री भुवनेश्वर प्रसाद राठौर	पटवारी, तहसील-सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री राजकुमार रात्रे	स.आ.ले.प.अ. जनपद पंचायत सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री मनहरण लाल राठौर	पटवारी, तहसील-सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री युनुस अहमद परवेज	पटवारी, तहसील-सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री प्रमोद चन्द्रा	पटवारी, तहसील-सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रविशंकर निषाद	ग्रा.कृ.वि.अधि.सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री हेमचरण राठौर	पंचायत सचिव, जनपद पंचायत सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री परमानंद टण्डन	ग्रा.कृ.वि.अधि.सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राकेश लहरे	ग्रा.कृ.वि.अधि.सक्ती	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री चन्द्रराम साहू	स.उ.नि.न.पं. चन्द्रपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री जयनाथ पटेल	प.स.डभरा जनपद पंचायत डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री संजय सिदार	पंचायत सचिव, जनपद पंचायत डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री देवलाल बंजारे	स.अ.ले.प.अ.मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री योगेश कुमार साहू	र.उ.नि.न.प.डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री कोमल लहरे	पं.सचिव जनपद पंचायत डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री टीकाराम डनसेना	स.अं.ले.प.अ.मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री बोधराम पटेल	स.अ.ले.प.अ.मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री उत्तम कुमार सिदार	पं.स. जनपद पंचायत मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री आलेखराम सिदार	पं.स. जनपद पंचायत डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री तोमेश्वर चन्द्रा	पं.स.डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री दिलेश्वर पटेल	पं.स.डभरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री हेमन्त कर्ष	पं.स.मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री लक्ष्मी प्रसाद भगत	स.अ.ले.प.अ.मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री मुकेश कुमार पैकरा	ग्रा.कृ.वि.अधि. मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री टिकैत राम लहरे	पं.सचिव, सफं.ा.द.न.पं. जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री तेजस्वीराज पटनायक	स.उ.नि.न.प.जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री रामनारायण कश्यप	पं.सचिव, जनपद पंचायत जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री आनंद गबेल	सफा.द.न.प. जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री लक्ष्मी प्रसाद भक्त	स.आ.ले.प.अ. मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री भरत लाल साहू	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री ज्ञानिक चंद जांगड़े	उप अभियंता मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री देवलाल बंजारे	स.आ.ले.प.अ. मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री कचरू राम गोंड	स.आ.ले.प.अ. मालखरौदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री रविशंकर सिंगसर्वा	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री लखपति सिदार	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री घसिया राम सिदार	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री उमेश कुमार डनसेना	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री अमृत लाल सिदार	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री लीलाधर चन्द्रा	पंचायत सचिव जैजैपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

15. जिला-महासमुन्द

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री आर.एल.चौहान	नायब तहसीलदार, सरायपाली राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री संजय कुमार श्याम	सर्वेयर, कृषि विभाग, सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अजय कुमार बंजारे	सर्वेयर, कृषि विभाग, सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जुगल किशोर पटेल	अतिरिक्त तहसीलदार, सरायपाली राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री जयलाल भोई	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत सरायपाली पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री कमल किशोर नायाक	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत सरायपाली पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री ललित सिंह	नायब तहसीलदार, बसना राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री नीलकमल पटेल	सर्वेयर, कृषि विभाग, बसना कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रसीम प्रधान	सर्वेयर, कृषि विभाग, पिथौरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री नीरज कुमार	नायब तहसीलदार, पिथौरा राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री पुरुषोत्तम दीवान	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री गुलाब प्रसाद सामल	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री हरीश कांत ध्रुव	नायब तहसीलदार, बागबहरा राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री सनत कुमार दीवान	सर्वेयर, कृषि विभाग, बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री यशवंत कुमार ठाकुर	सर्वेयर, कृषि विभाग, महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री रविन्द्र कुमार काले	नायब तहसीलदार, पिथौरा राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

17	श्री मानसिंह बरिहा	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री लखन लाल साहू	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बागबाहरा पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री मोहित कुमार अमिला	नायब तहसीलदार, महासमुंद राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री यशवंत कुमार पैकरा	सर्वेयर, कृषि विभाग, बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री अखिलेश राठिया	उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री युवराज साहू	नायब तहसीलदार, महासमुंद राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री दिलीप मनहरे	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी महासमुंद पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री लेखराम दीवान	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी महासमुंद पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री लखनलाल पटेल	कृषि विकास अधिकारी, सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री के.के. नारंग	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री नरेन्द्र सिंह ध्रुव	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री एल. के. चौहान	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री रेवती रमण पटेल	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, उद्यान विभाग महासमुंद उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री तरुण कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बानीगिरोला कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	श्री भीमेश्वर साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	डॉ. विजय कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी तोषगाँव कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अजय कुमार चौधरी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी चारभाठा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अखिलेश तिग्गा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सिंघोड़ा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री जीतेन्द्र कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी जोगनिपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री रिमांचल प्रधान	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री हेमचन्द्र पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री केशलाल पैकरा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी गेर्रा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री अजय कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी लिमगाँव कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री आरक्षित नाग	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सरायपाली कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री बृजेश कुमार तुरकाने	कृषि विकास अधिकारी जगदीशपुर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री देवेन्द्र कुमार निषाद	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी गनेकेरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री मुरलीधर पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसना कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री तरुण कुमार प्रधान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसना कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री अनिल कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सिंघनपुर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

22	श्री कैलाश नायक	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, पिथौरा उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री दिलीप कुमार राठिया	उद्यान विस्तार अधिकारी, बसना उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री उपेन्द्र कुमार नाग	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, बसना उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री जयराम सिदार	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक, जनपद पंचायत बसना पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री कमल नारायण निषाद	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लम्बर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री हरिशंकर कैवर्त	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बसना कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री टेमन लाल वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भंवरपुर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री विजय कुमार नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भुकेल कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री होमेश ध्रुव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बिछिया कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री लखन लाल नेताम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री गंगा प्रसाद शरणागत	कृषि विस्तार अधिकारी बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री उमेश कुमार चंद्राकर	कृषि विस्तार अधिकारी आमाकोनी कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री होरीलाल नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोमाखान कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री केजूराम ठाकुर	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, जनपद पंचायत बागबाहरा पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री विकास चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

37	श्री साखुराम प्रियपाल	उद्यान विकास अधिकारी, बागबाहरा उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री प्रणय कुमार खरे	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बागबाहरा उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री प्रफुल्ल कुमार दास	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री मुकुंद कुमार डडसेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुखरीडबरी कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री जीतेन्द्र सूर्यवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी खट्टी खम्हरिया, बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री नविन कुमार चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी खट्टी खम्हरिया, महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री गुलाल राम साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी भलेसर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री अवध किशोर चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बागबाहरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री अविनास चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बंसुलाडबरी कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री राकेश कुमार आर्या	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बोईरगाँव कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री अशोक चंद्राकर	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी, जनपद पंचायत महासमुंद पंचायत विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री गुरुदत्त यदु	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी महासमुंद उद्यानिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	श्री शिव चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उखरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	श्री शंकर दास मानिकपुरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

51	श्री भूषण साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	श्री मनीराम उईके	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	श्री हेमराज सोनबेर	समाज शिक्षा संगठक, समाज कल्याण विभाग महासमुंद समाज कल्याण विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	श्री रोहित कुमार बरिहा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	श्री ओमप्रकाश चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	श्री के. के. गुप्ता	प्रशिक्षण अधीक्षक, शास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बागबाहरा तकनीकी शिक्षा विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	श्री अनिश दीवान	सहकारिता विस्तार अधिकारी महासमुंद सहकारिता विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	श्री सूर्यकांत साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी मालीडीह कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	श्री जितेन्द्र चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी झालखम्हरिया कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	श्री नेहरु निषाद	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी जलकी कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	श्री विनोद कुमार शेंडे	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	श्री देवेन्द्र कुमार लोधी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी कसेकेरा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	श्री विजय कुमार देवांगन	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी पटेवा कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	श्री विजय कुमार	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सिरपुर कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

65	श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महासमुंद कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	श्री कुरेन्द्र सिंह	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बरेकेलकला कृषि विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

16. जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री हेमंत कुमार उडसेना	सहायक कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री रवि कुमार बघेल	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री कलीराम साहू	वनपान वन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री ओमकुमार भरद्वाज	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री नवीन कुमार मेश्राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री पुष्पेन्द्र ध्रुव	सहायक कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री प्रबोध कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री ए.के.रायजादा	सहायक अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री सुनील कुमार खांडेकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री विनोद कुमार नवरंगे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री उदयवीर ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री भारत देवांगन	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री बलराम राठौर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री दत्तात्रय ठाकरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री सत्य भुवन सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री अश्वनी कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अनंत कुमार साहू	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री अमर राठौर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री मुरारी लाल ध्रुव	कृषि विकास अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री राजेन्द्र कुमार टंडन	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री सुशील टंडन	सहायक खाद्य अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री उमेश चन्द्र वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री अनिल कुमार दीवान	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री लक्ष्मीकांत कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री आकाश वर्मा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री अमन राठौर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री राकेश वर्मा	श्रम उप निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री सियाराम हिरवानी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री आयुष सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री प्यारेलाल अहिरवार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री सौरभ सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री राम अवतार राठौर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री भागवत सतनामी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री सुमीत जैन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री संतोष कुमार शर्मा	आंतरिक लेखा परिक्षण एवं करारोपण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री अक्षय कुमार सिंह	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री लिलेस कुमार डडसेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सुनिल कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री हेतराम पटेल	सहायक राजस्व निरीक्षक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संजय कुमार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री जितेन्द्र कुमार जांगडे	उप अभियंता, नगर पंचायत	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री महेश कुमार निर्मलकर	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री चक्रपाणी आयाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रितेश कुमार मिश्रा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री राजू कुमार टांडे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री सिद्धार्थ बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री अमर चंद ध्रुव	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री शुभदीप सरकार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री प्रीतम सिंह ध्रुव	आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री रविन्द्र सिंह मेश्राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री सतीश कुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री निखलेश घृतलहरे	सहायक मतस्य अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री धनेश राम महिलांगे	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री शिवपूजन शर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री फणीन्द्र कुमार पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री शत्रुहन लाल ध्रुव	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री हेमलाल वर्मा	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री शिवकुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री कुलेश्वर कुमार बंजारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री मधुसूदन गिरें	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री हुकुम सिंह पैकरा	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

27	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री सुरेन्द्र कुमार कौशिक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अवधेश कुमार उपाध्याय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री जंतराम पटेल	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री प्रेम कुमार साय	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री महेंद्र कुमार बंजारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री गौरव राजपूत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री दुर्गेश कुमार साहू	सहायक आंतरिक लेखा परिक्षण अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री होरीलाल कन्नौजे	विकास विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री संदीप वर्मा	विकास विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

17. जिला-रायपुर

उड़नदस्ता प्रभारी

1	सचिन भागवत	उप अभियंता, नगर पालिका तिल्दा नेवरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	सुरेश गढरिया,	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	गोपीराम वर्मा,	उप अभियंता, जनपद पंचायत तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	कमलेश कुमार चन्द्राकर,	उप अभियंता, जनपद पंचायत तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	हरीश मांझी,	उप अभियंता, नगर पालिका परिषद तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	अमितेश गुप्ता,	उप अभियंता, जनपद पंचायत तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	वरूण पटेल,	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा नवा रायपुर अटल नगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	टीकाराम साहू,	उप अभियंता, जनपद पंचायत धरसीवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	राजेन्द्र शुक्ला,	उप अभियंता, जनपद पंचायत धरसीवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	तन्मय गुप्ता,	उप अभियंता अधीक्षण अभियंता, लो नि वि सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	राजेश कुमार लहरे,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	देवव्रत यमराज,	उप अभियंता, अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	ध्यान सिंह आमो,	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एन.आर.ए.एन.वी.पी.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	तिहारू राम साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	राजेश रामेद्रवार,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.1, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	संध्या वर्मा, उप अभियंता,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्यां लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	राधेश्याम कोमर्रा, उप अभियंता,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लो नि वि यां संभाग सिरपुर भवन परिसर रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	मदनलाल मनहर	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	समीर जोसेफ टोप्पो,	उप अभियंता प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	उत्तम वर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	प्रकाश कुमार श्रीवास्तव,	उप अभियंता, संचालनालय, मछली पालन, इन्द्रावती भवन बी ब्लॉक, चतुर्थ तल, नया रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	तृप्ति यादव	उप अभियंता, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मण्डल 1,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	अरविन्द डे,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	ललित वर्मा	उप अभियंता, नगर पालिक निगम रायपुर, जो.क्र.10 अमलीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	पूजा श्रेय	उप अभियंता, कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	अनिमेष पाण्डेय,	उप अभियंता, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	सौजन्य शर्मा,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता वि.यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	ममता निकुंज उरांव,	उप अभियंता कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	देवेंद्र कुमार साहू,	उप अभियंता, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	कन्हैया लाल साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव, परियोजना	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	शालिनी साहू,	उप अभियंता, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	मनीष सोम,	उप अभियंता, कार्य. अभियंता, फिल्टर प्लांट रावणभाटा, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	अविनाश एक्का,	उप अभियंता, सहायक अभियंता भुजल सर्वर्धन उपखंड लो स या वि रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	दिप्ती तिवारी,	उप अभियंता, नगर पंचायत माना	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	सुनील कुमार ठाकुर,	सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	प्रमोद ध्रुव,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	बंशीलाल मनु	उप अभियंता, अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	संतोष कुमार सोनवाने	उप अभियंता, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	संतोष कुमार पटेल,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	अनिता सिन्हा,	उप अभियंता, जनपद पंचायत धरसीवां	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	चमन लाल साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	सुरेन्द्र कुमार श्रीवास,	उप अभियंता, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र.10 अमलीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	रचना संघवी, उप अभियंता	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 8,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	प्रदीप कुमार अग्रवाल,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	आशीष श्रीवास,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	अभिलाष कोल्हे,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

47	चंद्रहास साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	पंकज कुमार साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्यां लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	उपासना सुखदेवे,	उप अभियंता, सहायक अभियंता भुजल सवर्धन उपखंड लो स या वि रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	अमितेष दुबे,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्यां लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	योगेन्द्र देवांगन,	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, फिल्टर प्लांट रावणभाटा, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	इंदिवर दुबे,	उप अभियंता, नगर पालिका परिषद आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	विकास नायक,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	पोषण साहू,	उप अभियंता, नगर पालिका परिषद आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	शिवाजी जाधव,	उप अभियंता, नगर पंचायत मंदिर हसौद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	पुष्कर चन्द्राकर,	उप अभियंता, नगर पंचायत खरोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	अर्जुन कुमार निर्मल,	उप अभियंता, नगर पंचायत चन्द्रखुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	मुकुंद साहू,	उप अभियंता, जनपद पंचायत आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	मनीष,	सहायक अभियंता, नगर पालिका परिषद आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	प्रतीक सिंह,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	आनन्द निकोशे,	सहायक अभियंता, कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	फलेश कुमार साहू,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग अभनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	सूर्य कुमार सोनकर,	उप अभियंता, जनपद पंचायत अभनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	शरदचन्द्र ध्रुव,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, फिल्टर प्लांट रावणभाटा, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	दिनेश कुमार बिसेन,	उप अभियंता, जनपद पंचायत अभनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	प्रवीण कुमार सिन्हा,	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग अभनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

67	प्रदीप कुमार चद्राकर,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
68	चन्द्रशेखर वर्मा,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
69	गौरव राठौर	कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजधानी परियोजना, संभाग क्र0 1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	सतीष टंडन,	उप अभियंता, जनपद पंचायत तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	सी.आर. पटेल	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	रजत शर्मा,	उप अभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पैरी उच्च बांध उप संभाग तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	अचिन्त एक्का,	उप अभियंता, मु.का.अधि., नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एन.आर.ए.एन.वी.पी.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	ओम प्रकाश सिवाना,	उप अभियंता, कार्य. अभि. वि.यां.भा. संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	अनिल पटेल,	उप अभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा शाखा नहर निर्माण उप संभाग क्र. 3 तिल्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	कमलेश साहू,	उप अभियंता, नगर पंचायत कुरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	अभिषेक खेस्स	कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजधानी परियोजना, संभाग 1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	पंकज चंद्राकार	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	प्रियंका मिश्रा,	उप अभियंता, छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण विकास भवन सिविल लाईन रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	विकास वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्यां लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	प्रवीण ठाकुर	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरसीवा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

13	देवेन्द्र कुमार पटेल	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग 2, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	विवेक कुमार शुक्ला	उप अभियंता, सहायक अभियंता भुजल सवर्धन उपखंड लो स या वि रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	मनीष शर्मा,	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग क्र 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	केवल चंद साहू	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	गौरव कुमार कोरे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल संभाग 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	गोविंद चंदेल	उप अभियंता, कार्य. अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मंडल संभाग क्र. 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	वंदना साहू	उप अभियंता, छ.ग.राज्य सड़क विकास परियोजना (ए डी बी), रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	भविन कुमार देवांगन	उप अभियंता, कार्य. अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	गुलाब चाँद कर्ष,	उप अभियंता, नगर पालिक निगम रायपुर, जोन क्र. 10 अमलीडीह	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	भानुजा ठाकुर	उप अभियंता, सहायक अभियंता वि या उपखंड लो स्वा या वि रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	रमेश चन्द्र यदु	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	ओ.पी. मिश्रा	उप अभियंता, सिंचाई परियोजना उपसंभाग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	विकास जाधव,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	अमित खुरा,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	कामेश्वर राव	उप अभियंता, कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	मनीषा साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्यां लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	विजय कुमार देवांगन	उप अभियंता, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	लोमेश निर्मलकर	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	विधि जनबधु	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	राजेन्द्र कुमार ढेगरे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.1, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	गिरिश कुमार देवांगन	उप अभियंता, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	अनीता साहू	उप अभियंता, मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. रायपुर परिक्षेत्र रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	प्रत्यूष जैन	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	अंकित अग्रवाल	उप अभियंता, कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	भानेश्वरी गोस्वामी	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	राजीव मिश्रा,	उप अभियंता, अधीक्षण अभियंता लो नि वि सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	विजय कुमार गुप्ता	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.1, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	तरुण कुमार साव,	उप अभियंता, कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव, परियोजना	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया	कार्यपालन अभियंता वि./यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	रंजीत कुमार बरवा,	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जोन क्रं. 3	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	निशा स्वामी श्रीवास्तव	उप अभियंता, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर परिक्षेत्र, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	हीरालाल साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्र.1, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र.
45	सैय्यद नियाज अनवर,	उप अभियंता, अधीक्षण अभियंता, लो नि वि सेतु निर्माण मंडल, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र.
46	चांदनी रामटेके	उप अभियंता, मांढर शाखा निर्माण उप सभाग, आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	महेश लहरे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विधानसभा संभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

48	उमेश कुमार द्विवेदी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लो नि वि यां संभाग सिरपुर भवन परिसर रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	कोमल सिंह कँवर,	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अनुविभाग क्र 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	अवधेश कुमार पाण्डेय	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	बालमुकुन्द कुर्रे	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	सर्जना साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	पुकेश साहू	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम, जौन क्र. 7,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	शशांक दुबे,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता वि.यां. भारी संयंत्र संभाग जल संसाधन विभाग रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	सुनिता हरदे,	उप अभियंता, जनपद ंपंचायत आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	मूलचंद वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र. 1 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	विकास गुप्ता,	उप अभियंता, जनपद ंपंचायत आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	अमन चंद्राकर,	उप अभियंता, आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	कुलदीप सिंह रात्रे	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 2 रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	अजय सिंह मरावी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एन.आर.ए.एन.वी.पी.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	दुर्गा तम्बोली	उप अभियंता, मांढर शाखा निर्माण उप संभाग, आरंग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	प्रेमलाल मिरी,	उप अभियंता, जनपद ंपंचायत आरंग,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	नेमीचंद वर्मा,	उप अभियंता, नगर पंचायत समोदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	किरन बघेल	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

65	नोमेश कुमार साहू	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, विध्या लाईट मशीनरी, नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	बालमुकुन्द,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक 3, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
67	हुल्लास कुमार,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता छ.ग. गृह निर्माण मंडल राजधानी परियोजना, संभाग क्र. 1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
68	शिव नारायण हल्दकार	उप अभियंता, छ.ग. राज्य सड़क विकास परियोजना (ए डी बी), रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
69	नागेन्द्र कुमार साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजधानी परियोजना संभाग क्र. 1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र,
70	अनिल कुमार यादव	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण एन.आर.ए.एन.वी.पी.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
71	नोहर सिंह ध्रुव,	उप अभियंता, कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
72	गजेन्द्र कुमार साहू,	उप अभियंता, कार्यपालन अभियन्ता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, राजधानी परियोजना, संभाग क्र. 1	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

18. जिला-गरियाबंद

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री अभिषेक पाटकर	सहायक अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री मनोज कुमार टाडिल्य	उप अभियंता जल संसाधन उप संभाग देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री विकास ध्रुव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग छुरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री संतोष ध्रुव	उप अभियंता, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संजीव कुमार गुप्ता	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री फलेन्द्र सिंह ठाकुर	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग राजिम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री कुलदीप कांत बंजारे	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग राजिम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

8	श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर	उप अभियंता, मु. ग्राम सड़क योजना गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री जितेन्द्र कुमार चन्द्राकर	उप अभियंता, मु. ग्रा.सड़क योजना गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री सौरभ कौशल दास	उप अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री राजेश्वर डहरिया	उप अभियंता, जल संसाधन गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री दीपांशु कुमार	उप अभियंता, जल संसाधन उप संभाग देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रविसिंह सोनवानी	वि.वि.अधि., जनपद पंचायत देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री अश्वनाथ सिंह	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहा.पंजीयक सहकारी संस्थायें गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राधाकृष्ण शर्मा	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री उगेश मण्डावी	उप अभियंता, लो.स्वा.यां.उपखंड गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री कमलेश कुमार चन्द्राकर	सहायक अभियंता, मु. ग्राम सड़क योजना गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अमरनाथ मरकाम	सहा.लेखा.परी.अधि. जनपद पंचायत मैनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री रेखराम साहू	सहा.आ.लेखा परीक्षण अधिकारी, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री किशोर कुमार सिंह	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड राजिम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री शेखर कुमार ध्रुव	सहा.वि.वि.अधिकारी, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री अशोक साहू	उप अभियंता, जनपद पंचायत फिंगेश्वर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री अखिलेश कुमार यादव	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री मुकेश कुमार सिंह	ग्रा.उद्यान वि.अधि., उद्यान विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री दुर्गाशंकर सोम	उप अभियंता, जनपद पंचायत गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री विवेक मिश्रा	उप अभियंता, सेतु निर्माण लो.नि.वि.गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री आशीष कुमार प्रधान	उप अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

10	श्री बुढ़ान सिंह सिदार	उप अभियंता, लो. स्वा. यां. उपखंड देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री नन्दलाल देव	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी, कृषि विभाग मैनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री ठाकुर राम ध्रुव	ग्रा.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग मैनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री बंसत कश्यप	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री जागेश्वर नाथ नाग	ग्रा.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री संतोष कुमार नेताम	ग्रा.कृ.वि.अधि. कृषि विभाग देवभोग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री योगेश नायक	पशु चिकि. सहा. शल्यज्ञ, पशु चिकित्सा विभाग मैनपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मुकुट राम कंवर	सहा. पशु चिकि. क्षेत्र अधि., पशु विभाग गरियाबंद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री रवि यादव	सहा. पशु चिकि. क्षेत्र अधि., पशु विभाग छुरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

19. जिला-धमतरी

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री अर्जुन सिंह नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री डागेश ध्रुव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री नीलकंठ साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री स्वप्निल बंजारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री गुलाब सिंह नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री आर.एस. नेताम	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत नगरी,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री प्रभु लाल नाग	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री राजेश्वर केकती	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री चन्द्रहास साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री साकेत कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री प्रणय लाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री धर्मेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री गजेन्द्र कुमार साहू	उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री खेमन लाल साहू	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री डीहू राम पटेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री चित्रसेन जगने	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री कल्याण सिंह ध्रुव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री प्रेमलाल ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री मोहित जैन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री गिरीराज किशोर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री नर्मदा प्रसाद	सहायक उद्यान विकास अधिकारी, उद्यानिकी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री मोहर साय पैकरा	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री राम कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री ललित कुमार साहू	सहायक विस्तार विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, मगरलोड,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री बसंत कुमार गंजीर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री प्रहलाद नागवंशी	कृषि विकास अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री कौशल प्रधान	सहायक उद्यान विकास अधिकारी, उद्यानिकी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री हितेश गाड़रिया	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री मनोज कुमार अंगारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि अभियांत्रिकी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री चेश कुमार सार्व	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री लखन लाल नागवंशी	कृषि विकास अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री भीरेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री विकास एनेश्वरी	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री योगेश पैकरा	सर्वेयर, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री जीतेन्द्र नंदा	सहकारिता विस्तार अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री खिलावन दास साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री शिवकुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री लाकेश साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री भानुराम ध्रुव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जितेन्द्र पोया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री घनानंद साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री योगेश कुमार नाग	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सुनील कुमार मिश्रा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री ललित कुमार	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री आकाश निर्मल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री रोमश कुमार सूर्यवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री वेदव्यास सूर्यवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री देवेन्द्र कुमार नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री चन्द्रप्रकाश साहू	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री रोशन कुमार कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नगरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री सूरज देवांगन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री व्यास नारायण चन्द्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री दिलीप कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री विजयकांत साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री सुरेन्द्र कुमार भोय	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री जितेन्द्र सोनकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री टोपेश साहू	सर्वेयर, कार्या. सहायक भूमि संरक्षण अधि. धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री पुरुषोत्तम सिन्हा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री चन्द्रभान ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री टिलेश्वर बैस	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री आशीष कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री योगेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मगरलोड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री अम्बरीश चन्द्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री अश्वनी सिन्हा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरि. कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री खेलेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री मोहनीश घेवरिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुरूद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री पुलस्य साहू,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री योगेन्द्र कुमार सिन्हा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री ऋतुराज साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री अभिषेक तिवारी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री मुकेश कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री देवेन्द्र साहू	मतस्य निरीक्षक, मत्स्योद्योग जिला धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री बी.एस. मण्डावी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री हरेन्द्र कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री कमलेश साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री मयंक नागवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री नरोत्तम साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री मनोज साहू,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धमतरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

20. जिला- बालोद

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्रीमती रश्मि दुबे	नायब तहसीलदार बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री भूपेन्द्र कुमार मण्डावी	सहकारिता निरीक्षक बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री प्रवीण कौमार्य	सहा.विकास विस्तार अधि. ज.पं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जितेन्द्र कुमार मण्डावी	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री मुकेश कुमार गजेन्द्र	नायब तहसीलदार बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री जयसिंह ठाकुर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री रामूलाल ठाकुर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री आशीष देवहारी	नायब तहसीलदार गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री तरूण कुमार यदु	ग्रा.उ.वि.अधि. वि.ख. गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री ईश्वर लाल यादव	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. जनपद पंचायत गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राकेश कुमार मानकर	सहा.वि.वि.अधिकारी, जनपद पंचायत गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री नीलकंठ जनबंधु	तहसीलदार मारी बंगला देवरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री मनोज कुमार नेताम	सहकारिता निरीक्षक डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री शिवराम टेकामे	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री तामेश्वर राणा	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री रमेश कुमार मण्डावी	नायब तहसीलदार डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री उमेन्द्र राम साहू	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री गोविन्द राम भुआर्य	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं. डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री सोनसिंह दुग्गे	सहा.वि.विस्तार अधिकारी ज.पं. डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री बी.रूद्रापति	नायब तहसीलदार डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री विजय कुमार निकोसे	व.उ.वि.अधि. उद्यान विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री तारकेश्वर कुमार ठाकुर	ग्रा.उ.विस्तार अधिकारी अरमुरकसा वि.ख.डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री चैनसिंह कोमा	सहा.वि.विस्तार अधिकारी ज.पं. डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री दीपक चंद्राकर	नायब तहसीलदार गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री डोमेन्द्र कुमार हिरवानी	सहकारिता निरीक्षक गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री सुरेन्द्र कुमार चन्द्राकर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री चेतन लाल मारकण्डेय	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री राहुल गुप्ता	नायब तहसीलदार गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

30	श्री कृत कुमार साहू	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री केशव राम अहिर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री छम्मन लाल साहू	सहायक राजस्व निरीक्षक न.पं. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्रीमती प्रीति चिर्वतकर	नायब तहसीलदार अर्जुन्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री महेन्द्र कुमार जांगड़े	विकास वि.अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री रामनारायण इस्टा	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री सोमनाथ साहू	विकास वि.अधि. ज.पं.गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री लोकेश कुमार सोनी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कृष्ण कुमार धुवे	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री ललित वर्मा	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री जैतराम ठाकुर	सहा.आं.लेखा परी. एवं करा. अधि. ज.पं.बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री शशिकांत साहू	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री हर्ष कुमार सोनकर	ग्रा.कृषि विस्तार अधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री भारतेन्दु नेताम	सहा.विकास विस्तार अधि. ज.पं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री अशोक कुमार धुव	विकास विस्तार अधिकारी ज.पं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री याशकदत्त ज्योति	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री आशीष कुमार नेताम	ग्रा.उ.वि.अ. वि.खं. गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर	पी.टी.आई. हायर सेकेण्डरी स्कूल धानापुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री अखिलेन्द्र कुमार	ग्रा.उ.वि.अ. वि.खं. गुरूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री रूपेन्द्र ठाकुर	सहा.वि.वि.अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री नागेन्द्र साहू	सहा.वि.वि.अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री आशीष कुमार देशमुख	सहा.वि.वि.अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री थानेश्वर सोनवानी	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अनिल कुमार पराते	ग्रा.उ.वि.विस्तार अधिकारी वि.खं. बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

19	श्री नेमन लाल बेलचंदन	संगठक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री लोकनाथ कोसरे	विकास विस्तार अधि. ज.पं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री वासुदेव गंगबेर	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री सुशील कुमार चंदेल	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री द्वारिका प्रसाद	विकास विस्तार अधिकारी ज.पं. डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री खुबलाल जमदार	सहा.वि.विस्तार अधि. ज.पं. डौण्डी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री कृपाराम बर्मन	उप अभियंता नगर पंचायत गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री दिनेश कुमार	ग्रा.उ.विस्तार अधिकारी वि.खं. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री टोमन लाल ठाकुर	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री रमन्त सिंह ठाकुर	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री लोकेश कुमार साहू	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग अर्जुन्दा क्रमांक-2	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री नितीश मनसाना	कृषि विस्तार अधिकारी वि.खं. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री चन्द्रशेखर कौर	कृ.वि.अधि. वि.खं. गुण्डरदेही	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री विश्वास नागरे	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री संतोष कलिहारी	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग देवरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री हेमन्त कुमार सिन्हा	ग्रा.उ.वि.अधिकारी वि.खं. डौण्डीलोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री घुरउराम कोमरे	राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. डुन्डैरा तहसील अर्जुन्दा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री मनुसख ठाकुर	वनपाल कार्या. वनमंडलाधिकारी बालोद	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

21. जिला- दुर्ग

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह	नायब तहसीलदार पाटन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दीपक कुजूर	निरीक्षक, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त 3	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	जीतेंद्र दास मानिकपुरी	एल. एंड ए. विभाग भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

4	शशीकांत वर्मा	सहायक अभियंता कार्यालय अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री राजेश कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक शासकीय महा. पेन्ड्रावन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	नवीन कुमार शर्मा	वाणिज्य कर निरीक्षक वाणिज्यक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त चार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	प्रफुल्ल कुमार करोडे	कनिष्ठ सतर्कता, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	सचिन भवरे	निरीक्षक केंद्रीय मॉल एवं सेवा कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, प्रभाग - 2, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	विश्वनाथ मजूमदार	जी.ई. विभाग, भिलाई स्टील प्लांट,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री अविनाश चैहान	नायब तहसीलदार दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	तरुण कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	सौमित्र बिस्वास	सी. एंड आई.टी. विभाग, भिलाई स्टील प्लांट,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	मुकेश कुमार वासनिक	उद्यान विकास अधिकारी उप संचालक उद्यान दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	अजय कुमार मनहर	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	जी के वर्मा	सहायक मत्स्य अधिकारी उप संचालक मत्स्योद्योग, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	राजेश सिंह ठाकुर	व्याख्याता शिक्षा, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	शंकर लाल हरजपाल	व्याख्याता शिक्षा, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	सुनील कुमार शर्मा	सेक्शन अधिकारी फिन एन अकाउंट्स, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	पंकज कुमार	टी.एस.डी. विभाग भिलाई स्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	नितिन कनिकडैली	टी.एस.डी. विभाग भिलाई स्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र.
21	रूपेश कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक शासकीय चंद्रलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	संदीप पटेल	उप अभियंता नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

23	मोती राम साहू	सहायक प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री ईश्वरी नारायण	औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	ए एस विश्वनाथ सरमा	प्रबंधक कंस्ट्रक्शन, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	मनीष कुमार	मैनेजर कंस्ट्रक्शन, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	सचिन्द्र प्रताप सिंह	मास्टर प्रशिक्षक शिक्षक एचआरडीसी, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री विश्वनाथ ताम्रकार	सहायक प्राध्यापक शासकीय आदर्श महाविद्यालय दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	अमृतेश शुक्ला	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	राजेन्द्र कुमार सोनी	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	विजय कुमार माहुरकर	जी.ए.डी. विभाग, भिलाई स्टील प्लांट,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	प्रशांत दुबे	सहायक प्राध्यापक, शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	साजी टी चाको	विभागाध्यक्ष शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	स्वतंत्र कुमार	मास्टर प्रशिक्षक एचआरडीसी, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	मनीष तिवारी	जूनियर अफसर एजुकेशन, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	पी मनोज कुमार	टी.एस.डी विभाग भिलाई स्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	कृष्णा नंद राय	टी.एस.डी. विभाग भिलाई स्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	सौरभ निषाद	राज्य कर निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर दुर्ग वृत्त-चार दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री बालकिशन साहू	उप अभियंता अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु उपसंभाग, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	डॉ समीर जायसवाल	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, बोरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	बसंत कुमार देवांगन	राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	विजय कुमार शर्मा	राजस्व निरीक्षक तहसीलदार अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

43	प्रवीण यादव	उप प्रबंधक फिन एन अकाउंट्स, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	नगेन्द्र कुमार	निरीक्षक केंद्रीय मॉल एवं सेवा कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, प्रभाग - 2, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	अंकित अग्रवाल	मैनेजर सी एन आईटी, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री कुंदन लाल शर्मा	नायब तहसीलदार अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री रवि विश्वकर्मा	नायब तहसीलदार दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	नितेश साहू	राज्य कर निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर दुर्ग वृत्त- तीन दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	अजय सिंह	खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	खेमलाल नेताम	सहायक प्राध्यापक शासकीय चंद्रलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	शंभू प्रसाद निर्मलकर	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	अनुराग मित्तल	प्रबंधक सतर्कता, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	ईश्वरी वर्मा	निरीक्षक केंद्रीय मॉल एवं सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, प्रभाग - 1, 32 बंगला, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	चंद्र प्रकाश शर्मा	व्याख्याता शिक्षा, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	कैलाश कुमार साहू	सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	थानेश्वर मेश्राम	कृषि विकास अधिकारी उप संचालक, कृषि, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	मयंक कुमार कर्महे	एच.आर.डी.सी. विभाग भिलाई स्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	आर वी गोपाल राव	सतर्कता निरीक्षक सतर्कता, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	देव नारायण ध्रुव	खंड अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	अफजल खान	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	हरीश कुमार वर्मा	कृषि विकास अधिकारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, पाटन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

62	खिलेश गौर	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	डॉ रमेश कुमार मेश्राम	सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जामुल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	अजय कुमार सिंह	वरिष्ठ पर्यवेक्षक सतर्कता, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	संत राम मंडावी	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	अशोक सिंह यादव	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
स्थैतिक निगरानी प्रभारी			
1	थानेश्वर वर्मा	उप अभियंता नगर पंचायत पाटन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री महेन्द्र पाल	श्रम निरीक्षक सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	अमित कुमार चिराम	श्रम निरीक्षक सहायक श्रमायुक्त, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	अखिलेश चंद्राकर	कार्यपालन अभियंता नगर निगम भिलाई जोन 4	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	राजेन्द्र कुमार कसेर	उप अभियंता कार्यालय अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.1, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	डॉ उमेश वैद्य	सहायक प्राध्यापक. सेठ रतन चंद्र सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्रीधर जोशी	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	सुगंध चौधरी	स्टेशन अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र 9407986456	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	रोमन कुमार सिन्हा	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	पंकज कुमार जैन	सहायक प्राध्यापक. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	अशोक कुमार गुप्ता	खनिज सुपरवाइजर, जिला कार्यालय खनिज शाखा दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	ओम प्रकाश साहू	वाणिज्य कर निरीक्षक वाणिज्यकर अधिकारी, दुर्ग वृत्त एक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	डॉ संजय परगनिहा	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय जामुल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

14	किशोर कुमार रामटेके	राजस्व उप निरीक्षक नगर पालिक निगम, रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	जितेन्द्र कुमार मण्डावी	सहायक प्राध्यापक. शासकीय चंदुलाल चंद्राकर महाविद्यालय, पाटन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	राजेश्वर डी	सेक्शन अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	विजय कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	रियाज अख्तर	अनुभाग अधिकारी जनरल। स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	अनिल कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रावन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र,
20	मनीष तिवारी	उप अभियन्ता कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, दुर्ग संभाग, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र.
21	रौनक गजेन्द्र	कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, प्रभाग - 2, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	क्षीरसागर पटेल	खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	लिनेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	गोशिवेद्र टांडे	वाणिज्य कर निरीक्षक वाणिज्यकर अधिकारी, दुर्ग वृत्त एक	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	शकील अहमद खान	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	अजय बनर्जी	निरीक्षक एस्टेट, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	चंद्र शेखर नामदेव	वरिष्ठ संचालक सह तकनीशियनकंस्ट्रक्शन, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	ऐश्वर्य सिंह ठाकुर	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय, जामगांव-आर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	वेदप्रकाश सिंह	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र.
30	बी . चंद्रशेखर राव	उप अभियन्ता अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना मंडल दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	सतीश विनायक गाडगे	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी वाणिज्यकर कर , दुर्ग वृत्त चार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

32	अमित कुमार गौतम	कार्यकारी सहायक, कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क व सेवाकर, प्रभाग - 1, 32 बंगला, भिलाई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	नीलेश कुमार तिवारी	सहायक प्राध्यापक. सेठ रतन चंद्र सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	संजय कुमार वर्मा	वरिष्ठ संचालक सह तकनीशियनकंस्ट्रक्शन, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	विवेक मिश्रा	सहायक प्रबंधक। सीएसआर, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	सुखचंद सुखचंद	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	रमेश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक तहसीलदार अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	विनय शर्मा	सहायक प्राध्यापक.कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	प्रवीण शर्मा	आई.आर. विभाग, भिलाई स्टील प्लांट, 7587141487	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	मिथलेश पार्कर	निरीक्षक नापतौल संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, दुर्ग 9588438217	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	शुभम मिश्रा	सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता विध्यो लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	कारण यादव	उप अभियंता नगर पालिक निगम, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	कालिदास बघेल	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	रुहेल सिंह	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	राजेश कुमार मौर्य	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	गणेश रामनायक	सहायक प्राध्यापक.शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	हरीश श्रीवास्तव	उप अभियंता सहायक अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

48	देवेश कुमार गजपाल	सहायक प्राध्यापक. शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर, अहिवारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	शोएब मोहम्मद	सहायक प्राध्यापक. शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	बृजराज सिंह	औषधि निरीक्षक उपसंचालक खाद्य एवं औषधी प्रशासन दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	यशवंत कुमार प्रीतम	उप अभियंता कार्यपालन अभियंता वि/यो लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	हेमन्त कुमार भुआर्य	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	केवीएसआर नागाराजू	स्थापना अधिकारी जनरल। स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र,
54	मोहम्मद अनीस नजीर	अनुभाग अधिकारी जनरल। स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
55	वीरेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय पेण्ड्रावन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	झागेश्वर कुमार वैष्णव	उप अभियंता अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु उपसंभाग, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	प्रवीण कुमार साहू	उप अभियंता नगर पंचायत अमलेश्वर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	जसबीर सिंह	अतिरिक्त श्रम कल्याण अधिकारी औद्योगिक आरएफएल., भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	अमरजीत सिंह छाबडा	सेक्शन अधिकारी जनरल। स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	श्यामल बनर्जी	सेक्शन अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	नूतन कुमार देवांगन	सहायक प्राध्यापक. शासकीय महाविद्यालय रिसाली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	सचिन टोप्पो	निरीक्षक नापतोल सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	जागृत ठाकुर	सहायक प्राध्यापक. शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
64	एवीएचआरके मूर्ति	अनुभाग अधिकारी जनरल. स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
65	राकेश कुमार जैन	वरिष्ठ स्टॉक सत्यापनकर्ता फिन एन अकाउंट्स, भिलाई स्टील प्लांट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
66	संजीव सक्सेना	वरिष्ठ तकनीशियन जीएडी, भिलाई इस्पात संयंत्र	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

22. जिला-बेमेतरा

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री रेमन पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री शशि शेखर साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री आनंद यादव	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राहुल भगत	उप अभियंता आरईएस बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री शिव वर्मा	उप अभियंता आरईएस बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अभिषेक तिवारी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री अमन कुमार साहू,	उप अभियंता, जल संसाधन विभाग, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री ऋषभदेव भूआर्य,	उप अभियंता, जल संसाधन, विभाग बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री महेंद्र कुमार ठाकुर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री लक्ष्मी प्रसाद बंजारा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री राकेश गायकवाड	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री नितेश क्षत्रिय	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री निलेश साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री देवराज पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री आर.के.स्वर्णकार	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री हिमांशु कुमार दुबे	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री तामेश्वर वर्मा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सुमित आनंद चौरसिया	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री पेमेन्द्र पटेल,	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री फणेन्द्र पटेल,	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9	श्री बी.पी. देवांगन	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री नीरज बंछोर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री किशन बंजारा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राजेश घुड़सवार	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री ज्ञानेन्द्र काठले	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री शशिकांत परगनिहा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री राजीत पाण्डेय	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री दौलत साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री राकेश बांधे,	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री राजेश वर्मा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री संजय मानिकपुरी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री दुर्गेश पटेल	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री संजय अनंत	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री लक्ष्मी कुमार	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री रामकिंकर साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री अश्वनी निर्मलकर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री अश्वनी कुमार मांडले,	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री दुष्यंत मारकंडे	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री त्रिलेश कुमार	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री विक्रम महिलांग,	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अशोक कुमार जाटवर	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री नागेन्द्र कुमार वर्मा,	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

31	श्री लोचन प्रसाद ठाकुर	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री हरनारायण बंजारा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री गजेन्द्र नवरंग	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री डिगेन्द्र साहू	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री बलराम सिंह	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, साजा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री राजीव वर्मा	उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री वसीम अहमद खान	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेरला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री माधव चंद्रवंशी	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, बेमेतरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री एल.पी. बंजारा	ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, नवागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

23. जिला-कबीरधाम

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्रीमती पूजा सिंगसर्वा	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग पंडरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री संजय कुमार मोध्या	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, पंडरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री भूपेश चंद्राकर	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, कुण्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	सुश्री नेहा उके	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, पिपरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	सुश्री प्रभा कश्यप	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग, कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री रविन्द्र कुमार कुर्रे	अतिरिक्त तहसीलदार, राजस्व विभाग पिपरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	सुश्री सुनीता गेडाम	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग, बाजार चारभाठा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री नागेश कुमार तांजय	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग सहसपुर लोहारा,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री जितेन्द्र मिश्रा	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग विरेंद्रनगर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	सुश्री डिम्पल ध्रुव	नायब तहसीलदार बोड़ला, राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री ओ.पी.मिश्रा	नायब तहसीलदार बोड़ला, राजस्व विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

12	श्री जयेश कंवर	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग रेंगाखारकला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्रीमती कावेरी मुखर्जी	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री हुलेश्वर कुमार	नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री चंद्रशेखर	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग कवर्धा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री महेन्द्र वैष्णव	सहायक अधीक्षक, भु-अभिलेख शाखा कबीरधाम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री अंकुर जायसवाल	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग, सिल्हाटी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री आनंद मरकाम	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग, सहसपुर लोहारा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री अजय पांडेय	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग, बाघामुड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री जीवनलाल मारको	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग, कोदवागोड़ान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री गजेन्द्र अनंत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग, रमतला/पंडरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	तोमेश्वरी भंडारी	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग दामापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री महेन्द्र भास्कर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग, कुण्डा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री नीलूराम साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग पौनी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सुरजीत सिंह	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग कुकदूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री एम.आर.श्याम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग, कुकदूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री मनमोहित कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग अमनिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री कृष्णा धुर्वे	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग चिल्फी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री एस.आर.वासुरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग चिल्फी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री बी.एम.चन्द्रवंशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग बोड़ला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री कामेश्वरी क्षत्रीय	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग दशरंगपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री आनंद कोशले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग कोसमंदा/दशरंगपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

15	श्री बलवंत डडसेना	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग इंदौरी/झलमला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री अंकुर जायसवाल	राजस्व निरीक्षक, राजस्व विभाग सिल्हाटी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मनीष वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग सहसपुर लोहारा/बिड़ोरा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री दिपेश जायसवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकार, कृषि विभाग महाराटोला/सिल्हाटी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

24. जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री चेतन साहू	उप अभियंता, जनपद पंचायत छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री हेमप्रकाश देवांगन	वनपाल, वनपरिक्षेत्र गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री राजकुमार तिवारी	वनपाल, वनपरिक्षेत्र गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री चेतन लाल वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री नीलाम्बर जंघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री प्रकाश राम मरकाम	उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री धरमचंद गोन्डाने	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री दुर्जनराम नेताम	वनपाल, वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री चंद्र कुमार उइके	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री महिपाल सिंह राजपूत	उप वनपाल, वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री आशीष खत्री	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री देवेन्द्र वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री प्रद्युमन तिवारी	वनपाल वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अमरेन्द्र कुमार कुशवाहा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	दीपक दास वैष्णव	वनपाल वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री सतेन्द्र कुमार निषाद	वनपाल वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी दल प्रभारी

1	श्री रविकांत सूर्या	उपअभियंता जलसंसाधन उप संभाग छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री चंद्रकांत वर्मा	वनपाल वनपरिक्षेत्र गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री बजरंग सिंह	क्षेत्रीय वनपाल वनपरिक्षेत्र गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री शुभम चंद्राकर	अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन संभाग खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री पूनमचंद कटारिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री लेखेश्वर तिवारी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री बुलेश कुमार वर्मा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री राधेश्याम वर्मा	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण भ./स. खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री अशोक कुमार गहरवार	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डलाधिकारी खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री दिनेश कुमार धुर्वे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री गौतम सिंह मण्डावी	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डलाधिकारी खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री विकास हिरणवार	वनपाल, वनपरिक्षेत्र गण्डई	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री रविकांत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री शेरसिंह तुलावी	वनपाल वनपरिक्षेत्र छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री दिलीप बंजारी	उप वनक्षेत्रपाल, वन मंडल खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री संदीप कुमार भास्कर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि छुईखदान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री अनिल कुमार घोरमारे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सुनील सिंह	वनपाल वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री महेश मिश्रा	वनपाल वनपरिक्षेत्र खैरागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

25. जिला- राजनांदगांव

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री जीवन लाल चंद्रवंशी	कृषि विकास अधिकारी, कार्या. वरि.कृ.वि.अ., डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दीपक कुमार बोस,	उप वन क्षेत्रपाल, वन विभाग, डोंगरगढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री माखनलाल चंद्रवंशी	वि.वि.अधि., जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री प्रवीण कुमार झा,	ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री रिषभ सुलाखे	उप अभियंता, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री एच.के. चांदेश्वर,	ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री निखिलेश गैरारे,	उप अभियंता, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री संजय कुमार बोपचे,	ग्रा.कृ.वि.अ., कार्या. वरि.कृ.वि.अ. डोंगरगढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री असद सिद्दीकी,	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री सुनील शर्मा,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.व.कृ.वि.अ.डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री संतोष बिनवार	उप अभियंता (कार्यक्षेत्र डोंगरगढ़), कार्या. अनु.अधि. लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री नीरज मोटलानी	उप अभियंता, मुख्य कार्य. अधिकारी, ज.प. राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	कामता प्रसाद साहू	ग्रा.कृ.वि.अधि.कृषि विभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री रविन्द्र सिंह नेताम	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री टोपेंद्र दीवान	उप अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री चंद्रकांत साहू	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या. वरि.कृ.वि.अ., राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री उमेश साहू	उप अभियंता, लो.नि.वि.सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री आजुराम सिन्हा,	ग्रा.कृ.वि.अ., कार्या.शास.कृषि प्रक्षेत्र, सुरगी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री भरत लाल उइके,	ग्रा.कृ.वि.अ., कार्या.वरि.कृ.वि.अ., राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री निरंजन कुमार जैन,	उप अभियंता, कार्या.जल संसाधन बैराज, संभाग डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री कौशल कुमार जत्ती,	उप अभियंता, डोंगरगांव सेक्शन, लो.नि.वि. (म/स) राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री बलवीर सिंह	सहा.वि.वि. अधि. जनपद पंचायत राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

23	श्री एम.आई. खान	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री प्रसेनजीत बनसोड़	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री ऋषि पटेल	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री बी.के. गनवीर	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री ए.के. हेडाउ	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री आलोक सिंह	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री डोमेश्वर साहु	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री मोहित साहु,	ग्रा.उ.वि.अधि. डोंगरगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री संदीप वैष्णव,	कृ.वि.अ., कार्या.वरि.कृ.वि.अ. डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री नीरज कुमार स्वर्णकार,	उप अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री एम.एल. सवई,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.वरि.कृ.वि.अधि. डोंगरगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री सुदेश पटेल	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री एच.के. वैष्णव	ग्रा.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग, छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री किशोर मेश्राम	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री मुकेश पडवार	ग्रा.कृ.वि.अधि., कृषि विभाग, छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री जी.पी. सहाडे	कृषि विस्तार अधिकारी, छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री रविशंकर पाण्डे,	उप अभियंता, जनपद पंचायत छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री सुलेन्द्र कुमार साहु,	उप अभियंता, जनपद पंचायत, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री नितीन कोठारी,	उप अभियंता, जनपद पंचायत, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री नीलकंठ लसेल,	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ./स.) छुरिया क्षेत्र राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री गिरधर प्रसाद लारिया	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं उप संभाग छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री सुनील शर्मा,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.व.कृ.वि.अ.डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री प्रभाकर गजबिये,	उप अभियंता, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री कौशल कुमार जत्ती,	उप अभियंता, डोंगरगांव सेक्शन, लो.नि.वि. (भ/स) राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री बलवीर सिंह	सहा.वि.वि. अधि. जनपद पंचायत राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री नीरज कुमार स्वर्णकार,	उप अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री एम.एल. सवई,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.वरि.कृ.वि.अधि. डोंगरगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

7	श्री नीलकंठ लसेल,	उप अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ./स.) छुरिया क्षेत्र राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री गिरधर प्रसाद लारिया	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं उप संभाग छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री दुष्यंत कुमार वर्मा,	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कार्या.वरि.कृ.वि.अ.डोंगरगढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री शेखर श्रीवास्तव	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री कमलेश देवांगन	सहायक विकास विस्तार ऑफिसर जनपद पंचायत डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री राहुल कुमार गौतम	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री जितेन्द्र वर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अनमोल मेश्राम	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, डोंगरगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री प्रशांत चंद्रवंशी	मत्स्य निरीक्षक, मछली पालन विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री घनश्याम सोनी	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कार्या. उप संचालक कृषि राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री संजीव कुमार द्विवेदी,	उप अभियंता (घुमका सेक्शन) लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री प्रवीण कोसले,	उप अभियंता, उप संभाग डोंगरगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री जितेन्द्र कुमार भनारकर,	उप अभियंता, उप संभाग डोंगरगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री सुशांत कौशिक	उप अभियंता, लो.नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री योगेश बिसेन,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.वरि.कृ.वि.अ. राजनांदगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री चुरामनसिंह टंडन	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री आनंद राम जंघेल	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री नीरज टैगोर	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री याजवेन्द्र कटरे	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री वैभव मांडवी	ग्रा.कृ.वि.अ., सलोनी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री अविनाश दुबे	ग्रा.कृ.वि.अ., राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री पी.के. यादव	ग्रा.कृ.वि.अ., सुरगी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री शशिकांत श्रीवास,	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री अभय कापरे	सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री ललित साहू,	ग्रा.कृ.वि.अ., वरि.कृ.वि.अ. डोंगरगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री शेखर हिरवानी	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री सतीश नेवरा	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री दुनेश्वर मिश्रा	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री एन.के. मंडावी	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री शैलेश साहू	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री संजय उइके,	उप अभि., डोंगरगांव सेक्शन, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री प्रणेश शर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री बाबूलाल राणा,	उद्यान विकास अधिकारी, डोंगरगांव,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री चमन बघेल	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, तुमड़ीबोड, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री पी. के. सिंह	उप अभियंता (कार्यक्षेत्र डोंगरगांव), कार्या. लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री सुनील ठाकुर,	ग्रा.कृ.वि.अधि., कार्या.व.कृ.वि.अ., छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री नितिन श्रीवास	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री हितेश गुप्ता	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री रामेश्वर सिंहा	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री शिशिर विश्वास,	ग्रा.कृ.वि.अधि., छुरिया,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
39	श्री गिरिजा शंकर राणा	सहा.उ.वि. अधिकारी, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री संतोष कुमार साहू,	ग्रा.कृ.वि.अ., कार्या.वरि.कृ.वि.अ., छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री संदीप साहू	मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग, छुरिया जिला राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री देव कुमार भूआर्य,	उप अभियंता, कुमर्दा सेक्शन, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास	सर्वेयर (कार्यक्षेत्र छुरिया), कार्या. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री विजय राव ढोके,	उप अभियंता, खुज्जी सेक्शन, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री प्रवीण कोसले,	उप अभियंता, उप संभाग डोंगरगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री जितेन्द्र कुमार भनारकर,	उप अभियंता, उप संभाग डोंगरगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री पी.के. यादव	ग्रा.कृ.वि.अ., सुरगी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री वैभव मांडवी	ग्रा.कृ.वि.अ., सलोनी, राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री संजय उइके,	उप अभि., डोंगरगांव सेक्शन, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री चमन बघेल	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, तुमड़ीबोड, डोंगरगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री संदीप साहू	मत्स्य निरीक्षक, मत्स्य विभाग, छुरिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री विजय राव ढोके,	उप अभियंता, खुज्जी सेक्शन, लोक निर्माण विभाग (भ/स), राजनांदगांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

26. जिला- मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी**उड़नदस्ता प्रभारी**

1	श्री दिनेश कुमार साहू	नायब तहसीलदार अं.चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री एन के यादव	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी अं.चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री टी.एल.खरे	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी अं.चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री ढालसिंह कश्यप	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी कौड़ीकसा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	सुश्री संध्या नामदेव	तहसीलदार मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री दिलेश्वर कुमार वर्मा,	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री प्रमेन्द्र कुमार माहेश्वरी,	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री मदनलाल उइके,	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्रीमती रीमा मरकाम	तहसीलदार तहसीलदार मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री शंकरलाल कडीयाम	सहायक पशु चिकित्साक्षेत्र अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री पुनेन्द्र कुमार	ग्रा.कृ.वि.अधिकारी, बोडेगाँव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री अशोक कुमार भुअर्य	वन रक्षक मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री राजकुमार आवडे	नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री राज आशीष	नायब तहसीलदार औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री लोकचंद साहू	नायब तहसीलदार मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री आर. डी. ऊके	ग्राम. कृ.वि.अधिकारी.अ. चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री प्रवीण कुमार राव	ग्राम. कृ.वि.अधिकारी. मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

18	श्री भूपेंद्र कुमार ठाकुर	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री मुरहाराम बोगा	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री रूमलाल मुलेशिया	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. अ. मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री उमेश कुमार साहू	वन रक्षक मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री राजकुमार आवडे	नायब तहसीलदर प्रभारी तहसीलदार औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री राज आशीष	नायब तहसीलदर औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री लोकचंद साहू	नायब तहसीलदर मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री आर. डी. ऊके	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. अ. चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री प्रवीण कुमार राव	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री भूपेंद्र कुमार ठाकुर	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री मुरहाराम बोगा	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री रूमलाल मुलेशिया	ग्राम. कृ.वि. अधिकारी. अ. मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री उमेश कुमार साहू	वन रक्षक मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री व्ही.के. मांडवी	सहा. आंत. लेखा. परी. एवं करा. अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री किसनलाल कोरटिया	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत अं. चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अनिश कुमार पंड्रे	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत अं. चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री वीरेंद्र प्रसाद लाडेशवर	ऐ. पी. सी. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री अनिल कुमार निराला	वन रक्षक परिक्षेत्र दुलकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री भूपेंद्र कुमार परतेती	ग्रा. कृ. वि. अधिकारी, सरोली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री तरुण कुमार नेताम	वनरक्षक कोहका	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री सहदेव राम नेताम	विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री परदेशी राम तारम	उप वनपाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री बिरुराम धुर्वे	सहा. आ. ले. परी. एवं करा. अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री अनुराग राय	वनपाल औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री मन्नू साहू	वनपाल औंधी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री बी. आर. सेन.	सहा. आंत. लेखा. परी. एवं करा. अधिकारी जनपद पं. आम्बागढ़ चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री सालिक राम नार्वसे	वनपाल मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री पुरषोत्तम सिंह भल्लावी	उप वनक्षेत्रपाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	श्री बी.आर. सेन.	सहा.आंत. लेखा. परी.एवं करा . अधिकारी जनपद पं. आम्बागढ़ चौकी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री सालिक राम नार्वसे	वनपाल मोहला	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री पुरषोत्तम सिंह भल्लावी	उप वनक्षेत्रपाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

27. जिला-उत्तर बस्तर कांकेर**उड़नदस्ता प्रभारी**

1	श्री रथीन्द्रनाथ बैनर्जी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पखांजूर.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री नितेश भवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि प्रक्षेत्र पी.व्ही. 32 पखांजूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री बिनायक बैरागी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि प्रक्षेत्र पी.व्ही. 32 पखांजूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री देवव्रत मृधा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि प्रक्षेत्र पी.व्ही. 32 पखांजूर.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री रथिन विश्वास	ग्रा.कृषि विस्तार अधिकारी मरोड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री डी.एस. पोया	विकास विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री अमित चक्र	सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पंचायत अंतागढ़.	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री उदय यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कोयलीबेड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री रिकेश कुमार सिन्हा	प्रशिक्षण अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अंतागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री हरीश कुमार दर्पो	उप वनक्षेत्रपाल पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री रामप्रसाद नंदेश्वर	वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री संजय मण्डावी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री दुर्रुगसाय नेगिया	उप वनक्षेत्रपाल पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री संदीप सोरी	उद्यान अधीक्षक भण्डारडिगी दुर्गुकोदल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री डोमेंद्र सिंह धारीवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग दुर्गुकोदल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री जी.एस.कंवर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मनीष नेताम	वनपाल वन विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री राजकमल सुखदेवे	बीआरसी राजीव गांधी शिक्षा मिशन चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

19	श्री प्रमोद सार्व	अनुविभागीय कृषि अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री आर.के. सुमन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री मयाराम नेताम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री राजेश कुंजाम	सहा. करारोपण अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री रंगतु राम नेताम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री दिनेश कुमार कुंजाम	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री पी.आर. सेठिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री सारंग श्रीवास्तव	सहा. वि. वि. अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री गुप्तेश्वर रंगारी	सहा. वि. वि. अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	माधव पाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अंतागढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	लोकेश सिन्हा	ग्रामीण उद्यान अधिकारी, अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री श्रीकांत यदु	उप वनक्षेत्रपाल पूर्व वनमण्डल भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री युगल सिन्हा	वनपाल वन विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री के.के. मेश्राम,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अमित बाला	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री उत्तम सरकार	ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री दीपांकर मिस्त्री	ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी बडेझाड़कटटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री नारायण हालदार	ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी छोटेबेठिया	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री रितेश कुमार पटेल	ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी कापसी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री चेतन प्रसाद देहारी	ग्रा. कृषि विस्तार अधिकारी बांदे	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री टिकेश यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कोयलीबेड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सी.के. कोवाची	ग्रामीण उद्यान अधिकारी, अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री प्रवीन चंद्राकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री मिथलेश कुमार धुर्वे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री हेमंत नेताम	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री किरण भण्डारी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राकेश सोरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री डी.आर.कोमरा	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग दुर्गुकोंदल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री कमलेश पदमाकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग दुर्गुकोंदल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री मुकेश साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग दुर्गुकोंदल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री ओमप्रकाश शर्मा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री सत्येंद्र जाधव	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री देवेन्द्र ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री विजेन्द्र चौहान	सहायक ग्रेड 2 जनपद पंचायत कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री विजय कुमार रामटेके	सहा. करारोपण अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री प्रणव मिश्रा	सहायक विकास विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री टी.आर.भण्डारी	सहायक मतस्य अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री अमित निशांत कुजुर	कनिष्ठ रेशम निरीक्षक रेशम केन्द्र परसोदा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री नरेन्द्र कुमार नेताम	फील्डमेन रेशम विभाग कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री के.एम.सिददकी	सहायक ग्रेड 2 जनपद पंचायत नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री यशवंत मारकण्डे	सहायक ग्रेड 2 जनपद पंचायत नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री तामेश्वर साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

रिजर्व टीम

1	राजेश दास	ग्रामीण उद्यान अधिकारी, अंतागढ़,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	जितेंद्र कुमार खेलन	सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पंचायत पखांजूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री दुर्गेश सलाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री टेमन साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग चारामा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री महेन्द्र कुमार जुरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नरहरपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री विवेक साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कांकेर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

28. जिला-कोण्डागांव

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री किशोर कुमार कोलहे	अनुविभागीय अधिकारी (लो.स्वा.यां.) केशकाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कमाल अहमद	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री ईश्वर कवाची	वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री रविप्रकाश जोशी	उप अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, केशकाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री गजेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बडेराजपुर, शिक्षा विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री सोहन लाल नाग	वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री सालिकराम सलाम	सहकारिता निरीक्षक, फरसगांव, सहकारिता विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री टी.एल. नाग	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी, कार्या. जनपद पंचायत फरसगांव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री निराकार सिंह ठाकुर	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री धनसिंह नेताम	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री राकेश शुक्ला	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री मनोज भण्डारी	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री सुनील चन्द्र मिश्रा	उप वन क्षेत्रपाल, परिक्षेत्र सहायक चिपावण्ड, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री घनश्याम तारम	सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री शरद कोड़ोपी	उप वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

16	श्री प्रकाश नारायण पैकरा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी विभाग, कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री हिमांचल नेताम	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, उद्यानिकी विभाग, कोण्डागांव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री अन्तुराम पटेल	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री हिरामन मरकाम	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री छेदीलाल नेताम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री सुदर्शन राम नेताम	वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी दल

1	श्री संजय यादव	वन परिक्षेत्र अधिकारी, धनोरा, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री देवलाल नेताम	वन परिक्षेत्र अधिकारी, धनोरा, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री धनवार राम पोयाम	वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री मिर्जा फिरोज बेग	वन परिक्षेत्र अधिकारी, बड़ेराजपुर, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री खिलावन दास मानिकपुरी	वन परिक्षेत्र अधिकारी, बड़बत्तर वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अमृत लाल ताम्रकार	वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री नरेन्द्र कुमार मेश्राम	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री भागसिंह सूर्यवंशी	वन परिक्षेत्र अधिकारी बड़ेराजपुर वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री राधेश्याम कश्यप	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री विनोद कुमार ए.एस.	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

11	श्री सेवक राम ठाकुर	वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन केशकाल वन मण्डल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री अनिल कुमार कोसरिया	उप वनपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री गोपाल चन्द्र विश्वकर्मा	वन परिक्षेत्र अधिकारी, बहीगांव वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री शिवनाथ सेठिया	वन परिक्षेत्र अधिकारी, परिक्षेत्र बड़ेडोंगर वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री पवन कुमार नाग	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल केशकाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री नरेन्द्र पटेल	उप वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री मानसिंह नेताम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री जगत कोराम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री तुलसी राम मरकाम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री हरीश बघेल	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री लखमा राम मरापी	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री सांयतूराम मरकाम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री प्रेमसिंह मण्डावी	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री कुमेश्वर कश्यप	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री उरदव महावीर	वनपाल, वनमण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री मोतीलाल बेलसरिया	उप वन क्षेत्रपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री कमलेश साहू	वनपाल, वनमण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री गजेन्द्र मरकाम	वनपाल, वन मण्डल कोण्डागांव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29	श्री धनीराम पोयाम	उप वन क्षेत्रपाल. वन मण्डल कोण्डागांव. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री मोहन बघेल	उप वन क्षेत्रपाल. वन मण्डल कोण्डागांव. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

29. जिला-नारायणपुर

उड़नदस्ता प्रभारी

1	1. श्री मेहत्तर सिंह कुंजाम,	(सहायक अभियंता) जल संसाधन विभाग नारायणपुर मो. नंबर 9424113794	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	2. श्री धरोत्तम देहारी,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9479242207	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	3. श्री नरेन्द्र कुमार मण्डावी,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9399875613	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	1. श्री विशाल सिंह ध्रुव,	(सहायक अभियंता) जल संसाधन विभाग नारायणपुर मो. नंबर 7587784189	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	2. श्री संजय कुमार नाग,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9406360101	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	3. श्री दीपक बरसैया गुप्ता,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9340185305	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	1. श्री उत्तम कुमार पोर्ते,	सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मो. नंबर 9407781519	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	2. श्री कमलेश नाग,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 6265037259	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	3. श्री डमेन्द्र मांझी,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9407628199	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी दल

1	1. श्री रेखराज दलेन्द्र	(श्रम निरीक्षक) कार्यालय श्रमपदाधिकारी नारायणपुर मो. नंबर 7587201801	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	2. श्री गणेश कुमार उईके,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 7489274105	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	3. श्री रामाधीन कुलदीप,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 7587317788	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	1. श्री विवेक ठाकुर,	सहायक मत्स्य अधिकारी नारायणपुर मो. नंबर 9406121686	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	2. श्री शिवकुमार कश्यप,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9479016820	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	3. श्री चंद्रेश कुमार तिलगाम,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9407775149	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	1. श्री जयसिंग पोटाई,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9479123139	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	2. श्री सोनाउ पोटाई,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9424171872	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	3. श्री सुन्दर वड्डे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कार्यालय उप संचालक कृषि नारायणपुर मो. नंबर 9407717636	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

30. जिला-बस्तर

उड़नदस्ता प्रभारी

1	श्री अंशुमाली वर्मा	राजस्व निरीक्षक, तहसील भानपुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री गुलशन उईके	मंडी निरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति उपमंडी जैतगिरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री विक्रम नंदनवार	सहकारिता विस्तार अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी समितियां जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री अजय सिंह सिदार	सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी समिति जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री मुकुंद पुरी	निरीक्षक, वाणिज्य कर कार्यालय वृत्त-एक जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री प्रेमचंद झा	राजस्व निरीक्षक, तहसील भानपुरी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री मनीष कुमार नाग	सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी समितियां जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री गोपाल कृष्ण मंडावी	राजस्व निरीक्षक, कार्यालय कलेक्टर नजुल नवकरण जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9	श्री प्यारे लाल पैकरा	राजस्व निरीक्षक, कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री विपिन टोप्पो	राजस्व निरीक्षक, नजूल शाखा जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री शिवनाथ लोई	राजस्व निरीक्षक, कुरंदी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राजेश सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक, तहसील दरभा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री बी.नागेश	पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, घाटपदुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री एस.एल. कुजुर	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, उप पंजीयक सहकारी समितियां जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री नितेश महन्त	श्रम उप निरीक्षक, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री पवन कुमार नेताम	राजस्व निरीक्षक, तहसील लोहंडीगुड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

स्थैतिक निगरानी दल

1	श्री नैनसाय पैकरा	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सोरगाँव कार्या उप संचालक उद्यान जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री जोलजस खलखो	विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री अशोक मौर्य	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पिपलावंड अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री पी-एस-बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुण्डागाँव अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री शिवराम बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जगदलपुर भानपुरी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री डी-एस- नेताम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भरनी अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री मंचुरम कश्यप	उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र बकावण्ड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री दशरू राम सलाम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जैबेल अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

9	श्री दीनबंधु कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ककनार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री तरुण पानीग्राही	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोलावल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री नोहरु राम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किंजोली कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री लोकेन्द्र बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बकावण्ड कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री बसन्त टोप्पो	ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी लामकेर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री दानिल जाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उलनार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री सुनील सेठिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोराटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री मोहन कश्यप	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बकावण्ड कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री महेश्वर पटेल	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कार्या उप संचालक उद्यान जगदलपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री गामन कुमार घृतलहरे	ग्रामीण वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बकावण्ड कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यालय बकावण्ड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री गिरीश कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जैतगिरी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री दौलत राम नेताम	कृषि विकास अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री मनोज जालंधर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बडे गरावण्ड कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री चन्द्र शेखर जैन	विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत बस्तर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री तुलसी नाग,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरगीपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

24	श्री विजय दोरा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केसरपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
25	श्री यू-डी-बंजारा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी फ्रेजरपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
26	श्री केशव राम नूचार्य	ग्रामीण उद्यान अधिकारी आसना कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
27	श्री नितिन गजेन्द्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुसपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
28	श्री परेशचन्द्र मण्डल	कृषि विकास अधिकारी सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
29	श्री अंकित गुप्ता	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी उप संचालक उद्यान	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
30	श्री दुर्जोधन सेठिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
31	श्री खमेश जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
32	श्री जी.के.हेडाऊ	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रोपणी आसना कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
33	श्री विक्रम भदौरिया	कृषि विस्तार अधिकारी जैबेल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
34	श्री भूपेन्द्र जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बड़े मारेंगा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
35	श्री बलिहार कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पलवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
36	श्री खिलानंद चिन्दा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी राजुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
37	श्री बंसत सिंह ठाकुर	उप वनक्षेत्रपाल, वनोपज नाका धनपूजी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
38	श्री शिवराम यादव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मारकेल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

39	श्री मिथुन मण्डल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बाबूसेमरा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
40	श्री जगुराम सेठिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी माडपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
41	श्री कन्हैया लाल अहिरवाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्या- प्राचार्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र कुमहरावण्ड	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
42	श्री कमल साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरगीपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
43	श्री जयसिंह कश्यप	कृषि विकास अधिकारी सहायक मिटटी परीक्षण कार्यालय जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
44	श्री जोहन नायक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बडे मुर्मा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
45	श्री बंशीधर सिंह ठाकुर	उपवन क्षेत्रपाल परिक्षेत्र माचकोट	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
46	श्री दिनेश जोशी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तारागाँव कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
47	श्री सोमेश पात्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अलनार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
48	श्री आई-एल- पटकर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोहण्डीगुडा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
49	श्री तरुण ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, बिन्ता कार्या अनुविभागीय अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
50	श्री कमलेश पंत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मटनार	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
51	श्री गनदर सिंह बघेल	उप वनक्षेत्रपाल वनमंडलाधिकारी जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
52	श्री के.आर.नाग	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बडांजी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
53	श्री नवीन पानीग्राही	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मालगाँव	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
54	श्री प्रकाश कुमार खलको	कृषि विकास अधिकारी पोटा नार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

55	श्री प्रवीण पानिग्राही	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बड़े किलेपाल कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
56	श्री देवलाल बैक	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोडेनार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
57	श्री अनिल देवांगन	उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
58	श्री सागर सेन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी केलाउर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
59	श्री रुपधर चालकी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
60	श्री जी-के-आचार्य	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पखनार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
61	श्री संजीव लाल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दरभा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
62	श्री नितेश मिश्रा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चितापुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी कृषि जगदलपुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
63	श्री हुर्रा राम सोढ़ी	उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र जगदलपुर उत्पादन	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

31. जिला- दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

उड़दस्ता प्रभारी, स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री पब्बा शंकर	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कुषनु राम कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री सामेल कुंजाम	कृषि विस्तार अधिकारी दन्तेवाड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री गिरधारी निषाद	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री साधुराम राणा	उप वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र गीदम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री अनिष कुमार यादव	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री यमुना प्रसाद धरत	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री षलेष सोनबर	ग्रामीण कृषि विस्तारक अधिकारी	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

32. जिला-बीजापुर

उड़दस्ता प्रभारी, स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री मेघराज वट्टी,	सहायक विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री आर.ए. बालेन्द्र,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
3	श्री एस बी गौतम,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भोपालपटनम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

4	श्री प्रभाकर कुमार चन्द्राकर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत उसूर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री डी.आर.बघेल,	सहा.आ.ले.परीक्षण अधिकारी जनपद पंचायत बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री श्रीनिवास मरकेला	कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय मृदा संरक्षण अधिकारी बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री बामदेव नाग	उप वनक्षेत्रपाल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री प्रदीप कुमार कोराम,	सहा.वि.वि. अधिकारी, जनपद पंचायत बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री एस.एक्का	सहा.आं.ले.परि. एवं करा. अधिकारी जनपद पंचायत भोपालपटनम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री बड़दी राम मूर्ति,	वनपाल वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री भरत देहारी	व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल चंदूर,	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री चन्द्रशेखर वासम	व्याख्याता एवं प्रभारी प्राचार्य हाईस्कूल तारलागुड़ा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री सुन्दरलाल प्रसाद पांडे	वनपाल, वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री अनिल लेकामी	सहा.आं.ले.परि. एवं करा. अधिकारी जनपद पंचायत भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री पिंगल कुमार नाग	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री माधव राम नाग,	उपवनक्षेत्रपाल, नेलसनार वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	गोकरण प्रसाद गोखले	व्याख्याता (पं) शा.उ.मा.वि. पामेड़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री कैलाश राम कोडोपी	व्याख्याता (पं) शा.उ.मा.वि. पामेड़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री देवेन्द्र हिकमी,	उप वनक्षेत्रपाल पामेड़ वनमण्डल बीजापुर	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री अनिल कर्मा	सहा.आं.ले.परि. अधिकारी जनपद पंचायत भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री महेश राम उईके,	सहा.वि.वि. अधिकारी, जनपद पंचायत भैरमगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री संपतलाल दीवान	सहा.आं.ले.परि. एवं करा. अधिकारी जनपद पंचायत भोपालपटनम	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
23	श्री आसमन लाल नेताम	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आवापल्ली	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

33. जिला-सुकमा

उड़दस्ता प्रभारी,स्थैतिक निगरानी प्रभारी

1	श्री चन्द्रभान साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
2	श्री कोपेश्वर कुमार गजेन्द्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

3	श्री हेमलाल बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
4	श्री कमलभान सिंह बागरी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
5	श्री लोकनाथ बघेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
6	श्री राकेश कुमार साहू	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
7	श्री कमलेश कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
8	श्री चरण सिंह मंडावी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
9	श्री धनेश्वर कश्यप	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
10	श्री येम कुमार ठाकुर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
11	श्री यशवन्त कुर्रे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
12	श्री राजेंद्र प्रसाद दरेंद्र	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
13	श्री नितिन कुमार दीन	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
14	श्री विनोद कुमार नाग	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, उप संचालाक, कृषि, सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
15	श्री कुलभूषण बघेल	उप अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
16	श्री दिलीप मंडावी	उप अभियंता, कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यां. वि. सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
17	श्री शंकर लाल बघेल	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिन्दगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
18	श्री विनोद शेकोकर	उप अभियंता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
19	श्री अतुल्य गुप्ता	उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सुकमा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
20	श्री गोपाल कुमार	सहायक विकास विस्तार अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांटा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
21	श्री संतोष कुमार तालंदी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कोन्टा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
22	श्री नागेश धुव	उप अभियंता, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग कोन्टा	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

23	श्री प्रदीप कुमार बघेल	उप अभियंता, जनपद पंचायत छिन्दगढ़	संबंधित लोकसभा क्षेत्र
24	श्री भोजराज सिन्हा	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, तोंगपाल	संबंधित लोकसभा क्षेत्र

हस्ता. /—

(प्रशांत कुमार भास्कर)
उप-सचिव.